

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176283

UNIVERSAL
LIBRARY

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ

(परिचय-पुस्तक)

सम्पादक :—

अखिल विनय (भू० ष० स० संपादक 'कर्मयोग')
गीरडाराम वर्मा 'चंचल'

प्रकाशक :—

हिन्दी-साहित्य-समिति,
बिडला कॉलेज, पिलानी (जयपुर)

प्रथम संस्करण | दिसम्बर १९४८ | मूल्य ३।।) रु०

प्रकाशक—
हिन्दी साहित्य समिति,
बिलाल कॉलेज, पिलानी (जयपुर)

प्रथम संस्करण १००० प्रतियाँ
दिसम्बर १६४८ ; मूल्य ३॥)
(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

मुद्रक :
वा० ओकारदयाल गर्ग,
गर्ग प्रिंटिंग प्रैस, जयपुर ।

विषय-सूची

				पृष्ठ संख्या
१—सम्पादक की आसन्दी	श्री आसुदेवशरण अप्रबाल	...		१
२—हिन्दी पत्रों के सवा सौ वर्ष	श्री कन्हैयालाल सहल एम० ए०			४
३—दैनिक पत्र	४४
४—धार्मिक एवं दार्शनिक				
(क) आर्यसमाजी पत्र	५१
(ख) सनातनधर्मी	५१
(ग) जैनधर्म	५३
(घ) बौद्धधर्म	५५
(ङ) ईसाई	५६
(च) आध्यात्मिक	५७
(छ) पौराणिक	५८
(ज) सांस्कृतिक	५९
(झ) साम्प्रदायिक	६०
(ञ) विविध	६१
५—ऐतिहासिक एवं शोध पत्रिकाएँ				
(क) इतिहास सम्बन्धी	६३
(ख) साहित्य सम्बन्धी	६४
६—साहित्यिक एवं शैक्षणिक				
(क) प्रगतिवादी	६६
(ख) गल्प व कहानी	६७
(ग) काव्यात्मक	७१
(घ) आखोचनात्मक	७२
(ङ) माधा सम्बन्धी	७२

(स)

(च) हास्यरस प्रधान	७४
(छ) शिक्षा	७५
(ज) सामान्य	७७

७—राजनीतिक पत्र

(क) कांग्रेसी व गांधीवादी	८७
(ख) समाजवादी	९०
(ग) उग्र राष्ट्रीय	९३
(घ) अग्रगामी	९४
(ङ) हिन्दू राष्ट्रवादी	९५
(च) किसान व मजदूर	९६
(छ) सरकारी पत्र	९७
(ज) राष्ट्रीय पत्र	९९
(झ) सामान्य	१०५

८—सामाजिक, संस्था प्रचारक एवं जातीय

(क) अद्युतोदार	११०
(ख) ग्रामोत्थान	११०
(ग) संस्था प्रचारक	१११
(घ) जातीय	११३
(ङ) साधारण	११६
(च) स्काउटिंग	११६
(छ) प्रवासी, आदिवासी	११७

९—स्वास्थ्य सम्बंधी

(क) आरोग्य	११८
(ख) आयुर्वेद	११९
(ग) ऋग्याम	१२१

(ग)

१०—वैज्ञानिक

(क) शुद्ध विज्ञान	१२८
(ख) मनोविज्ञान	१२९
(ग) भूगोल	१३०
(घ) ज्योतिष	१३१
(ङ) कृषि	१३२
(च) काम विज्ञान	१३३
(छ) प्रनथालय शास्त्र	१३४

११—अर्थ शास्त्र, वाणिज्य एवं व्यवसाय

(क) अर्थ शास्त्रीय	१२८
(ख) व्यावसायिक	१२९

१२—बालकोपयोगी

(क) बालवर्ग	१२९
(ख) किशोरवर्ग	१३०

१३—स्त्रियोपयोगी

१३४

१४—कला, संगीत व सिनेमा

(क) कला	१३८
(ख) संगीत	१३९
(ग) सिनेमा	१३९

१५—विविध विषयक

(क) क्रान्ति	१४३
(ख) चयन-पत्र	१४३
(ग) रेल व यातायात	१४४
(घ) द्वैमार्षिक	१४४

(च)

(क) सर्वविषयक	१४४
(च) परीक्षा विषयक	१४५
१६—विदेशों के हिन्दी पत्र	आचार्य नित्यानन्द सारस्वत	१४६

परिशिष्ट (क)

आज प्रकाशित पत्रों का वर्णानुक्रम

परिशिष्ट (ख)

आज प्रकाशित कुछ और पत्र

परिशिष्ट (ग)


पूर्व प्रकाशित पत्रों की सूची व तिथि

संकेतान्कर

अ० सा०	...	अद्दे सासाहिक
अ० बा०	...	अद्दे वार्षिक
चा० मा०	चातुर्मासिक
दै०	दैनिक पत्र
झै०	झैमासिक
प०	...	पता
मा०	...	मासिक पत्र
वा० मू०	...	वार्षिक मूल्य
सह० सं०	...	सहकारी संपादक
सा०	सासाहिक पत्र
सं०	संपादक
संस्था० संचा०	संस्थापक, संचालक
त्रै०	त्रैमासिक
×	पत्रों के नमूने प्राप्त नहीं हुए
×	परिचय व नमूना दोनों ही प्राप्त नहीं हुए

भारतीय विधान परिषद् के अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसादजी का शुभाशीर्वाद

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ —



स्व० श्री महादेव देसाई

* युगान्तर प्रेस, चौड़ा रास्ता, जयपुर *

समर्पण

स्वर्गीय श्रीमहादेव भाई देसाई स्मारक-समिति का यह प्रथम पुष्प साहित्य प्रेमियों की सेवा में भेट करने का आयोजन विरला कॉलेज साहित्य समिति के मदस्यों के परिश्रम तथा पूज्य डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी के प्रोत्साहन के कारण ही प्रस्फुटित हो सका। श्री महादेव भाई विरला एज्यूकेशन ट्रस्ट के सदस्य थे। आप श्री बापू के प्रमुख मंत्री का कार्यभार सम्हालते हुए तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं के हित-चिंतन में अपना समय बराबर लगाते थे। आपके निधन के समय विरला कॉलेज के विद्यार्थियों ने आपके स्मारक के लिए धन एकत्रित किया और एक समिति बनाई। इस समिति की ओर से ही यह प्रकाशन हो रहा है।

श्री महादेव भाई एक उच्च कोटि के लेखक तथा सम्पादक थे। आपकी भाषा सरस थी। आपके लेख विचारपूर्ण थे व सम्पादन उत्तर-दायित्व पूर्ण था देश भर में आप ही एक महान् व्यक्ति थे जो बापू को पूर्णतया समझ सकते थे और उनकी विचार-धारा के प्रवाह की दिशा का ठीक अनुमान कर सकते थे। आपकी पुण्य स्मृति में ही हिन्दी समाचार पत्रों की यह विवरण पत्रिका समर्पित की जारही है। हमें आशा है कि यह हमारी तुच्छ भेट स्वीकार होगी। और पाठक हमें हमारी त्रुटियों के लिए नमा करेंगे।

शुभदेवपांडे

मंत्री, विड्ला एज्यूकेशन ट्रस्ट
पिलानी, (जयपुर राज्य)

दो शब्द

कुछ समय पहले राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित, पत्र-पत्रिकाओं की एक सूची निकालने के लिये विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी। बाद में एक परिचय-पुस्तक ही प्रकाशित करने का विचार रहा। कई पत्रों (जिनमें 'विशाल भारत', 'सम्मेलन पत्रिका', 'देशदूत' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं) ने एतद्वयवक विज्ञप्तियों को स्थान दे कर तथा अनेक पत्र-सम्पादकों ने अपनी पत्र-पत्रिकाओं की नमूने की प्रतियाँ व परिचय भेजकर हमें आभारी बनाया है। इससे हमें काफी प्रोत्साहन भी मिला। गत २ अक्टूबर को 'गांधी जयन्ती' के शुभावसर पर, पिलानी में ही, इस प्रकार एकत्र हुए ३५० पत्र-पत्रिकाओं से 'श्र० भा० हिन्दी समाचार-पत्र-प्रदर्शिनी' का आयोजन किया गया था। देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया और हमारी उपर्युक्त योजना को सराहते हुए प्राचीन पत्रों की सूची भी रखने का परामर्श दिया। उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं तथा कुछ अन्य का जो अब तक उपलब्ध हो सकीं, संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया है :

हिन्दी में आज सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, इस प्रकार यह श्रमसाध्य कार्य था। दूसरे 'पत्र-पत्रिकाओं की उआइक्यरी', ऐसी पुस्तक तैयार करने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अन्य भाषाओं के समान ही हिन्दी-पत्र भी अकाल ही काल-कवलित हो जाते हैं; कई पत्रों की तो (केवल विज्ञप्ति ही निकलती है) गर्भ में ही मरुत्तु हो जाती है, कुछेक प्रवेशाङ्क निकाल कर सदा के लिये लुप्त हो जाते हैं; कितने ही पत्र ४-६ अङ्क निकाल कर, बन्द हो जाते हैं और। कुछेक १-२ साल तक निकाल कर संचालक की पत्र-निकालने की अभिलाषा पूरी कर देते हैं। अनेक पत्र तो स्थानीय ही होते हैं और बहुधा उनके अस्तित्व का भी पता नहीं रहता। अनेक पत्र जातीय संस्थाओं की ओर से निकलते हैं और जातीय संकीर्णता तथा गुणवंदी के कारण अधिक दिन नहीं चल पाते। निकलते हैं और

(छ)

उन: बन्द हो जाते हैं। यद्यपि जैन धर्मावलम्बियों के कुछ पत्र, ‘राजपूत’, ‘कान्य-कुञ्ज’, ‘श्रीवेंकटेश्वर समाचार’ आदि जो ४० वर्ष पूर्व से भी प्रकाशित हो रहे हैं, अपवादस्वरूप हैं। पर इनका स्थायी महत्व नहीं है।

इस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित कर हमारा मन्तव्य हिन्दी भाषा के पत्रों की वर्तमान गतिविधि से सर्वसाधारण को परिचित कराने का है। ऐसी पुस्तक के तैयार करने में पत्र-समापादकों का सहयोग भी पूर्ण रूप से अपेक्षित रहता है। आजकल अनेक पत्र ऐसे निकल रहे हैं जिनका सम्पादक, प्रकाशक व संचालक बहुधा एक ही व्यक्ति रहता है और ऐसे व्यक्तियों में अधिकांशतः नामधारी ‘कवि’ वा ‘लेखक’ होते हैं। बहुत से पत्र तो ऐसे हैं जो अत्यन्त सामान्य कोषि के हैं, जो किसी भी हालत में अपनी सत्ता की सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकते। ‘आयंमित्र’ (१८९९ से प्रकाशित) आदि पत्रों को देख, यह तो स्पष्ट ही है कि व्यक्तित रूप से निकाले गये पत्र अधिक दिन नहीं जीते। ऐसे पत्रों के जीवन में भी अनेक उत्तार-बढ़ाव आये हैं। सुट्टि भित्ति पर स्थापित ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’, ‘सरस्वती’, ‘कल्पाणी’, विशाल भारत’, ‘मायुरी’ आदि जैसे पत्र कम ही हैं। लेकिन उनका अपना निजी महत्व है। हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनाने में उनका काफी हाथ रहा है और रहेगा। यद्यपि यह भी सच है कि ‘महारथी’, ‘सुधा’, ‘बंगा’, ‘कमला’, ‘रुपाभ’ आदि अनेक अच्छे पत्र अवतीर्ण होकर अस्त हो गये।

राष्ट्र के निर्माण में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं ने बहुत योग दिया है। ‘हिन्दी प्रदीप’, ‘स्यागभूमि’, ‘भविष्य’ और ‘अश्विदय’ जैसे पत्रों ने प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने का सफल प्रयत्न किया किन्तु तत्कालीन सरकार ने उनका दमन किया। ‘कर्मचारी’, ‘आज़’, ‘स्वतंत्र’, ‘सैनिक’ और ‘प्रताप’ ने दमन के बावजूद भी राष्ट्रीय आशीर्वादन को आगे बढ़ाया। ‘योगी’, ‘हुंका॒र’, ‘स्वराज्य’ आदि ने आगे बढ़कर हमारा पथ-प्रदर्शन किया। आज ‘अग्नि परीक्षा’ का एक वर्ष गुजर चुका है। पंजाब-विभाजन, हैदराबाद और काश्मीर-काश्मीर के कारण देश का बातावरण चुन्ना रहा। पर आज धर्म, राजनीति, समाजशास्त्र, व्यापार आदि विषयों को लेकर अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। कृषिशास्त्र से संबंधित

‘कृष्ण’ और ‘हृषिसंसार’ पश्चिमाएँ भी सुन्दर निकल रही हैं। जेश की सर्वाङ्गीकृत उन्नति के लिये पत्र-पत्रिकाओंका सर्वाङ्गीकृत विकास नितान्त आवश्यक एवं धौष्ट्रीय है। अतः ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी।

पुस्तक की उपयोगिता के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते। हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता अवश्य थी जिससे एक साथ सभी पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों से हमारे पास कितने ही पत्र पुस्तक मंगाने के लिये आये भी हैं। आशा है, आगामी संस्करण के लिये हिन्दी संसार अपने सुभाव तथा सहयोग प्रदान कर तथा सम्पादकगण एवं पत्रकार एतद्विषयक सूचना देकर अनुगृहीत करेंगे। जिन महानुभावों ने हमें सुझावादि भेजे, संशोधित संस्करण में उन्हें कार्य रूप देने का हम अधिकाधिक प्रयत्न करेंगे। इसके लिये प्रार्थना है कि सम्पादकगण अपने पत्रों की नीति, प्रकाशन-तिथि, संचालक व भूतपूर्व सम्पादकों की नामावली; आत्म-परिचय, (अपने द्वारा लिखित ग्रन्थों की सूची), पत्र के विशेषाङ्कों तथा अन्य कोई उल्लेखनीय बात का निर्देश करते हुए, यह स्थगित भी हुआ ? आदि-आदि परिचय भेजकर कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा कर, उसे वे गौरवान्वित करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के लिये हम युक्तप्रान्त व बिहार तथा गवालियर, जयपुर, रीवा, कोटा, भोपाल आदि राज्यों के प्रकाशन-अधिकारियों के आभारी हैं जिन्होंने अपने स्थान से प्रकाशित पत्रों की सूची भेज कर हमें अनुगृहीत किया है। इनके अतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादकों के पास व्यक्तिगत रूप से सर्वश्री अद्वैतकुमार गोस्वामी, शम्भूनाथ ‘शेष’, निरंकारदेव ‘सेवक’, बाबूलाल जैन ‘फागुल्ल’, चिरंजीत, वस्त्रभद्रास विज्ञानी ‘वज्रेश’, कुमारीकृष्णा सरीन तथा हनुमान पुस्तकालय, रत्नगढ़ (बीकानेर) के अध्यक्ष ने विभिन्न स्थानों से निकलने वाले पत्रों की तालिका हमें भेजित की है। श्री भगवानदास जी केला ने २८ वर्ष पहले की संक्षिप्त, पत्रों के इतिहास संबंधी सामग्री भेजकर हमें अनुगृहीत किया है। देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद जी के आर्थिकाद तथा विडला एज्यूकेशन ट्रस्ट (पिलानी) के माननीय मंत्री, लेस्टिनेश्ट कमाण्डर श्रीयुत शुकदेवजी पाण्डे के सतत प्रयत्न से यह पुस्तक इतनी

(क)

जल्दी प्रकाश में आ रही है। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। समिति के अध्यक्ष, श्रद्धेय गुरुवर सहस्रजी के सक्रिय सहयोग, प्रोस्साहन एवं प्रेरणा के फलस्वरूप ही यह पुस्तक इस रूप में पाठकों के सामने आ सकी है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा आचार्य नित्यानन्द सारस्वत के भी हम बड़े आभारी हैं जिन्होंने कृपापूर्वक अपने उपयोगी लेख संग्रह के लिए दिये हैं। बिडला हाईस्कूल के शिक्षक श्री भूरसिंह शेखावत के आवरण पृष्ठ व महादेव भाई देसाई का चित्र बना देने के लिए हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रेस कार्य में भाई गंगासिंह सांखल से बड़ी मदद मिली है। आशा है, हिन्दी-संसार इस पुस्तक का आदार करेगा। प्रकाशन जल्दी में होने के कारण इसमें बहुत सी चुटियाँ रही होंगी, जैसा कि सम्पादकद्वय सोचते हैं; सुझावादि पाकर अगले संस्करण में परिष्कार किया जा सकेगा। पुस्तक की सामग्री एकत्र करने आदि में काफी व्यय हो गया है, तथा कागज की असुविधा के कारण लागत मूल्य अधिक पड़ गया, इसके लिए हम पाठकों से तमा चाहते हैं। पूज्य राजेन्द्रवाला का सुझाव था कि 'पुस्तक-प्रकाशन के लिए प्रत्येक हिन्दी पत्र से कुछ चन्दा लिया जाय क्योंकि इससे उनका ही विज्ञापन बहुत कुछ होगा।' हम आशा रखते हैं कि अगले संस्करण के लिए विभिन्न पत्राविभागों भरपूर-विज्ञापन देकर, प्रति वर्ष ऐसी ही डाक्टरेक्टरी प्रकाशित करने के लिये स्वावलम्बी बनने का अवसर प्रदान करेंगे।

गोपालमी, २००५,
हिन्दी-साहित्य-समिति,
बिडला कालेज, पिलानी (जयपुर) }

रामदेवसिंह चौधरी,
बी. ए., विशारद,
प्रधानमंत्री।

१. सम्पादक को आसन्दी

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, पी० एच० डी०

प्रा चीन व्यास गदियों का नवावतार सम्पादकों की आसन्दी में हुआ है। ज्ञान ने गृह अर्थों का लोकहित के लिये जन-समुदाय में वितरण करने वाले प्राचीन व्यासों का उत्तराधिकार अर्वाचीन सम्पादकों के हिस्से में आया है। व्यासों ने वेदों की ममाधि-भाषा का विस्तार और व्याख्यान करके उस सरस्वती को लोक के कंठ तक पहुँचाया। आज विवेक-शील सम्पादकों को भी नये भारतवर्ष में ज्ञान विज्ञान के लिये कार्य सम्पन्न करना है। लोक-जीवन के बहुमुखी पक्षों का अध्ययन करके उसके लिये जो कुछ भी मूल्यवान, सर्वभूत हितकारी और कल्याण-प्रद हो सकता है उसे लोक के दृष्टि न्थ में लाने का कार्य सम्पादकों का ही है। सम्पादक की दृष्टि अपनी मातृ-भूमि के भौतिक रूप को गरुड़ की चक्रामन से देखती है। भूमि पर जा भी जन्म लेकर बढ़ता है उस सबके प्रति सम्पादक को प्रेम और रुचि होनी चाहिये। पृथ्वी के हिमगिरि और नदियाँ सस्य-सम्पत्ति और वृक्ष वनस्पति, मणि हिरण्य और खनिज द्रव्य, पशु-पक्षी एवं जलचर, आकाश में संचित होने वाले मेघ और अन्तरिक्ष में बहने वाले वायु, समुद्र के अगाध जल में संचार करने वाले मुक्ता शुक्ति और तिमिंगल मत्स्य—सब राष्ट्र के जीवन के अभिन्न अंग हैं और सबके विषय में ही सम्पादक को लोक शिक्षण का कार्य करना चाहिए। समुद्र की तलहटी में सोई हुई सीपियाँ अपनी मुक्ता राशि से राष्ट्र की नवयुवतियों के शरीर को सजाती हैं, अतएव उनके हित के साथ भी हमारे मङ्गल का धनिष्ठ सम्बन्ध है। जागरूक राष्ट्र के सम्पादक का उनके विषय में भी सावधान और दत्त रुचि होने की आवश्यकता है। प्रवाल और मुक्ताओं

का कुशल-प्रश्न पूछे बिना राष्ट्र समृद्ध कैसे कहा जा सकता है? जिन समाचार-पत्रों के सत्त्वमें में पृथ्वी से सम्बन्धित सब पदार्थों के लिये स्वागत का भाव है वे ही लोक की सच्ची शिक्षा का कार्य कर सकते हैं।

सच्चे सम्पादक को अपने पैरों के नीचे को भूमि के प्रति सबसे पहिले सचेत होना चाहिये। अपने घर, गाँव, नगर, प्रान्त और देश के जीवन के रोम-प्रति रोम को झकझारना हमारा पहिला कर्तव्य हो। 'घर खीर तो बाहर भी खीर' घर में एकादशी तो बाहर भी सूना। अतएव विदेशों के समाचार और जीवन के प्रति सतर्क रहते हुए भी हमें निज घर के प्रति उदासीन नहीं होजाना चाहिए। आज मातृ-भाषाओं के अनेक पत्रों को घरेलू समाचार और जीवन की व्याख्या के लिये एक नये प्रकार की कर्मठ दीक्षा ग्रहण करनी है।

सम्पादक की आसन्दी शंकर के कैलाश की तरह ऊँची प्रतिष्ठा का बिन्दु है। वहाँ से सत्य और ज्ञान की धाराओं का निरन्तर लोक में प्रवाह होना चाहिए। जागा हुआ सम्पादक लोक में नये अलख जगाने का सूत्र पात करता रहता है, कारण कि और लोग जहाँ सोते रहते हैं उन विषयों में भी सम्पादक जागता रहता है और अपने जागरण के द्वारा लोक के मस्तिष्क को भूली हुई बातों के प्रति जाग्रत करता है। व्याख्या, सतत् व्याख्या सम्पादक का स्वभाव सिद्ध धर्म है। घनीभूत ज्ञान को ता कर और विस्तृत बनाकर लोक में फैला देना सम्पादक का कर्तव्य है।

सम्पादक की आसन्दी अभय, सत्य, ज्ञान और कर्म के चार पायों पर खड़ी है। व्यक्ति और समाज, देश और विदेश उस आसन्दी के आड़े-तिरछे डंडे हैं। लोक की सेवा उसके बैठने का ताना-बाना है। नया उन्मेष, नई कल्पना, स्फूर्ति और उत्साह, ये उस आसन पर आराम से बैठने के लिये गुदगुदे वस्त्र हैं।

जन संवेदना या सहानुभूति और न्याय-बुद्धि, ये सम्पादक की भव्य आसन्दी के अलंकार हैं। इस आसन्दी पुर भौम ब्रह्मा की सेवा के

लिये सम्पादक का अभिषेक किया जाता है। राजा और प्रजा दोनों की भावनाएँ सम्पादक की आसन्दी में मिली हैं। जब कुशल सम्पादक इस प्रकार की आसन्दी पर बैठता है तब राष्ट्र का जन्म होता है, एवं राष्ट्र के विस्तार और रूप-सम्पादन के नये अंकुर खिलते एवं नये फूल-फल फूलते-फलते हैं। राष्ट्र की रूप-समृद्धि के साथ-साथ सम्पादक का तेज भी लोक में मंडित होता है, और चन्द्र-सूर्य को भाँति दिग् दिगन्त में व्याप जाता है। जिस सम्पादक के तप और श्रम से राष्ट्र का जन्म और संवर्धन हो सके, वही सच्चा, सफल सम्पादक है। उसे ही प्रजायें चाहती हैं और श्रुतियों का यह आशीर्वाद उसी में चरितार्थ होता है :—

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु ।

२. हिन्दी पत्रों के सवा सौ वर्ष

जब तक हम किसी वस्तु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भलीभाँति नहीं समझलें तब तक उस वस्तु की समग्रता का बोध नहीं हो पाता। किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान तो देश और काल द्वारा सीमित होता है किन्तु इतिहास द्वारा ही उस वस्तु की व्यापकता को हम हृदयंगम कर पाते हैं। इतिहास का आश्रय अगर हम न लें तो हमारा ज्ञान केवल वर्तमान तक ही सीमित एवं अधूरा रह जायगा, किन्तु इतिहास का दीपक लेकर हम अन्धकारपूर्ण अतीत का भी दर्शन कर सकते हैं। हमारे ज्ञान में भी संपूर्णता की संभावना तभी हो सकती है जब हम वर्तमान और अतीत को मिला कर देखें और भविष्य पर भी अपनी दृष्टि रखें।

हिन्दी में आज अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं किन्तु इनका प्रारम्भ कब और किस रूप में हुआ था, इसको समझने के लिए तो हमें इतिहास का ही सहारा लेना होगा। पत्र-पत्रिकाओं के इस विशाल वट वृक्ष की अनेक जटाएँ आज जमीन में फैली हुई दिखलाई पड़ रही हैं किन्तु यह वट वृक्ष कितना पुराना है, इसका पता तो वे ही लगा सकेंगे जो इतिहासकी मशाल हाथ में लेकर अतीत और वर्तमान की अविच्छिन्न शृंखला को उसके समग्र रूप में देखने को जमता रखते हैं। बाबू राधाकृष्णदास ने बहुत वर्ष हुए, ‘हिन्दी के सामयिक पत्रों का इतिहास’ शीर्षक एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी तथा श्री बालमुकुन्द गुप्त ने भी ‘गुप्त निबन्धावली’* में इस विषय पर

* ‘गुप्त निबन्धावली’ श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी द्वारा संपादित और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित।

प्रकाश डाला था। उक्त दोनों पुस्तकों को पढ़कर लोगों की यह धारणा बन गई थी कि हिन्दी का प्रथम समाचार-पत्र 'बनारस अखबार' था जो सन् १८४५ में राजा शवप्रसाद की सहायता से काशी से प्रकाशित हुआ था; 'बनारस अखबार' लोथों में रही से कागज पर छपता था और एक महाराष्ट्रीय सज्जन गोविन्द रघुनाथ थत्ते उसका सम्पादन करते थे। किन्तु वस्तुतः हिन्दी का पहला पत्र 'बनारस अखबार' नहीं था, पहला पत्र था 'उदन्त मार्टण्ड' जो नागरी अक्षरों में मुद्रित होकर सन् १८२६ की ३० मई को कलकत्ते से पहले पहल व्रकाशित हुआ था। यह प्रति मंगलवार को निकलता था, मासिक मूल्य २ रु. था और इसके सम्पादक थे—कानपुर निवासी पं. जुगलकिशोर शुक्ल। 'उदन्त मार्टण्ड' ही हिन्दी का सबसे पहला समाचार-पत्र था, यह उक्त पत्र के निम्नलिखित उद्धरण से प्रमाणित होजाता है—“यह उदन्त-मार्टण्ड अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंगरेजी ओं पारसी ओं बँगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देख कर आप पढ़ ओ समझ लेय ओ पराई अपेक्षा न करें जो अपने भाषे की उपज न छोड़ें इसलिए………श्रीमान् गवरनर जेनरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा। जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो अमड़ातला की गली ३७ अंक मार्टण्ड-छापाघर में अपना नाम ओ ठिकाना भेजने से ही सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर बैठे और बाहिर के रहने वाले ढाक पर कागज पाया करेंगे।”

इस पत्र में खड़ी बोली का 'मध्यदेशीय भाषा' के नाम से उल्लेख किया गया है। 'उदन्त-मार्टण्ड' ही हिन्दी का सबसे पहला पत्र था, इस अन्वेषण का श्रेय 'मार्डन रिव्यू' के सहकारी सम्पादक श्री ब्रजेन्द्रनाथ बनर्जी को है। ग्राहकों की कमी और सरकारी सहायता न मिलने के कारण १९ वर्ष बाद

ही यह पत्र बन्द हो गया। ४ दिसम्बर सन् १८२७ को इस पत्र की अन्तिम संख्या प्रकाशित हुई जिसमें सम्पादक ने लिखा था—

आज दिवस लौं उग चुक्यो मार्टण्ड उद्धन्त ।
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त ॥

बंगीय साहित्य परिषद् तथा राजा राधाकान्त देव के कलकत्ता स्थित पुस्तकालय में ‘उद्धन्त-मार्टण्ड’ की कुछ पुरानी प्रतियाँ आज भी सुरक्षित हैं।

१८ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में फारसी के पत्रों का ही इस देश में बोलबाला था क्योंकि फारसी भाषा ही इस समय अदालती भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी। सन् १८०१ से भी कई वर्षों पहले फारसी में अखबार निकलते रहे हैं। सन् १८१८ में ‘दिग्दर्शन’ और ‘समाचार-दर्पण’ नामक बँगला भाषा के पत्र पहले पहल कलकत्ते से प्रकाशित हुए। यद्यपि सासी की लड़ाई के बाद सन् १७५७ से अंग्रेज बहुत सं प्रदेशों पर शासन करने लगे थे, तो भी सन् १७८० के पहले भारतवर्ष में अंग्रेजी का कोई पत्र नहीं निकलता था, सन् १७८० में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने ‘बंगाल गजट’ (हिकी गजट) की नींव डाली। हिकी वारेन हेस्टिंग्स और चोफ जस्टिस सर एलिजा पर बराबर उनके अनुचित कार्यों के प्रति आक्रोश करता रहता था। उसने जेल की यात-माएँ सही, जुरमाने दिये किन्तु आत्माभिमानी सम्पादक के कर्त्तव्य का वह अन्त तक पालन करता रहा। ‘भुम्बई वर्तमान’ गुजराती का पहला साप्ताहिक पत्र था जो सन् १८३० में निकला, साल भर बाद यह अद्वैत-साप्ताहिक कर दिया गया। कहा जाता है कि सबसे पहला उदूँ पत्र ‘हिन्दुस्थानी’ था जो कलकत्ते के हिन्दुस्थानी प्रेस से सन् १८१० में छपा था किन्तु इस पत्र के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन वर्षों में फारसी के जो पत्र निकलते थे उनमें से कई एक पत्रों में उदूँ के भी पृष्ठ रहा करते थे। श्री अस्थिकाप्रसाद वाजपेयी के मतानुसार तो सन् १८३१ तक उदूँ का कोई

पत्र नहीं निकला था। विभिन्न भाषाओं में कलकत्ते से सबसे पहले जो इतने समाचार पत्र निकले, इसका स्पष्ट ही कारण यह है कि शासकों का सीधा सम्बन्ध सर्वप्रथम बंगाल प्रान्त से ही रहा।

भारतवर्ष की समस्त भाषाओं के पत्रों का विवरण उपस्थित रखना लेखक का अभीष्ट नहीं है; प्रस्तुत लेख का विषय तो हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के उद्भव और विकास का विवेचन करना है। विवेचन की सुविधा के लिए हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं के इतिहास को हम निम्नलिखित चार युगों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) पूर्व-भारतेन्दु-काल (सन् १८२६ से सन् १८६७)
- (२) भारतेन्दु-काल (सन् १८६७ से सन् १८८५)
- (३) उत्तर-भारतेन्दु और द्वितीय काल (सन् १८८५ से १९०३; सन् १९०३ से सन् १९१८)
- (४) वर्तमान-काल (सन् १९१८ से सन् १९४८)

पूर्व-भारतेन्दु-काल

सबसे पहले हिन्दी-पत्र ‘उद्न्त-मार्तण्ड’ का ऊपर उल्लेख हो चुका है जो कलकत्ते से निकला था। दूसरा पत्र ‘बंगदूत’ भी सन् १८२६ में कलकत्ते से ही निकला। यह बँगला, फारसी और हिन्दो तीन भाषाओं में निकलता था। इसके सम्पादक नीलरत्न हलदार थे। यह पत्र प्रति रविवार को प्रकाशित होता था और इसका मासिक मूल्य एक रुपया था। सन् १८२६ में प्रकाशित होने वाले ‘बंगाल हेरल्ड’ में भी हिन्दी का अंश छपता था। २१ जून १९३४ के बंगाली अखबार ‘सामाचार दर्पण’ से ज्ञात होता है कि अंगरेजी और हिन्दुतानी में उसी वर्ष एक ‘प्रजामित्र’ नामक साप्ताहिक और

^१ सन् १९४६ के ‘प्रेमी अभिनन्दन प्रन्थ’ में प्रकाशित श्री अभिनवकाप्रसाद वाजपेयी का ‘भारत में समाचार पत्र और स्वाधीनता’ शीर्षक लेख, पृ० १८३।

प्रकाशित हुआ होगा। सन् १८४५ में राजा शिवप्रसाद की सहायता से 'बनारस अखबार' का जन्म हुआ, जिसकी भाषा उदू-हिन्दी मिश्रित थी। हिन्दी-प्रदेश से निकलने वाला सबसे पहला यही पत्र था, इसलिए इसका विशेष महत्त्व है। इससे पहले हिन्दी के जितने पत्र निकले वे सब बंगाल से निकले थे। सन् १८४६ में मौलवी नासिरुद्दीन के सम्पादकत्व में कलकत्ते से किर एक पत्र निकला 'मार्टण्ड' जो हिन्दी, उदू, बँगला, फारसी तथा अंग्रेजी पाँच भाषाओं में छपता था। 'ज्ञानदीपक' नामक पत्र भी कलकत्ते से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ। सन् १८४६ में 'मालवा अखबार' नामक एक साप्राहिक हिन्दी-उदू में निकला। 'बँगला सामयिक पत्र' से ज्ञात होता है कि सन् १८४६ में एक 'जगदोपक भास्कर' नामक पत्र अन्य भाषाओं के माथ-साथ हिन्दी में और निकला था। सन् १८५० में तारामोहन मैत्र के सम्पादकत्व में काशी से 'सुधाकर' नामक पत्र निकला। कहते हैं कि इसी पत्र के नाम पर महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी का नामकरण हुआ था। सन् १८५० में 'उदन्त मार्टण्ड' के भूतपूर्व सम्पादक पं. जुगलकिशोर शुक्ल ने कलकत्ते से किर 'साम्यदण्ड मार्टण्ड' नामक साप्राहिक निकालना शुरू किया। यह पत्र भी यद्यपि बहुत समय तक नहीं चल सका और सन् १८५२ में ही बन्द हो गया, तथापि इससे इस बात का पता चलता है कि शुक्ल महोदय की पत्र-कारिता में कितनी अधिक अभिरुचि थी। सन् १८५२ में सदासुखताल के सम्पादकत्व में आगरे से 'शुद्धि-प्रकाश' नामक साप्राहिक पत्र निकला। सन् १८५३ में लद्दमणप्रसाद के सम्पादकत्व में ग्यालियर से 'ग्यालियर गजेट' का प्रकाशन हुआ।

सन् १८५४ का वर्ष विशेष महत्त्वपूर्ण समझा जाना चाहिए क्योंकि इसी वर्ष कलकत्ते से 'समाचार सुधावर्षण' नामक सर्व प्रथम हिन्दी दैनिक का प्रकाशन हुआ था। इस पत्र के सम्पादक थे श्री श्यामसुन्दर सेन। इसमें हिन्दा और बँगला दोनों भाषाओं का प्रयोग होता था। सन् १८५७ के गदर से पहले हिन्दी के पत्र अधिक संख्या में नहीं निकले किन्तु यह ध्यान देने की

बात है कि गदर के बाद हिन्दी के पत्र अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में निकलने लगे। सन् १८६१ में १७ पत्र निकले जिनमें ६ हिन्दी के थे। आगरे से राजा लक्ष्मणसिंह का 'प्रजा-हितैषी' सन् १८६१ में हो निकला था। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' नामक पाक्षिक हिन्दी गजट का प्रकाशन हुआ था। 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' जिसका प्रकाशन सन् १८५६ में हुआ था और सन् १८६५ में जो श्री गुलाबशंकर के सम्पादकत्व में निकल रही थी, केवल हिन्दी में छपती थी। 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका' में (जिसका प्रकाशन सन् १८६६ में हुआ था) विशेषतः ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रतिपादन रहता था। सन् १८६७ में भारतेन्दु के प्रसिद्ध पत्र 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन हुआ था।

पूर्व भारतेन्दु-काल के जो समाचार-पत्र थे, उनमें उदू-पत्रों की प्रधानता रही अथवा यों कहिये कि अहुत से पत्रों में उदू के साथ-साथ हिन्दी का भी कुछ अंश छप जाता था। इसका यह अर्थ न समझा जाय कि विशुद्ध हिन्दी के पत्र निकले ही नहीं, केवल हिन्दी के पत्र भी निकले किन्तु उनके प्राहक अदृत कम थे। हिन्दी के पत्र केवल भाषा-प्रेम के लिये निकाले जाते थे; उनमें न भाषा की स्थिरता थी, न वे नियमित रूप से निकल ही पाते थे; समाचारों को भी उनका यथोचित महत्व प्राप्त नहीं हुआ था। जिन दिनों कलकत्ते से हिन्दी-पत्र निकलते थे, उन दिनों संयुक्तप्रान्त, मध्य-प्रदेश, मध्यभारत आदि से अनेक फारसी के पत्र निकला करते थे। सन् १८३० में इन प्रान्तों की अदालती भाषा उदू ही जाने के कारण इधर उदू पत्रों का ही विशेष बोलबाला रहा। हिन्दी भाषी प्रदेशों में इन्दो-पत्र उदू पत्रों की अपेक्षा बड़ी देर से शुरू हुए। सन् १८५६ में हिन्दी-उदू दानों भाषाओं में 'मालवा अखबार' निकला, फिर काशी का 'सुधाकर' प्रकाशित हुआ। यथापि ऊपर यह कहा गया है कि 'बनारस अखबार' हिन्दी भाषी प्रदेश का पहला हिन्दी पत्र था तथापि सच तो यह है कि यह पत्र भी केवल नागरी लिपि में प्रकाशित होता था, भाषा इसकी भी उदू ही थी। 'सुधाकर' भी दो भाषाओं में निकलता था किन्तु सन् १८५३ से यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने

लगा था। स्व० पं० रामचन्द्र शुक्र के शब्दों में ‘इस पत्र कीभाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठोक हिन्दी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं’ सन् १८६६ में बाबू होरीलाल के सम्पादन में जोधपुर से हिन्दी-उर्दू में ‘भारवाड़ गजट’ का प्रकाशन होने लगा।

भारतेन्दु के पहले के पत्र सिर उठाने की चेष्टा कर रहे थे। पत्रों का बीज बोया जा चुका था किन्तु अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण बहुत से पत्र असमय में ही मुरझा गये।

भारतेन्दु-काल (सन् १८६७ से सन् १८८५)

यद्यपि भारतेन्दु बाबू का जन्म सन् १८५० में हुआ था किन्तु उनके पत्रकार-जीवन का आरम्भ ‘कवि वचन सुधा’ से हुआ जिसे वे सन् १८६७ में मासिक पत्र के रूप में निकालने लगे थे। इस समय यद्यपि ‘वृत्तान्त-विलास’ और ‘ज्ञान-दीपक’ आदि अन्य पत्र भी निकल रहे थे किन्तु इनमें से कोई ऐसा न था जो भारतेन्दु के पत्र की बराबरी करता। ‘कवि वचन सुधा’ में पुराने कवियों की कविताएँ छाया करती थीं; स्वयं भारतेन्दु की कविताएँ भी इसमें प्रकाशित हुआ करती थीं। कोई समाचार नहीं छपते थे और गद्य का अंश भी नाम मात्र को ही रहा करता था किन्तु आगे चल कर जब ‘कवि वचन सुधा’ ने पहले पाचिक और फिर साप्ताहिक रूप धारण किया तो इसमें समाचार तथा अन्य विषयों पर निबन्ध भी छापे जाने लगे। यद्यपि भारतेन्दु बाबू की इस समय हाकिमों में बड़ी प्रतिष्ठा थी और आँनरेरी मजिस्ट्रेटी आदि पदों से वे सम्मानित थे परन्तु इन सब वातों की कुछ भी चिन्ता न करके पूर्ण स्वाधीन भाव से राजकीय विषयों पर कलम उठाई। ‘कवि वचन सुधा’ के उद्देश्य की महत्ता और विचारों की स्वाधीनता उसके निम्नलिखित सिद्धान्त-सूत्र से स्पष्ट है—

‘खल जनन से सज्जन तुखी मत होहिं हरि-पद मति रहैं,

उपधर्म छौटैं सत्व निज भारत गहै करं तुख वहैं।

बुध तर्जाह मल्सर नारि नर सम होंहि जग आनँद लहें,
तजि ग्राम कविता सुकवि जन की अमृत बानी सब कहें ॥”

ज्यों-ज्यों सर्वसाधारण की सहानुभूति मिलती गई त्यों-त्यों इस पत्र की उन्नति व प्रचार में वृद्धि होती गई। भारतवर्ष के बाहर भी इस पत्र का गुण गान होने लगा। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् गार्सोंद तासी ने सन् १८७० में ‘कवि बचन सुधा’ के सम्बन्ध में अपने सुविळयात पत्र में एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखी थी। इस पत्र के लेख ऐसे ललित होते थे कि तत्कालीन हिन्दी-प्रेरी लोग चातक की भाँति उसके लिए टकटकी लगाये रहते थे और वह हाथों हाथ बैठ जाता था। इस पत्र के अनुकरण पर ‘ज्ञान-प्रदायिनी’, ‘हिन्दू’, ‘बांधव’ आदि अनेक पत्र निकले किन्तु वे इतने लोक-प्रिय न हो सके। सन् १८७३ में भारतेन्दु ने ‘हरिश्चन्द्र मैगजीन’ नाम की मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम आठ संख्याएँ निकल जाने के बाद ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ हो गया। हिन्दी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी ‘चन्द्रिका’ में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिन्दी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कण्ठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन पहले पहल इसी पत्रिका में हुआ। स्वयं भारतेन्दु ने नयी सुधरी हुई हिन्दी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने ‘कालचक्र’ नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि ‘हिन्दी नई चाल में ढली, सन् १८७३ ई०’। इस ‘हरिश्चन्द्री हिन्दी’ के आविर्भाव के साथ ही नये-नये लेखक भी तैयार होने लगे। ‘चन्द्रिका’ में भारतेन्दु-जी आप तो लिखते हो थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिये थे। हिन्दी गद्य साहित्य के इस आरम्भ-काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदर्घता और मौलिकता थी और उनकी हिन्दी हिन्दी होती थी। वे अपनी भाषां की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बँगला, मराठी, उर्दू, अँग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो पच्चीस तीस वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिन्दी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय

ऐसे लेखक न थे जो बँगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अँग्रेजी वाक्यों या मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिन्दी लिखने का दावा करते हों* ।

सन् १८७३ में भारतेन्दु ने स्नो-शिक्षा के सम्बन्ध में 'बालशोधिनी' नामक पत्रिका निकाली थी। बहुत से विद्वानों का मत है कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हो सज्जे अर्थ में हिन्दी पत्रकारिता के जनक हैं। स्वर्गीय पं० बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चन्द्र के सम्पादन-कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। भारतेन्दु की 'कवि वचन सुधा' तो इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका थी कि उसमें स्वामी दयानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा मिं० ग्रिफिथ जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान् भी लेख लिखा करते थे। वेवल १७ वर्ष की अवस्था में ही इस प्रतिभाशाली युवक ने इस विख्यात पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इस पत्र की ऐसी असाधारण उन्नति और एक युवा पुरुष के अभ्युदय से स्वार्थ-साधक और हाकिमों के खुशामदी लोगों को बड़ा दुःख हुआ। चुगली का बाजार गर्म हुआ। जो निष्पक्ष राजनीतिक लेख इस पत्र में प्रकाशित होते थे, वे राजद्रोहात्मक करार दिये जाने लगे। जो कविता या पंच हास्य, श्लेष का आश्रय लेकर छपते थे, वे अपमानमूलक सिद्ध किये जाने लगे। फलतः सरकार की कोप-हटि हुई और सरकारी सहायता बन्द कर दी गई। इस सम्बन्ध में यद्यपि भारतेन्दु ने बड़ी लिखा-पढ़ी को किन्तु उसका कोई फल न हुआ। 'बाल-शोधिनी' तो प्रायः गवर्नर्मेंट के ही आश्रय से चलती थी, इसके बाहरी प्राहक बहुत कम थे, इसलिये यह पत्रिका उसी समय से बन्द होगई। सरकार का यह अनौचित्य देखकर भारतेन्दु ने आनंदरी मजिस्ट्रेटी और म्युनिसिपल कमिशनरी आदि पदों से इस्तीफा देदिया और सरकारी हाकिमों से मिलना-भेटना भी बिलकुल छोड़ दिया। सरकार की ओर से न अपनाये जाने पर भी 'कवि वचन सुधा' और 'हरिश्चन्द्र-

*हिन्दी साहित्य का इतिहास (स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) पृ० २४६-२४७।

चन्द्रिका' का आदर सर्व साधारण की हृषि में छढ़ता ही गया। हिन्दी के कितने ही तत्कालीन विद्वानों ने इसमें लिखना आरम्भ कर दिया और उनकी लेखनी ने इसके द्वारा गैरव और सम्मान पाया। हरिश्चन्द्र की मृत्यु के बाद सन् १८८५ में 'कवि वचन सुधा' का निकलना बन्द हो गया।

भारतेन्दु जैसे साहित्य-सेवियों से प्रेरणा पाकर हिन्दी के बहुत से पत्र पनपने लगे। समाचार-पत्रों के महत्व को अब लोग समझने लग गये थे। सन् १८७० में अलमोड़ा से 'अलमोड़ा समाचार' प्रकाशित होने लगा। पहले यह साप्ताहिक निकला; फिर यह द्वैमासिक होगया था। सन् १८७१ में बाबू कार्तिकप्रसादजी ने कलकत्ते से 'हिन्दी दीपि प्रकाश' नामक पत्र निकाल कर उस विशाल नगरी में हिन्दी का संदेश सुनाया और हिन्दी भाषा के प्रचार व आनंदोलन का पथ प्रशस्त किया। इसी वर्ष पं० केशवराम भट्ट के सम्पादकत्व में विहार प्रान्त से 'विहार-बन्धु' नामक पत्र प्रकाशित होने लगा। 'बुन्देलखण्ड अख्यार' का प्रकाशन भी इसी साल से प्रारम्भ हुआ। सन् १८७४ में हिन्दी भाषानुरागी श्रीनिवासदासजी ने दिल्ली से 'सदादर्श' नामक पत्र निकाला, जो दो वर्ष पीछे 'कवि वचन सुधा' में मिला दिया गया। इसी वर्ष प्रयाग से 'नाटक प्रकाश' नामक पत्र निकलने लगा जिसमें विभिन्न नाटक छपा करते थे। सन् १८७६ में 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ जिसकी भाषा उदू' मिश्रित हिन्दी थी। बाद में चल कर इसमें केवल छात्रोपयोगी लेख ही रहने लगे थे। अलीगढ़ से स्वतन्त्रमध्यन्य बाबू तोतारामजी ने 'भारत-बन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरम्भ किया था जो सन् १८४४ तक प्रकाशित होता रहा।

हिन्दी पत्रों के इतिहास में सन् १८७७ का वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष पं० बालकृष्ण भट्ट के सम्पादकत्व में सुप्रसिद्ध मासिक 'हिन्दी प्रदीप' का प्रयाग से प्रकाशन होने लगा था। सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने स्वतन्त्र विचार भट्टजी इस पत्र द्वारा प्रकट किया करते थे। अपने द्वेत्र के पाठकों में राजनीतिक चेतना जाग्रत करना

भट्टजी का ही काम था। अपने विचारों में वे पक्ष स्वदेशी और राष्ट्रायता के कट्टर पृष्ठपोषक थे। फिर भी 'हिन्दी प्रदीप' के ग्राहकों की संख्या २०० से अधिक नहीं थी। घाटा उठाकर भी भट्टजी इस पत्र को करीब ३३ वर्ष तक निकालते रहे। अंत में सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाये जाने पर ही यह पत्र बन्द हुआ। कायस्थ पाठशाला में ५०) मासिक पर वे संस्कृत के प्रोफेसर थे। प्रायः उनका कुल मासिक वेतन प्रेस के बिलों को त्रुकाने में ही लग जाता था। जिस शख्स ने ३३ वर्षों तक एक मासिक पत्र का सम्पादन किया, उसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उसने अपने सब लेख पहले पहल या तो परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों की दूसरी ओर या रही अखबारों पर लिखे थे। हिन्दी के निश्चन्द्र-लेखकों में भी भट्टजी का प्रमुख स्थान है। साहित्य, राजनीति, समाज-शास्त्र नैतिकता सभी विषयों से सम्बन्ध रखने वाले लेख 'हिन्दी प्रदीप' में छपते रहते थे। 'कवि वचन सुधा' के बाद रुद्धाति और महत्व की दृष्टि से 'हिन्दी प्रदीप' का ही नम्बर आता है। वैसे तो लाहौर का 'मित्र विलास' साप्ताहिक भी सन् १८७७ से ही निकलने लगा था किन्तु इसे 'हिन्दी प्रदीप' के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। यह पहले लीथो में छपता था, सन् १८८७ से टाइप में छपने लगा। उससे पहले पंजाब में कोई उल्लेख योग्य हिन्दी पत्र न था; ब्रह्मसमाजियों द्वारा निकाला हुआ 'हिन्दू बांधव' बन्द हो चुका था। केवल 'ज्ञान प्रदायिनी' नामक ब्रह्मसमाज सम्बन्धी मासिक पत्रिका उस समय उद्दृ-हिन्दी में निकलती थी। 'मित्र विलास' बहुत घाटे में चलता था, इसलिए अंततः अपने स्वामी के देहान्त के साथ इसे भी समाप्त होना पड़ा।

सन् १८७७ में निकलने वाले हिन्दी साप्ताहिकों में 'भारतमित्र' का स्थान सर्व प्रथम है। इसके प्रकाशन का श्रेय पं० छोटुलाल मिश्र और पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र को है। यह पहला साप्ताहिक है जो बड़ी योग्यता से निकाला गया और जिसकी लेख-प्रणाली भी प्रशंसनीय रही। सामान्य समाजोपयोगी विषयों के साथ राजनैतिक विषयों पर भी इस पत्र में अच्छी

चर्चा हुआ करती थी। इसके सम्पादकों में हरमुकुन्द शास्त्री और बाबू बालमुकुन्द गुप्त प्रधान हुए। गुप्तजी के लेख बड़े हँसी-दिलगी पूर्ण हुआ करते थे। ‘भारत मित्र’ बड़ी धूमधाम से निकला जो बहुत दिनों तक हिन्दी संवाद-पत्रों में एक ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारम्भकाल में जब पण्डित छोटूलाल मिश्र इसके सम्पादक थे, तब भारतेन्दुजी भी कभी-कभी इस पत्र में लिख दिया करते थे। “‘१६ वीं शताब्दी’ के अंतिम दशक में ‘भारत मित्र’ दो बार दैनिक हुआ और एक साल से अधिक न रहा सका। तो सरी बार १६११ में और चौथी बार १६१२ में वह दैनिक हुआ। सन् १६३४-३५ में भारत से ‘भारत मित्र’ का नामोनिशान मिट गया।”*

सन् १७७८ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में ‘उचित वक्ता’ और पंडित सदानंद मिश्र के सम्पादन में ‘सार सुधानिधि’ ये दो पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों पत्रों ने हिन्दी के एक बड़े अभाव की पूर्ति की। ‘उचित वक्ता’ ने हिन्दी पत्रों में नई रंगत पैदा कर दी। इसमें सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकों के लेख रहते थे। इसका मूल्य कम था; लेख और चुटकले तीखे और चटपटे होते थे। ‘सार सुधानिधि’ की भाषा संस्कृत मिश्रित हिन्दी थी, लेख उत्तम और गंभीर होते थे। अन्यान्य विषयों के साथ राजनीतिक लेखों का भी इसमें समावेश रहता था।

सन् १८७६ में उदयपुर राज्य के संरक्षण में ‘सज्जन कीर्ति सुधाकर’ का प्रकाशन हुआ। पंडित वंशीधर वाजपेयी शास्त्री के सम्पादकत्व में यह पत्र अच्छे ढंग से निकला किन्तु १८८४ में सज्जनसिंहजी की मृत्यु हो जाने पर इस पत्र का वह महत्त्व जाता रहा। इसी वर्ष जयपुर से अर्द्ध साप्ताहिक के रूप में ‘जयपुर गजट’ का प्रकाशन हुआ था। सन् १८८० में खड्ग-विलास प्रेस बांकीपुर से बाबू रामदीनसिंह के सम्पादकत्व में ‘क्षत्रिय

* देखिये, ‘प्रे मी अभिनन्दन ग्रन्थ’ (सन् १९४६) में प्रकाशित पं० अंदिका ग्रासादजी वाजपेयी का ‘भारत में समाचार पत्र और स्वाधीनता’ शीर्षक लेख।

‘पत्रिका’ नामक मासिक का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रसिद्ध लेखकों के मौलिक लेख रहा करते थे। हिन्दी भाषा पर भी उच्च कोटि के लेख इस पत्र में निकले। ग्रियर्सन ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस पत्र की अड़ी प्रशंसा की है।

सन् १८८१ में श्री बद्रीनारायणजी चौधरी प्रेमघन ने ‘आनंद कांबिनी’ नामक मासिक पत्र निकाला। पुस्तकों की आलोचना सबसे पहले इसी पत्र में निकलने लगी थी। आगे चलकर पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने पुस्तक-समीक्षा-विषयक स्तंभ ‘सरस्वती’ में रखा था। आज प्रायः सभी पत्रों में पुस्तक-समीक्षा निकल रही है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में “‘प्रेमघनजी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए यह पत्रिका निकाली थी। और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेन्दुजी ने उनसे एक बार कहा था कि ‘जनाव ! यह किताब नहीं फि जो आप अकेले ही इकराम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है; और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों।’” प्रेमघनजी की भाषा बड़ी रंगीन, अनुप्रासमयी और पाइडेट्यपूर्ण होती थी। सन् १८८२ में काशी से सार्हत्याचार्य पं० अंबिकादत्तजी व्यास ने ‘वैष्णव पत्रिका’ का प्रकाशन आरम्भ किया जो आगे चलकर ‘पीयूष प्रवाह’ के नाम से निकलने लगी।

हिन्दी के मुप्रसिद्ध लेखक पं० प्रतापनारायण मिश्र ने १५ मार्च १८८३ से ‘ब्राह्मण’ नामक एक १२ पृष्ठों का मासिक पत्र निकालना शुरू किया। यह कोई दस वर्ष तक चलता रहा। हिन्दी रसिक-मंडली ने इसे बहुत अपनाया। इस पत्र में पंडित प्रतापनारायण धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह के लेख लिखते थे, यहाँ तक कि आप स्वरों भी छापते थे। मिश्रजी की हिन्दी बहुत मुहावरेदार होती थी, वे अपने लखों में कहावतों को भी बहुत प्रयोग करते थे। उनके लेखों में मनोरंजकता की

मात्रा खूब होती थी। हास्य और व्यंग्य उनके लेखों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। १८८७ ई० में 'ब्राह्मण' कुछ दिनों के लिए बंद भी हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद भी खड़गविलास-प्रेस (बाँकीपुर) के मालिक, बाबू रामदीनसिंह, ने 'ब्राह्मण' को कुछ समय तक जीवित रखा, पर वह चला नहीं, अंत में बंद ही हो गया। प्रतापनारायणजी हिन्दो के बहुत बड़े हिमायती थे। 'ब्राह्मण' में उन्होंने हिन्दो के पक्ष में अनेक बार अच्छे-अच्छे लेख लिखे थे।

सन् १८५४ में 'समाचार सुधा वर्षण' नामक सबसे पहला हिन्दी दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके बाद करीब ३० वर्षों तक कोई दूसरा दैनिक पत्र नहीं निकला। सन् १८८३ में कालाकाँकर (अवध) के राजा रामपालसिंह ने, जो उन दिनों इंगलैंड में थे, वहीं से 'हिन्दुस्थान' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। १८८३ की जुलाई से सन् १८८५ तक यह इंगलैंड से ही निकला। यह पहले अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में निकलता रहा, पीछे उदू' में भी छपने लगा और मासिक से साप्ताहिक भी हो गया। हिन्दी उदू' के लेख स्वयं राजा साहब के तिखे हुए रहते थे। अंग्रेजी के लंख जार्ज टेम्पल द्वारा लिखे जाते थे। राजा साहब के भारत आगमन पर १ नवम्बर सन् १८८५ से 'हिन्दुस्थान' दैनिक पत्र के रूप में केवल हिन्दी में निकलने लगा। महामना पं० मदनमोहन मालवीय भी इस पत्र के सम्पादक रह चुके हैं। स्व० श्री बालमुकुन्द गुप्त, पं. प्रतापनारायण मिश्र और गोपालराम गहमरी, सहायक सम्पादकों में रह चुके हैं। 'हिन्दुस्थान' राजनीति में कांग्रेस का समर्थक था, राजा साहब स्वयं भी पक्के कांग्रेसवादी थे, निर्भय होकर वे सरकारी नीति की आलोचना किया करते थे। राजा साहब की मृत्यु के साथ ही यह पत्र भी विलीन हो गया। कुछ दिन पश्चात् उनके उत्तराधिकारी राजा स्मेशसिंहजी ने 'सम्राट' पत्र को पहले साप्ताहिक और फिर दैनिक रूप में निकाला किन्तु राजा साहब की असामियक मृत्यु के कारण वह भी

बन्द हो गया। सन् १८८५ ई० ही में कानपुर से 'भारतोदय' नामक एक दैनिक पत्र और भी निकला, जिसका वाषिक मूल्य १०) था। इसके सम्पादक श्री सीतारामजो परमोत्साही थे तथापि यह पत्र एक वर्ष के भीतर ही बन्द हो गया। बाबू हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में ही अर्थात् मार्च सन् १८८४ ई० में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 'भारत जीवन' नाम का पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण स्वयं भारतेन्दुजी ने ही किया था। यह सामाजिक श्री रामकृष्ण वर्मा के सम्पादकत्व में ही निकला था और काफी दिनों तक निकलता रहा। 'कवि वचन सुधा' के पश्चात् इसने हिन्दी की बहुत सेवा की। सन् १८८४ में अजमेर से 'राजपूताना गजट' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।

सन् १८६७ से सन् १८८५ तक निकलने वाले जिन पत्रों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त भी अनेक पत्र हिन्दी में निकले जिन सब का उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। किन्तु यहाँ पर आर्य-समाज द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रों की चर्चा करना आवश्यक है। सन् १८५७ में स्वामी दयानंद ने आर्य-समाज की स्थापना की थी। सन् १८७४ में उनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश का प्रकाशन हो चुका था। गुजरात में पैदा होकर भी स्वामीजी ने जो हिन्दी में अपना ग्रन्थ लिखा, यह एक बड़े महत्व की बात थी। सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन से एक प्रकार की विवादात्मक गद्य-शैली का सूत्रपात हुआ जिसे आर्य-समाज के पत्रों ने बहुत अपनाया। 'भारत सुदशा प्रवर्तक' (१८७८), 'आर्य दर्पण' (१८८०) आदि अनेक आर्य-समाजी पत्र इस समय प्रकाशित हुए। भारतेन्दु और उनके द्वारा प्रभावित पत्रकारों की शैली जहाँ साहित्यिक थी, वहाँ आर्य-समाजी पत्रों की शैली में आवेश और विवाद का स्वर अधिक था। आर्यसमाज-सम्बन्धी पत्रों में सरल हिन्दी का प्रयोग होता था जिसमें उदूँ के शब्दों की भी प्रचुरता रहती थी, लेकिन आगे चलकर उनका भुकाव संस्कृत की ओर होता गया। स्वामी दयानन्द ने तो इस भाषा का नाम ही 'आर्य-भाषा' रखा था किन्तु यह नाम अधिक प्रचलित न हो सका।

फिर भी यह अवश्य कहा जायगा कि आर्य-समाज के पत्रों ने हिन्दी भाषा और उसकी गद्य-शैली को काफी सबल बनाया ।

उत्तर-भारतेन्दु-काल (सन् १८८५-१९०३)

सन् १८८५ में 'काव्यामृत वर्षिणी' पण्डित शिवदत्त ने निकाली जो १८८८ तक निकलती रही । सन् १८८५ में कानपुर से 'भारतोदय' नामक दैनिक पत्र निकला । जैसा कि अभी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । १८८७ में कज़कन्ते से 'आर्यावर्त' नामक पत्र प्रकाशित हुआ । अन्य स्थानों से निकलने वाले पत्रों में रीवाँ के 'भारत भ्राता' का नाम उल्लेखनीय है । यह साप्ताहिक पत्र विद्यानुरागी महाराज कुमार श्रीलाल बलदेवसिंहजी के उद्योग तथा प्रबन्ध से सन् १८८७ में बड़ी योग्यता से निकला गया । रियासत से निकलने पर भी यह पत्र रियासत का नहीं था, स्वतंत्र था । इसमें राजनीति सम्बन्धी लेखों का समावेश रहा करता था । यह पत्र सन् १९०० के आसपास बन्द हो गया । सन् १८८८ में अजमेर से 'राजस्थान समाचार' नामक साप्ताहिक पत्र श्री समर्थ-दानजी के सम्पादकत्व में निकला । इसके सम्पादक स्वामी दयानन्दजी के बड़े भक्त थे, इसलिए यह पत्र आर्यसमाज का जोरों के साथ समर्थन करता था । इसी कारण कुछ लोग इसे आर्यसमाजी पत्र कहा करते थे, पर दरअसल बात ऐसी न थी । इसमें कुछ लेख आर्यसमाजी ढंग के होते थे, कुछ राजनीति से सम्बन्ध रखते थे, कुछ इधर-उधर की खबरें छपती थीं और कुछ रजवाड़ों की चिट्ठी-पत्रियाँ होती थीं । पत्र की भाषा अजमेर में बोली जाने वाली हिन्दी थी । इसमें कुछ समय तक चित्र भी प्रकाशित हुए थे । कई साल साप्ताहिक रहने के बाद यह अद्वैत साप्ताहिक हो गया था, पीछे जब सन् १९०५ में चीन-जापान में युद्ध छिड़ा और भारतवर्ष में बंग-भंग-आनंदोलन चला तब इस पत्र ने दैनिक रूप धारण कर लिया । तब पहले की अपेक्षा इस पत्र में अधिक स्वाधीनता आ गई, लेखों के धार्मिक रूप में भी परिवर्तन

हुआ किन्तु जनता की पत्रों में विशेष अभिरुचि न होने के कारण यह पत्र भी अन्त में बन्द हो गया; दैनिक अर्द्ध साप्ताहिक को भी ले बैठा !

सन् १८६० में बूँदी (राजपूताना) से 'सर्वहित' नामक पात्रिक पत्र निकला। यह लीथो में छपता था। पहले इसका सम्पादन पं. रामप्रताप शर्मा करते थे। बाद में पं. लज्जारामजी शर्मा ने तीन साल तक इसे बड़े अच्छे ढंग से चलाया। राजनीति की चर्चा न होने पर भी भाषा, साहित्य, धर्म, समाज और कारीगरी सम्बन्धों लेखों को देखते हुए यह पत्र अच्छा निकला था। पं. लज्जारामजी के अलग होने पर पत्र की हालत बिगड़ने लगी, जो बन्द होने के समय तक और भी बिगड़ गई। पत्र रियासत की ओर से निकलता था, इससे रियासत के प्रधान कर्मचारियों की इच्छा पर ही उसका जीवन निर्भर था। पदाधिकारियों की इच्छा न रही तो पत्र के जीवन का अन्त हो गया। यह पत्र करोब १४ वर्ष तक निकलता रहा।

सन् १८६० में ही बंगला 'बंगवासी' के स्वामी बाबू कृष्णचन्द्र बनर्जी ने बड़ी धूमधाम से 'हिन्दी बंगवासी' नामक साप्ताहिक अखबार निकाला। उस समय इस पत्र का वृहदाकार, सुन्दर कागज, प्रत्येक अंक में चित्र और मनोहर कहानी तथा उपहार में पुस्तक वितरण आदि हिन्दी भाषा के लिए नई बात थी। इसकी भाषा कुछ बंगला ढंग को होती थी, परन्तु इसके अन्य गुणों ने इस दोष को सहज ही छिपा दिया। इसका वार्षिक मूल्य केवल दो रुपया था जो आकार प्रकार के विचार से बहुत ही कम था। इस पत्र के इतने सर्टे होने से, इसके दो साल के भीतर ही कई एक हिन्दी अखबार बन्द हो गये और कई एक की कमर टूट गई। इसके ग्राहकों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। यह पत्र इतना लोकप्रिय हुआ कि उस समय 'बंगवासी' का प्रयोग लोग समाचार-पत्र के पर्याय के रूप में करने लगे थे। बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने भी इस पत्र का सम्पादन किया।

सन् १८६३ में चौधरी बद्रीनारायणजी 'प्रेमघन' ने 'नागरी नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र मिर्जापुर से निकाला। इस पत्र के कुछ शीर्षकों से ही

प्रेमघनजी की भाषा का अनुमान किया जा सकता है; जैसे, ‘सम्पादकीय-सम्मति-समीर’, ‘प्रेरित-कलापि-कलरव’, ‘हास्य-हरितांकुर’, ‘काव्यामृत-वर्षा’, ‘विज्ञापन-बीर-बहूटियाँ’, ‘नियम-निर्घोष’ आदि शीर्षकों में भी वर्षा का यह रूपक देखने ही योग्य है।

सन् १८६३ तक बम्बई से हिन्दी का एक भी पत्र नहीं निकला था। पहले पहल उस वर्ष ‘भाषा भूषण’ नामक पत्र निकला, पर वह अपनी भलक दिखा कर थोड़े ही समय बाद अदृश्य हो गया। उसी वर्ष ‘बम्बई बैपार सिन्धु’ नामक पत्र निकला, पर थोड़े दिनों के बाद वह भी काल के गर्भ में विलीन हो गया। सन् १८६६ में बम्बई से ‘श्रीवेंकटेश्वर समाचार’ नामक सामाहिक पत्र का प्रकाशन हुआ जो अब तक निकल रहा है। प्रथम महासमर के समय यह दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ था। अभी इस पत्र का ‘दीपमालिका अङ्क’ निकला है जिसमें भारतीय धर्म और संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले प्रसिद्ध विद्वानों के लेख हैं। इस पत्र के संस्थापक स्वर्ग-वासी सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास थे। सन् १८६६ में ठाकुर हनुमन्तसिंह के सम्पादकत्व में आगरा से ‘राजपूत’ का प्रकाशन हुआ जो अब तक निकल रहा है।

१६ वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में लियों के लिये भी ‘सुगृहिणी’ और ‘भारत भगिनी’ नामक पत्र निकले। ‘सुगृहिणी’ की सन्पादिका श्रीनवीनचंद्र राय की पुत्री श्रीमती हेमन्तकुमारी देवी थीं। यह पत्रिका १८८८ में निकली थी और हिन्दी के लिये नयी चीज थी। उसके अधिकतर लेख ब्रह्मसमाज के विचारों के पोषक होते थे। ‘भारत भगिनी’ सन् १८६६ में मुन्शी रौशनलाल बैरिस्टर की पत्नी श्रीमती हरिदेवी ने प्रयाग से निकाली थी।*

*देखिये ‘आज’ के ‘रजत-जयन्ती अङ्क’ (५ नवम्बर १९४५) में प्रकाशित श्री गुरुदेवप्रसाद वर्मा एम.ए० का ‘हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ’ शीर्षक लेख, पृ० ११९।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के इतिहास में सन् १६०० का वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष प्रयाग की सुप्रसिद्ध पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन हुआ था जिसने आगे चलकर हिन्दी पत्रकार-जगत् में क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। सरस्वती का पहला अंक बाबू जगज्ञाथ दास रत्नाकर, बाबू श्यामसुन्दर दास आदि विद्वानों के संपादकत्व में निकला था। दूसरे वर्ष का सम्पादन अकेले बाबू श्यामसुन्दरदास ने किया था। सन् १६०३ से 'सरस्वती' का सम्पादन पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी करने लगे।

द्विवेदी-काल [सन् १६०३-१६१८]

द्विवेदीजी ने जिस समय 'सरस्वती' का सम्पादन-भार प्रहण किया, उस समय लोगों की हिन्दी लिखने की और विशेष रुचि नहीं थी। बहुत से संस्कृत के विद्वान् तो हिन्दी की ओर देखते भी न थे और अंग्रेजी के विद्वान् हिन्दी लिखना अनुचित समझते थे। अपने सम्पादन-काल के पहले वर्ष के तो प्रायः सभी लेख द्विवेदीजी ने स्वयं लिखे किन्तु इस प्रकार 'आखिर कब्ब तक काम चल सकता था। द्विवेदीजी ने व्याकरण-सम्मत भाषा की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित कर हिन्दी-भाषा का परिष्कार किया और अनेक नये लेखक और कवि तैयार किये जिनसे हिन्दी साहित्य आज भी गौरवान्वित है। उन्होंने अपनी पारदर्शी सूचम दृष्टि से देख लिया था कि खड़ी बोली को गद्य की भाषा तक ही सीमित न रखकर यदि उसे काव्य-भाषा भी बना दो जाय, तो वह काव्योचित भाषा के समस्त गुणों से अलंकृत होकर समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। खड़ी बोली के जिस काव्य-तरु को फलते-फूलते आज हम देख रहे हैं, उसको नई-नई गद्य-पद्यात्मक कृतियों से सींच कर बढ़ने योग्य बना देना युग-निर्माता आचार्य श्री द्विवेदीजी का ही काम था।

आज-कल के ढंग की आख्यायिकाओं का प्रकाशन सबसे पहले 'सरस्वती' में ही प्रारम्भ हुआ था। हिन्दी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानी

‘उसने कहा था’ सन् १६१५ की ‘सरस्वती’ में ही प्रकाशित हुई थी। केवल आख्यायिकाओं द्वारा ही नहीं, इतिहास, जीवन-चरित्र, विज्ञान, आलोचना, पुरावृत्त, शिल्प, कला-कौशल आदि सभी विषयों से विभूषित होकर द्विवेदीजी के द्वारा ‘सरस्वती’ का प्रकाशन होता रहा। रवि वर्मा की पौराणिक प्रतिभा का प्रयोग भी द्विवेदीजी ने ‘सरस्वती’ के लिये किया। रवि वर्मा पौराणिक चित्र तैयार करते थे और द्विवेदीजी कवियों से इन पर कविताएँ लिखने के लिये कहा करते थे। ‘सरस्वती’ में प्रकाशनार्थ आये हुए लेखों में द्विवेदीजी बड़े मार्क का संशोधन किया करते थे। इस अकेली हिन्दी पत्रिका ने हिन्दी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए जितना काये किया है उतना एक संस्था भी क्या कर सकेगी। द्विवेदीजी स्वयं बहुत अध्ययन-शील थे, बंगला, मराठी और अंग्रेजी के पत्रों का वे बड़ी सूचनता से अध्ययन किया करते थे। ‘प्रवासी’ ‘वसन्त’ और ‘माडन रिव्यू’ जैसे पत्र द्विवेदीजी के सामने आदर्श रूप में रहे होंगे। ‘सरस्वती’ के स्तर को ऊँचा बनाने के लिए वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे। ‘सरस्वती’ के पहले जितनी पत्रिकाएँ निकलती थीं, उनका न तो बाह्य रूप ही इनना सुन्दर होता था और न आन्तरिक ही। सरस्वती के रंग-बिरंगे सुन्दर चित्र से सजे हुए बढ़िया टाइटिल पेज और अन्दर की छपाई, कागज, चित्र आदि सभी ने लोगों को मुराद कर लिया। सरकारी रिपोर्टों का सारांश ‘सरस्वती’ में उपस्थित करना और उन पर विचार-पूर्ण टिप्पणी लिखना भी द्विवेदीजी की प्रमुख विशेषता रही। सच तो यह है कि राजनीति और विज्ञान सम्बन्धी साहित्य भी अधिकांश पाठकों को ‘सरस्वती’ द्वारा ही पढ़ने को मिलता था। कवियों और लेखकों के निर्माण में भी ‘सरस्वती’ का बड़ा हाथ रहा है। कविवर मैथिलीशरण गुप्त, सनेहीजी, स्वामी सत्यदेव, राय कृष्णदास आदि सब इसी पत्रिका के ऋणी हैं। स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी भी द्विवेदीजी को गुरुवत मानते थे। द्विवेदीजी के सम्पादन-काल में नियमित रूप से ‘सरस्वती’ का अक्ष पाठकों के हाथ में पहुँच जाता था। अंग्रेजी

मासिक पत्रों के सम्पादकों में बाबू रामानन्द चटर्जी जिस तरह विख्यात हुए, उसी प्रकार हिन्दी मासिक पत्रों के क्षेत्र में द्विवेदीजी प्रसिद्ध हुए। द्विवेदीजी द्वारा संशोधित लेखों की पाण्डुलिपि बनारस के भारत-कला-भवन में अब भी सुरक्षित है।

‘सरस्वती’ के प्रभाव से और भी नये-नये पत्र हिन्दी में निकलने लगे। सन् १९०७ में प्रयाग से ‘आन्युदय’ का प्रकाशन हुआ जो राष्ट्रीय हृषि से एक महत्त्वपूर्ण पत्र था। यह बीच में अद्वैत साप्ताहिक तथा युद्ध-काल में कुछ दिन दैनिक रूप से भी निकला था। श्री जीवनशंकर याज्ञिक के सम्पादकत्व में अर्थ शास्त्र सम्बन्धी ‘स्वार्थ’ (१९२२) नाम का एक मासिक पत्र बनारस से निकलने लगा था। सन् १९०६ में इताहाशाद से ‘कर्मयोगी’ का प्रकाशन हुआ जो राष्ट्रीय दल का प्रमुख पत्र था। सन् १९१०-११ में ‘कामधेनु’ और ‘गुरुकुल समाचार’ का प्रकाशन हुआ। पं० कृष्णकान्त मालवीय ने ‘मर्यादा’ (१९२०) में राजनीति को यथेष्ट स्थान दिया। यह पत्रिका बहुत दिनों तक बड़े सुन्दर ढंग से निकली। उसमें पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी आदि विद्वान् बराबर लिखा करते थे। साहित्य के अन्यान्य विद्वानों ने भी इसे खूब अपनाया। ‘कामधेनु’ गोरक्षा-सम्बन्धी पत्र था और ‘गुरुकुल समाचार’ सिंकिदराजाद गुरुकुल का प्रमुख पत्र था। सरस्वती की प्रतियोगिता में काशी से ‘तरंगिणी’ नामक पत्रिका भी निकली। इनके अतिरिक्त ‘स्त्री-दर्पण’, ‘गृह-लक्ष्मी’ आदि स्त्रियोग्योगी पत्र भी निकले। ये दोनों पत्र भी यद्यपि बहुत दिनों तक नहीं चल सके तथापि नारी-समस्या की ओर उन्होंने अन्य मासिक पत्रों का ध्यान अवश्य आकृष्ट किया। बहुत से पत्र आगे चलकर इस समस्या पर विचार-विमर्श के लिए अलग ‘नारी पृष्ठ’ ही सुरक्षित रखने लगे।

सन् १९०६ में प्रसादजी के प्रयत्न से ‘इन्दु’ नाम का मासिक पत्र बनारस से श्री अंबिकाप्रसादजी गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र का साहित्यिक हृषि से ऐतिहासिक महस्त्र है क्योंकि प्रसादजी की

बहुत सी कविताएँ और कहाँनियाँ पहले पहले इसी पत्र के द्वारा हिन्दी जगत के सम्मुख आई थीं। अमर शहीद श्री गणेशशङ्कर विद्यार्थी ने १६१३ में कानपुर से 'प्रताप' निकाला। सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय पत्रकारिता को जन्म देने वाला यही पत्र था। युक्त प्रान्त की जनता में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने का कार्य सबसे अधिक 'प्रताप' ने ही किया। इसी पत्र के आदर्श पर आगे चलकर 'कर्मवीर', 'स्वराज्य', 'सैनिक सन्देश' और 'नवशक्ति' प्रकाशित हुए।

सन् १६१४ में कलरन्ते के कई मारवाड़ी सज्जनों के प्रयत्न से 'कलकत्ता समाचार' प्रकाशित हुआ, पर कुछ ही बरस चलकर वह बन्द हो गया। इस पत्र का संपादन कुछ समय तक पं० भाबरमलजी शर्मा ने भी किया था। दिल्ली का 'हिन्दू संसार' प्रारम्भ में श्रद्धेय पंडितजी के संपादन में ही निकला था। १६१७ में श्री मूलचन्द्रजी अग्रवाल ने 'विश्वमित्र' नामक अपना प्रसिद्ध दैनिक पत्र निकाला। हिन्दी के दैनिक पत्रों में 'विश्वमित्र' का एक विशिष्ट स्थान है। हिन्दी में इस पत्र के सामाहिक और मासिक संस्करणों के अतिरिक्त दैनिक के पाँच संस्करण पाँच भिन्न भिन्न नगरों-कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, पटना और कानपुर से प्रकाशित होते हैं।

अफ्रीका में १६०४ में श्री बी० मदनजीत के प्रयत्न से डरबन नगर से 'इण्डियन ओपिनियन' नामक सामाहिक पत्र निकला। स्वामी भवानी-दयालजी संन्यासी के प्रयत्न से अफ्रीका में सन् १६१२ में हिन्दी में 'धर्मवीर' नामक सामाहिक पत्र निकाला गया था। सन् १६१५ में विज्ञान परिषद् इलाहाबाद द्वारा 'विज्ञान' का प्रकाशन होने लगा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्म-काल से ही सम्मेलन पत्रिका (सन् १६११) का प्रकाशन हो रहा है। सन् १६१८ में श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने 'उपन्यास मासिक पुस्तक' का प्रकाशन किया था जिसके द्वारा पचासों उपन्यास उन्होंने हिन्दी संसार को भेट किये।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में द्विवेदी-काल एक महत्त्वपूर्ण युग है। 'सरस्वती' के अतिरिक्त भी अनेक महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन इस काल में हुआ जिनमें से कुछ तो आज-कल भी निकल रही हैं। हाँ, यह अवश्य कहा जायगा कि द्विवेदी-युग में 'सरस्वती' की समानता करने वाला दूसरा कोई मासिक पत्र न था। द्विवेदी-काल में ही खड़वा से पं० माखनलालजी चतुर्वेदी ने 'प्रभा' (१६१३) का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। 'प्रभा' को अंतिम दिनों में चतुर्वेदीजी ने परिष्ठित शिवनारायण मिश्र को सौंप दिया। उसके बाद सन् १६२० से वह खड़वा के बदले कानपुर से प्रकाशित होता रही। कानपुर आने के बाद उसका संपादन प्रारम्भ में स्वयं गणेशांकर विद्यार्थी और पं० श्रीकृष्णदत्त पालीबाल ने और फिर बहुत दिनों तक पं० वालकृष्ण शर्मा ने किया। मिश्रजी के सुप्रबन्ध और उपर्युक्त विद्वानों—विशेषतः पं० वालकृष्ण शर्मा नवीन के सम्पादकत्व में 'प्रभा' बहुत चमकी। उस समय इस पत्रिका की बराबरी करने वाली कोई दूसरी राजनीतिक पत्रिका न थी। उससे पहले कलकत्ते से पं० अधिकाप्रसाद वाजपेयी ने 'नृसिंह' (१६०६) नामक राजनीति प्रधान पत्र अवश्य निकाला था, जिसमें वर्तमान राजनीति की अच्छी विचारपूर्ण सामग्री पढ़ने को मिलती थी, परन्तु वह अधिक दिन तक न चल सका और राजनीति-प्रधान मासिक पत्रों में 'प्रभा' का ही एकाधिपत्य रहा।।

वर्तमान काल (सन् १६१८-१६४८)

मासिक पत्र—नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से 'माधुरी' नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन अगस्त १६२१ से प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका के संचालकों ने लेखकों को खासा अच्छा पारिश्रमिक देना प्रारम्भ किया।

॥ देविए अक्टूबर १९३४ के 'विशाल भारत' में प्रकाशित श्री विष्णुदत्त शुक्ल का 'हमारे मासिक पत्र' शीर्षक लेख।

‘माधुरी’ के प्रकाशन से पहले बहुत से पुराने लेखक एक प्रकार से चुप हो गये थे। इस पत्रिका के कुशल व्यवस्थापकों ने फिर उनको लिखने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि हम ‘माधुरी’ की पुरानी फाइलों में स्व० जगन्नाथदास रत्नाकर, बाबू ब्रजरत्नदास आदि को लिखते हुए पाते हैं। छपाई-सफाई की ओर भी ‘माधुरी’ ने बहुत ध्यान दिया और अपने बाह्य कलेक्टर को खूब सजाया। राजपूत और मुगल शैली के अत्यन्त मनोरम चित्र इस पत्रिका में बराबर छपते रहे। भिन्न-भिन्न विषयों का स्तम्भों के रूप में वर्गीकरण भी ‘माधुरी’ ने ही प्रारम्भ किया था, बाद में तो अनेक पत्रों ने इस स्तम्भ प्रणाली का अपनाया। हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकाओं में ‘माधुरी’ का विशिष्ट स्थान है। इस पत्रिका की प्रतिदिनिता में ‘मनोरमा’, ‘महारथी’, ‘महावीर’, ‘श्रीशारदा’ आदि अनेक पत्र प्रकाशित हुए थे। ‘ज्योति’ नामक एक सुन्दर पत्रिका भी इसी समय निकली थी पर वह बहुत दिन तक न चल सकी।

‘माधुरी’ के बाद जनवरी १९२७ में ‘सुधा’ का प्रकाशन हुआ। दुलारे-लालजी के सम्पादकत्व में इस पत्रिका ने भी अच्छी साहित्य-सेवा की किन्तु ‘सरस्वती’, ‘माधुरी’ आदि की तरह यह अपनी अविच्छिन्न परम्परा कायम न रख सकी। महिला समस्या और समाज-सुधार को लेकर निकलने वाले पत्रों में सर्वाधिक रुद्धाति ‘चाँद’ ने प्राप्त की। इसने ‘फांसी अङ्क’ और ‘मारवाड़ी अङ्क’ निकाल कर समाज में हलचल मचादी किन्तु ‘मारवाड़ी अङ्क’ निकलने के बाद ‘चाँद’ का वह महत्व न रह गया। हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियित्री महादेवी वर्मा भी ‘चाँद’ की सम्पादिक रह चुकी है। अपने सम्पादन काल में ‘चाँद’ के पृष्ठों में बड़ी विचार-पूर्ण सामग्री उन्होंने दी है।

सन् १९२८ में ‘महात्माजी’ के आशीर्वाद के साथ अजमेर से श्री हरिभाऊजी उपाध्याय के सम्पादकत्व में ‘त्यागभूमि’ का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। गांधी-साहित्य के अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी विषयों का समावेश

भी 'त्यागभूमि' में अच्छा रहता था। पत्रिका बड़ी सुन्दर निकली थी, किन्तु कई वर्ष के बाद यह भी बन्द हो गई। अब फिर से उसका प्रकाशन होने लगा है। 'मालव मयूर' के सम्पादक के रूप में भी श्री हरिभाऊजी हिन्दी संसार में प्रसिद्ध रह चुके हैं।

इसी वर्ष (१९२८) कलकत्ते से पं. बनारसीदासजी चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में 'विशाल भारत' नामक सुप्रसिद्ध मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 'सरस्वती' के बाद शायद सर्वाधिक रुचाति इसी पत्र ने प्राप्ति की। सभी प्रकार के विषयों से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण लेखों का प्रकाशन इस पत्र द्वारा हुआ। इसका बाह्य और अंतरंग दोनों एक समान सुन्दर रहे। 'प्रवासी' और 'माडन रिव्यू' से सम्बद्ध होने के कारण इस पत्र को एक बड़ा लाभ यह हुआ कि अच्छे से अच्छे चित्रकारों के चुने हुए चित्र इसमें निकलते रहे। इस पत्र ने 'कला अङ्क', 'राष्ट्रीय अङ्क' आदि महत्वपूर्ण विशेषाङ्क भी प्रकाशित किये। श्री 'अज्ञेय' तथा मोहनसिंह सेंगर भी इस पत्र के सम्पादकों में रह चुके हैं। आजकल श्रीराम शर्मा इस पत्र का सम्पादन कर रहे हैं। इसके सभी सम्पादकों ने 'विशाल भारत' के स्तर को उच्च बनाये रखने का प्रयत्न किया। चतुर्वेदीजी के सम्पादन-काल में प्रवासी भारतीयों की समस्या पर भी इस पत्र ने अच्छा प्रकाश डाला किन्तु यह अवश्य है कि अगर यह पत्र केवल प्रवासी भारतीयों की समस्याओं तक ही सीमित रहता तो इसका वह महत्व कदापि न रह जाता जो इसे आज प्राप्त है।

'विशाल भारत' के द्वारा ही चतुर्वेदीजी ने घासलेटी साहित्य के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया। 'कस्मै देवाय ?' के द्वारा भी उन्होंने साहित्यिकों के सामने यह प्रश्न रखा कि वे किसके लिये लिखें। काफी विचार-विमर्श इस प्रश्न को लेकर हुआ, जिसमें श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार तथा हजारी-प्रसादजी छिवेदी जैसे विद्वानों ने भी भाग लिया। क्रोपाटकिन के साहित्य की ओर हिन्दी पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय भी चतुर्वेदीजी को ही है। इण्टरव्यू लिखने की कला में भी आप बड़े दृढ़ हैं। आचार्य छिवेदी

सम्बन्धी इण्टरव्यू उन्होंने स्वयं लिखे और 'विशाल भारत' में प्रकाशित करवाये। आगे चल कर श्री पद्मसिंह शर्मा कमलेश ने विशिष्ट साहित्यिकों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में अपने इण्टरव्यू प्रकाशित करवाये। चतुर्वेदीजी ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के संस्मरण लिखने तथा साहित्यिक महारथियों के पत्र-संग्रह और उसके प्रकाशन की ओर भी हिन्दी जगत् का ध्यान आकर्षित किया। सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यिकों के पत्रों का बहुत अच्छा भंग्रह श्री चतुर्वेदीजी के पास है।

विकेन्द्रीकरण आनंदोलन के जन्मदाता भी श्री बनारसीदासजी ही हैं। वे इस बात को मानते हैं कि "थोड़े से व्यक्तियों अथवा दो तीन संस्थाओं के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति सौंपने के बजाय अधिक से अधिक मनुष्यों को सशक्त बनाना तथा सैकड़ों सहस्रों ऐसे केन्द्र स्थापित करना, जहाँ से साधारण जनता प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त कर सके, हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है।" उनका कहना है कि यदि राजस्थानी साहित्य-सम्मेलन की नींवे सुट्टू आधार पर रखी जाती है, 'अवधि साहित्य परिषद्' की स्थापना हो जाती है, ब्रजभाषा के लिये एक महाविद्यालय कायम हो जाता है, भोजपुरी ग्रामगीतों का संग्रह हो जाता है और कमाऊँ तथा गढ़वाल के पार्वत्य प्रदेशों में साहित्यिक जाग्रति हो जाती है तो इसमें केन्द्रीय सम्मेलन का क्या अहित होगा? चतुर्वेदीजी के इस अनंदोलन से लोगों को जनपदीय चेतना जागृत हुई और इस दिशा में अच्छा कार्य होने लगा। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने जनपदीय कार्य-क्रम की रूप-रेखा हिन्दी जगत के सामने रखी। स्वयम् चतुर्वेदीजी ने टीकमगढ़ से 'मधुकर' नामक पत्र निकाल कर बुन्देलखण्ड की संस्कृति और उसके लोक-साहित्य से हिन्दी जगत को परिचित कराया। 'मधुकर' का 'जनपद विशेषाङ्क' भी निकला जो अपने ढंग की अनूठी चीज़ है। 'मधुकर' का निकलना तो यद्यपि आजकल बन्द हो गया है, पर हाल ही में श्री चतुर्वेदीजी ने 'विन्ध्यवाणी' नामक एक सचिव्रं राष्ट्रीय साप्ताहिक की स्थापना की है, जिसका सम्पादन आजकल श्री प्रेमनारायण खरे कर रहे हैं।

हैं। इसके अब तक प्रकाशित चार अङ्क हमारे सामने हैं। आशा है यह सामाहिक भी अपने दंग का अनूठा सिद्ध होगा। हिन्दी साहित्य के पत्रकारों का जब कभी इतिहास लिखा जायगा, श्री चतुर्वेदीजी का नाम हिन्दी पत्रकारिता के सर्वथ्रष्ठ उन्नायकों के साथ लिया जायगा।

‘सरस्वती’ और ‘विशाल भारत’ के बाद निकलने वाले वाले पत्रों में ‘हंस’ एक ऐसा पत्र है जिसने हिन्दी जगत में युगान्तर उपस्थित किया है। इसका प्रकाशन सन् १९३० में हुआ। पुरानी रुद्धियाँ पर कुठाराघात करने, साहित्य में नयी प्रगतियाँ को जन्म देने तथा आलोचना के नये मापदण्ड स्थिर करने में ‘हंस’ ने बड़ा योग दिया है। सन् १९३३ में इसने अपना ‘काशी विशेषाङ्क’ प्रकाशित किया। सन् १९३४ से इस पत्र का अंतर्राष्ट्रीय रूप सामने आया। विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं सम्बन्धी साहित्य भी इस पत्र द्वारा प्रकाश में आने लगा। अक्टूबर १९३६ के बाद श्री जैनेन्द्रकुमार तथा शिवरानी देवी ने ‘हंस’ का सम्पादन किया। बाद में श्री शिवदानसिंह चौहान और श्रीपतराय इसके सम्पादकों में रहे। प्रगतिवादी आलोचना के क्षेत्र में श्री चौहान ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया। १९३८ में ‘हंस’ का एक विशेषाङ्क एकांकी नाटकों पर निकला। रेखाचित्रों पर भी इस पत्र ने अपना महत्त्वपूर्ण विशेषाङ्क निकाला। ‘हंस’ के प्रगतिशील विशेषाङ्कों ने भी देश-विदेश के प्रगतिशील साहित्य से हिन्दी पाठकों का परिचय कराया। सन् १९३८ से यह पत्र प्रगतिवादी धारा का बड़ा जबरदस्त पृष्ठपोषक रहा है। जब कभी हिन्दी साहित्य में प्रगतिवाद का इतिहास लिखा जायगा, उस समय ‘हंस’ की सेवाओं का बड़े आदरपूर्वक उल्लेख होगा। डा० रामविलास, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त तथा श्री भगवतशरण उपाध्याय आदि हिन्दी साहित्य के लेखकों ने इस पत्र के द्वारा लोगों की साहित्यिक, सामाजिक और राज-नैतिक चेतना को जाग्रत करने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। सामयिक प्रगतियों के साथ आगे बढ़ने का ‘हंस’ ने सर्वाधिक प्रयत्न किया है। हिन्दी साहित्य की प्रगतिशील कविताओं को लोकप्रिय बनाने में इसी पत्र का सबसे

अधिक हाथ रहा है। हिन्दी साहित्य में ‘रिपोर्टर्ज’ लिखने की प्रथा भी इस पत्र के द्वारा ही पड़ी। ‘हंस’ का केवल अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व ही नहीं है, ऐस तथा अन्य देशों के साहित्य को भी प्रकाश में लाकर इसने हिन्दी पाठकों का दृष्टिकोण विस्तृत किया है। ‘सरस्वती’, ‘विशाल भारत’ और ‘माधुरी’ के साथ साथ ‘हंस’ भी हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। पार्टी विशेष का पत्र होने से कुछ लोगों की दृष्टि में इस पत्र में एकांगिता हो सकती है पर यह सत्य है कि ‘हंस’ ने निर्भीकतापूर्वक अपने विचारों को जनता के सामने रखा है।

‘हंस’ की हो भाँति अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा को अधिकाधिक उपस्थित करने का ध्येय लेकर पिछले द वर्षों से प्रयाग से ‘विश्ववाणी’ का प्रकाशन भी हो रहा है। इसके संस्थापक पं० सुन्दरलाल हूँ और इसलिए आज-कल इसमें ‘हिन्दुस्तानी’ भाषा के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रारम्भ में श्री इलाचन्द्र जोशी ने इसका सम्पादन किया। इसका ‘बौद्ध संस्कृति अङ्क’ श्रीमती महादेवी वर्मा के सम्पादकत्व में सुन्दर निकला था। इसके अतिरिक्त ‘सावित्रि संस्कृति अङ्क’, ‘चौन अङ्क’, ‘अन्तर्राष्ट्रीय अङ्क’ आदि कई महत्वपूर्ण विशेषाङ्क निकले हैं जिनका अपना महत्व है। पिछले कई वर्षों से श्री विश्वभरनाथ जो के सम्पादन में ही यह निकल रही है। गांधीवादी विचारधारा का भी सुन्दर विश्लेषण इसमें रहता है। सुसम्पादन की ओर कुछ अधिक ध्यान दिया जाय तो यह अपना स्थान सुरक्षित रख सकेगी।

पिछले वर्ष से ‘जनवाणी’ नामक एक मासिक पत्रिका समाजवादी विचार-धारा को लेकर बनारस से निकलने लगी है। आशा की जाती है कि हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों में यह अपना स्थान बना लेगी। जुलाई १९४८ से ‘नया समाज ट्रस्ट’ ने श्री मोहनसिंह सेंगर के सम्पादकत्व में ‘नया समाज’ नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया है। इस पत्र को हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखकों का सहयोग प्राप्त है। इसके प्रथम अंक में ही सर्व

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा जैनेन्द्रकुमार आदि के महत्वपूर्ण लेख हैं। ‘हमारे नास्त्वन् क्यों बढ़ते हैं?’ शीषक द्विवेदीजी का लेख अपने ढंग का अनूठा और बहुत ही सामयिक है। इस पत्र का वृष्टिकोण मूलतः सांस्कृतिक है और इसमें विचारोन्ते जक लेखों का अच्छा समावेश रहता है। इस प्रकार के विचार-प्रधान सांस्कृतिक पत्र की बड़ी आवश्यकता थी जो इस पत्र द्वारा बहुत अंशों में पूरी होगी।

‘आजकल’ (१६४५) तथा ‘विश्वदर्शन’ (अगस्त १६४८) नामक दो पत्र भारत सरकार की ओर से दिल्ली से निकलने लगे हैं। दोनों ही पत्र कल्प मूल्य में अत्यन्त उपयोगी पाठ्य-सामग्री दे रहे हैं। ‘विश्वदर्शन’ मन्त्रभवतः हिन्दी का सबसे पहला पत्र है जिसमें अंतर्गत्रीय राजनीति को लेकर इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेख लिखे जारहे हैं। आज के युग में अंतर्गत्रीय परिस्थिति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक एवं वाच्छनीय है। भारत के प्रधान मंत्री ने तो हमेशा इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ‘बालभारती’ बच्चों के लिए इन्हें देखा जाएगा।

डा० रामकुमार वर्मा के सम्पादकत्व में नागपुर से द्वाल ही में ‘प्रकाश’ नामक एक अच्छा पत्र निकलने लगा है। सन् १६४७ से बिहार सरकार ने ‘बिहार’ नाम से एक महत्वपूर्ण हिन्दी पत्र निकालना प्रारम्भ किया है। पिछले दो एक वर्षों से पटना से ‘पारिजात’ भी अपने ढंग का अच्छा पत्र निकला। आज-कल यह दैमासिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है। पिछले तीन वर्षों से दिल्ली से ‘सरिता’ नामक एक कहानी-प्रधान मासिक पत्र निकलने लगा है। हिन्दी के बहुत कम पत्र ऐसे होंगे जो छपाई-सफाई जैसा सुन्दर आकार-प्रकार में इसको बराबरी कर सकें। सन् १६२६ से इन्होंने से ‘बीणा’ अब तक मासिक पत्र के रूप में निकल रही है, यद्यपि इसका पहले बाला महत्व आज नहीं रह गया है। पिछले करीब १० वर्षों से ब्राह्म गलाकारायजी के सम्पादकत्व में ‘साहित्य सन्देश’ नामक आलोचना-

श्रधान मासिक पत्र सफलता पूर्वक निकल रहा है, थृथपि छपाई-सफाई की दृष्टि से इसमें सुधार की बहुत कुछ गुजायश है। फरवरी १६४८ से शारदा प्रकाशन, बॉकीपुर (पटना) से 'दृष्टिकोण' नामक आलोचनात्मक पत्र निकलने लगा है। इस पत्र के निबन्धों का स्तर काफी उच्च है। सं० २००५ (सन् १६४८) से कलकत्ता से 'साधना' नामक एक मासिक पत्र निकलने लगा है। निरालाजी के साहित्य से सम्बन्ध रखमे वाले अच्छे लेख इस पत्र में प्रकाशित होते रहते हैं। जितने मासिक पत्र निकल रहे हैं उन सबकी चर्चा करना यहाँ सम्भव नहीं किन्तु उन महत्वपूर्ण पत्रों के सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है जो पिछले वर्षों में निकले और बाद में चलकर बन्द हो गये। हिन्दी के स्वनामधन्य कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत के सम्पादकत्व में बहुत वर्ष द्वारा एक 'रूपाभ' (१६३८) नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था। इस पत्र में सुप्रसिद्ध कवियों तथा लेखकों की महत्वपूर्ण रचनायें प्रकाशित होती थीं। इस पत्र में प्रकाशित लेखों का स्तर भी अत्यन्त उच्च होता था। अब भी 'लोकायन' की ओर से पंतजी एक पत्र निकालने लगे तो उससे साहित्य और संस्कृति का बड़ा उपकार हो सकता है।

सन् १६३१ में मुलतानगंज से 'गंगा' नामक मासिक पत्रिका श्री रामगोविन्द त्रिवेदी, गौरीनाथ झा तथा श्री शिवपूजनसहाय के सम्पादकत्व में निकलने लगी थी। 'वेदांक' और 'पुरातत्वांक' इसके दो बड़े प्रसिद्ध किशोरांक निकले। पुरातत्वांक का सम्पादन आचार्य नरेन्द्रदेव तथा महापंचित राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बजारस से स्थियोपयोगी 'कमला' नामक मासिक पत्रिका श्री पराणकरजी के संपादकत्व में निकली थी किन्तु खेद है कि यह भी बहुत समय तक न निकल सकी। इटिडयन रिसर्च इन्स्टिट्यूट कलकत्ता से संवत् १६६८ में 'प्राचीन भारत' नामक भारतीय-शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धी मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके सम्पादक महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा तथा सह० सम्पादक श्री कालीदास मुकर्जी थे। प्रसिद्ध विद्वानों के महत्वपूर्ण अनुसंधानात्मक

लेख इस पत्र में प्रकाशित होते थे। सन् १६०० में हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् श्री गुलेरीजी ने नागरी सदन की स्थापना की थी। “सन् १६०२ में उन्होंने अपनी थोड़ी अवस्था में ही जयपुर से ‘समालोचक’ नामक एक मासिक पत्र अपने सम्पादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अनूठी लेख-शैली लेकर साहित्य-क्षत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास, जैसा इनके लेखों में रहता था, और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा-प्रसंगों की ओर चिनोद-पूर्ण संकेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग-गर्भत्व के कारण इनकी चुटकियों का आनन्द अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूप से विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे।”* कई वर्ष पूर्व दिल्ली से ‘हिन्दी पत्रिका’ निकली थी जिसमें हिन्दी लेखों के साथ-साथ गुजराती, मराठी, तामील आदि प्रान्तीय भाषाओं के अंश हिन्दी अनुवाद या टिप्पणी सहित रहते थे। यह भी बहुत समय न निकल पाई।

संवत् १६८२ में राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता से ‘राजस्थान’ नाम का एक त्रैमासिक पत्र श्री किशोरसिंह वार्हस्पत्य आदि के सम्पादन में प्रकाशित हुआ था जिसमें राजस्थान के इतिहास, भाषा और साहित्य, संस्कृति और कला आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित होते थे। किन्तु कुछ ही वर्ष निकलने के बाद यह उपयोगी पत्र भी बन्द हो गया। सन् १६३६ में कलकत्ता से श्री शंभूदयाल सक्सेना व श्री आगरचन्द नाहटा के संपादकत्व में ‘राजस्थानी’ त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ किन्तु वह भी चार अंक निकलने पर बंद हो मई।

सं० १६८५ में अखिल भारतीय चारण सम्मेलन की ओर से ‘चारण’ नामक एक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन ठा० ईश्वरदानजी आशिया तथा श्री

*देखिये हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द्र शुक्ल) पृ० ६२५।

शुभकर्णजी कविग्रा के सम्पादकत्व में हुआ था । इस पत्र में गुजराती अंश भी छपता था जिसके सम्पादक श्री खेतासिंह नारायणजी मिश्रण थे । यह पत्र क्लोल (उत्तर गुजरात) से निकलता था किन्तु दो वर्ष बाद ही यह पत्र भी बन्द हो गया । राजस्थानी साहित्य और संस्कृति से हिन्दी जगत को परिचित कराने में इस पत्र के विद्वान सम्पादकों ने सराहनीय प्रयत्न किया था । अभी हाल हो में श्री देवीदान रत्न के संपादकत्व में इस पत्र के फिर दर्शन हुए हैं । सं० १९८५ में ठा० किशोरसिंहजी वार्हस्पत्य के सम्पादकत्व में 'चारण' मासिक रूप में भी एक वर्ष तक प्रकाशित हुआ था ।

हिन्दी पत्रकारिता के पिछले १२५ वर्षों के इतिहास को यदि हम देखें तो न जाने कितने उपयोगी पत्र प्रकाश में आये और अपनी अल्पकालीन मलक दिखला कर काल के गाल में समा गये । अपने जन्म के समय से अब तक जिन मासिक पत्रों ने अपनी परम्परा को अविच्छिन्न रखा है और जो अब तक निकल रहे हैं, उनमें से 'सरस्वती', 'सुक्षि', 'विशाल भारत', 'हंस', 'राजपूत', 'माधुरी' और 'कल्याण' तथा साप्ताहिकों में 'वैकटेश्वर समाचार', 'आर्यमित्र', 'तिरहुत समाचार', 'मुजफ्फरपुर समाचार' तथा त्रैमासिकों में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', 'सम्मेलन पत्रिका' आदि पत्रों के नाम लिये जा सकते हैं । जहाँ तक पता चला है, हिन्दी पत्रों में सबसे अधिक आहक संख्या 'कल्याण' की है । इस धार्मिक और अक्ति विषयक मासिक पत्र का प्रकाशन सन् १९२६ से होने लगा था । 'कल्याण' के सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि इसके आद्य तथा बर्तमान संपादक श्री हनुमानप्रसादजी पोद्धार ही हैं । अनेक महत्वपूर्ण विशेषाङ्क निकाल कर 'कल्याण' ने हिन्दी जनता की अनुपम सेवा की है । इसका एक-एक विशेषाङ्क संग्रहणीय और साहित्य की अमूल्य निधि है ।

हिन्दी में आज अनेक मासिक पत्र निकल रहे हैं । कविता सम्बन्धी, उद्यम, सिनेमा और कला विषयक, बाल-साहित्य तथा जाति सम्बन्धी, तथा गाड़िया गाज़नीनि विज्ञान एवं ज्ञानान्य विषयों से सम्बन्ध रखने वाले

जितने पत्र आज हिन्दी में निकल रहे हैं उनमें से बहुतसों का वर्णन श्री अखिल विनय और चंचलजी द्वारा परिश्रमपूर्वक सम्पादित 'हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ' शीर्षक प्रस्तुत पुस्तक में मिलेगा; पिष्ट-पेषण तथा गौरव-भय के कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

साप्ताहिक-पत्र

सन् १९१८ तक द्विवेदी-काल में जिन महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हुआ था, उनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। सन् १९१६ में पंडित सुन्दरलालजी ने 'कर्मयोगी' के बाद दूसरा साप्ताहिक 'भविष्य' निकाला। जितने समय तक यह निकला, इस पत्र ने भी बड़ा नाम कमाया। यह पहले साप्ताहिक और फिर दैनिक रूप में निकला। बाद में इसे भी शीघ्र ही बन्द होना पड़ा।

सन् १९२०-२१ के असहयोग आनंदोलन के आसपास अनेक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए। इनमें 'कर्मवीर' (खरडवा) 'स्वराज्य' (खरडवा), 'सैनिक' (आगरा) और 'स्वदेश' (गोरखपुर) तथा राजेन्द्र बाबू द्वारा संस्थापित पटना का 'स्वदेश' तथा 'राजस्थान के सरी' (वर्धा) मुख्य हैं। कर्मवीर, सैनिक और स्वराज्य आज भी निकल रहे हैं। महात्माजी का 'हिन्दी नवजीवन' भी बड़ा महत्वपूर्ण साप्ताहिक था जो अब 'हरिजन-सेवक' के नाम से निकल रहा है। कुछ समय तक श्री वियोगी हरिजी ने भी 'हरिजन-सेवक' का सम्पादन किया था। वर्तमान साप्ताहिकों में 'नवयुग' और 'वीर अर्जुन' (दिल्ली); 'समाज' (बनारस), 'योगी' (पटना), 'जनयुग' (काशी), 'भारत', 'देशदूत' (प्रयाग) आदि प्रमुख हैं। साप्ताहिकों में संभवतः 'नवयुग' सबसे अधिक संख्या में छपता है। अंग्रेजी के 'इलास्ट्रेटेड वीकली' में जिस प्रकार चित्रों का बहुल्य रहता है, करीब-करीब उसी तरह हिन्दी के साप्ताहिकों में सबसे अधिक चित्र 'नवयुग' में ही छपते हैं। 'नवयुग' के मुख पृष्ठ का चित्र भी प्रति सप्ताह बदल कर दूसरा किया जाता है। यह पत्र श्री इन्द्रनारायणजी

शुद्ध के सम्पादकत्व में प्रकाशित होता है, इसकी पाठ्य-सामग्री विविध विषयों से विभूषित रहती है किन्तु कभी-कभी प्रूफ-सेशन भली-भौति के होने से इसमें वर्गीकृत्यास की अशुद्धियाँ भी रह जाती हैं। बनारस के 'समाज' में जो १८ जुलाई १९४६ से (६ वें वर्ष के प्रारम्भ से) सामाहिक "आज" का परिवर्तित नाम है, संस्कृति, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ-सभी विषयों पर महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। हिन्दी के सामाहिकों में यह बहुत अच्छा सुसंपादित पत्र है। 'बीर अर्जुन' उत्तर-भारत का अत्यन्त लोकप्रिय पत्र है। प्रयाग का 'भारत' बहुत वर्षों से निकलता है और हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रों में से है। सभी प्रकार की उपयोगी पाठ्य-सामग्री इस पत्र में पढ़ने को मिल जाती है। 'जनयुग' कम्यूनिस्ट पार्टी का पत्र है। 'देशदूत' प्रयाग से निकलने वाले अच्छे पत्रों में से है। 'काशी' से निकलने वाला 'संसार' भी उपयोगी पत्रों में से है। हाल ही में इलाचन्द्रजी जोशी के संपादकत्व में प्रयाग से 'संगम' नामक अच्छा पत्र प्रकाशित होने लगा है। राजपूताना से निकलने वाले सामाहिकों में 'लोकवाणी' (जयपुर) और 'वसुन्धरा' (उदयपुर) का नाम लिया जा सकता है। हिन्दी के सामाहिकों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में मिलेगा।

दैनिक-पत्र

'प्रे मी अभिनन्दन ग्रन्थ' में श्री अधिकाप्रसादजी वाजपेयी ने सन् १९४६ में 'भारत में समाचार पत्र और स्वाधीनता' शीर्षक अपने लेख में लिखा था—“आज तो हिन्दी में चार दैनिक कलकत्ते से, दो अम्बई से, चार दिल्ली से, दो लाहौर से, तीन कानपुर से, एक प्रयाग से, तीन काशी से और दो पटना से, इस प्रकार एक दर्जन से अधिक दैनिक निकल रहे हैं।” अभी 'विश्वमित्र' में श्री मूलचन्द्रजी अग्रवाल ने 'यह पत्र-जगर' शीर्षक अपने लेख में लिखा है कि 'देश में ज्यादा से ज्यादा एक दर्जन पत्र सफलतापूर्वक चलने वाले कहे जा सकते हैं। परन्तु निकलते हैं कम से कम एक सौ दैनिक।

साप्ताहिकों और मासिकों की तो गणना ही संभव नहीं।” ‘हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ’ शीर्षक प्रस्तुत पुस्तक में ५८ दैनिक पत्रों का विवरण दिया गया है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी में आजकल दैनिक पत्रों की संख्या क्या है।

द्विवेदी काल में प्रकाशित होने वाले दैनिकों का ऊपर कुछ उल्लेख हो चुका है। ‘भारत मित्र’ के बाद हिन्दी के दैनिक पत्रों में काशी के ‘आज’ ने सर्वाधिक रूपाति प्राप्त की। सन् १९२० की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राष्ट्ररत्न श्री शिवप्रसादजी गुप्त ने ‘आज’ का प्रकाशन प्रारम्भ किया। मासिक पत्रों के ज्येत्र में जो स्थान ‘सरस्वती’ का रहा, वही स्थान दैनिक पत्रों के ज्येत्र में ‘आज’ का रहा। सन् १९४५ में इस पत्र की ‘रजत जयन्ती’ भी मनाई गई। पराङ्करजी के सम्पादन में ‘आज’ खूब ही चमका। ‘आज’ की संपादकीय टिप्पणियाँ अत्यन्त मार्मिक हुआ करती थीं। देश में तथा विशेषतः काशी में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने का बहुत कुछ श्रय इस पत्र तथा इसके सम्पादक श्री पराङ्करजी को भी है। पराङ्करजी अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार संघ के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीच में ‘आज’ को छोड़ कर जब आप दैनिक ‘संसार’ का सम्पादन करने लगे तो यह पत्र भी चमक उठा। राष्ट्रीय पत्रों में कानपुर के ‘प्रताप’ तथा आगरा के ‘सैनिक’ का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उचरी भारत का सबसे अधिक लोक प्रिय दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ है; राजपूताने की रियासतों में ‘लोकवाणी’ दैनिक का भी अपना विशेष स्थान है। शेष दैनिक पत्रों का विवरण पाठक प्रस्तुत पुस्तक में पढ़ेंगे।

त्रैमासिक पत्र

हिन्दी साहित्य में आज अनेक महत्वपूर्ण त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। काशी की सुप्रसिद्ध ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’, ‘हिन्दुस्तानी’ एकेडेमी, प्रयाग से प्रकाशित होने वाली ‘हिन्दुस्तानी’ तथा हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित होने वाली ‘सम्मेलन पत्रिका’ बहुत पुरानी

पत्रिकाएँ हैं, जिनका अपना इतिहास है, अपना विशेष महत्त्व है। नागरी-प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 'सरस्वती' से भी कुछ वर्षों पहले सन् १८६६ में हुआ; सम्मेलन पत्रिका सम्मेलन के जन्म-काल (१८११) से ही निकल रही है और पिछले १७ वर्षों से 'हिन्दुस्तानी' भी अच्छे ढंग से प्रकाशित हो रही है।

सन् १८४२ से शान्तिनिकेतन से पं० हजारीप्रसादजी द्विदेवी के सम्पादकत्व में 'विश्वभारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है। अन्य शोधपूर्ण लेखों के साथ इसमें रवीन्द्र साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। सं० १८६८ से भारतीय विद्याभवन, बम्बई से 'भारतीय विद्या' निकल रही है। भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख इसमें प्रकाशित होते रहते हैं। बीकानेर से 'राजस्थान भारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका श्री अग्रसर्वदंजी नाहटा और डाक्टर दशरथ शर्मा के संपादकत्व में निकल रही है। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाली यह बहुत महत्त्वपूर्ण शोध-पत्रिका है। उदयपुर के प्राचीन साहित्य-शोध-संस्थान से भी 'शोध पत्रिका' के तीन अङ्क अब तक निकल चुके हैं। हाल ही में कोटा से 'विकास' और 'भारतेन्दु' नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ निकलने लगी हैं। साहित्य, संस्कृति और अनुसंधान की दृष्टि से दोनों पत्रिकाओं का अपना अपना महत्त्व है। आध्यात्मिक पत्रिकाओं में अरविन्द आश्रम पांडिचेरी से निकलने वाली 'अद्विति' बड़ी उपयोगी पत्रिका है, जिसमें गूढ़ दार्शनिक लेख छपते रहते हैं। संस्कृति सदन, रतलाम से पिछले वर्ष 'भारतीय संस्कृति' नामक पत्रिका निकली है। आरा (बिहार) से कई वर्षों से 'जैत सिद्धान्त भास्कर' नामक अनुसंधान-पत्र निकल रहा है। शोधपूर्ण लेखों का सुन्दर चयन इसमें रहता है। सरकार की ओर से 'शिक्षा' शीर्षक एक सुन्दर त्रैमासिक पत्रिका हाल ही में निकलने लगी है। सन् १८४४ में टीकमगढ़ से श्री कृष्णानंदजी गुप्त के सम्पादकत्व में 'लोकवार्ता' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का निकलना प्रारम्भ हुआ था किन्तु उसके कुछ ही अंक निकल पाये, बाद में वह अन्दर हो गई। लोक-विज्ञान के सम्बन्ध में यह एक महत्त्वपूर्ण

प्रयास था । डा० वासुदेवशशण अग्रवाल जैसे जनपद-साहित्यानुरागी विद्वानों का सहयोग भी इस पत्रिका को प्राप्त था । परिस्थितियों के अनुकूल होते ही यदि फिर से इस पत्रिका का प्रकाशन होने लगे तो ज्ञोक-विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस पत्रिका द्वारा सम्पन्न हो सकेगा । जनवरी १९४६ से वनस्थली विद्यापीठ से श्री सुधोन्द्रजी के सम्पादकत्व में 'वनस्थली पत्रिका' नाम की एक सुन्दर त्रैमासिक पत्रिका निकलने लगी है । 'अर्थ सन्देश' शीर्षक उपयोगी त्रैमासिक पत्रिका आचार्य श्री भगवतशरणजी अधोलिया के सम्पादकत्व में निकलने लगी है जो एक बड़े अभाव की पूर्ति करेगी ।

पुस्तक-पत्र

पिछले दो-तीन वर्षों से अनेक पुस्तक-पत्र हिन्दी साहित्य में निकलने लगे हैं जिनमें 'हिमालय' 'प्रतीक' सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए । 'नया साहित्य', 'समता', 'निर्माण', 'प्रतिभा', 'प्रदीप' आदि अन्य मासिक पुस्तिकाएँ भी निकलीं । 'नया साहित्य' का प्रकाशन तो अब कुछ अंक निकलने पर बंद हो गया है । आगरे का 'निर्माण' भी श्री रांगेय राघव के सम्पादन में एक अंक निकलने पर बन्द हो गया । पत्र अच्छा निकला था । इन पत्र-पुस्तिकाओं में 'हिमालय' ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है; 'प्रतीक' में प्रकाशित लेखों का स्तर अत्यन्त उच्च रहता है । सहारनपुर से 'नया जीवन' भी श्री कन्हैया-लाल मिश्र 'प्रभाकर' के सम्पादकत्व में निकल रहा है ।

पिछले १२५ वर्षों के हिन्दी पत्रों का संक्षेप में इतिहास प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल काम है । कहते हैं कि आज से लगभग ३०-३५ वर्ष पूर्व श्री अनन्तबिहारी माथुर 'अवन्त' ने 'हिन्दी समाचार पत्रों का इतिहास' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखना शुरू किया था और वर्षों के सतत प्रयत्न और धोरं परिश्रम के बाद सन् १९२७ के अन्त में वे इस ग्रन्थ को पूरा कर पाये थे । इसमें १९२५ तक के २००० हिन्दी समाचार-पत्रों का इतिहास संक्षिप्त किया गया है । इसके बाद की सामग्री श्री 'अवन्तजी' द्वया और भी कईयों के

पास सुरक्षित है। श्री बंकटलालजी ओझा साहित्यमनीषी ने अखिल भारत-वर्षीय हिन्दी समाचार-पत्र-प्रदर्शनी की आयोजना भी की थी*। तब से उक्त ओझाजी के पास बढ़ते-बढ़ते हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का एक विशाल संग्रह हो गया है जो समाचार पत्रों के इतिहास प्रस्तुत करने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस संग्रहालय के अध्यक्ष श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी हैं। यह संग्रहालय कसरहट्टा रोड, हैदराबाद (दक्षिण) में अवस्थित है।

अन्य देशों के मुकाबिले में अभी भारतवर्ष के पत्रकार उतने संगठित और समृद्ध नहीं हैं। पत्रकार कला की समुचित दीक्षा भी उन्हें नहीं मिलती है। पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी देश की विशाल जन-संख्या को देखते हुए बहुत कम है। ब्रिटेन में १६०० पत्र तथा ३६०० पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं जिनमें प्रायः २० लाख व्यक्ति काम करते हैं। अपनी अधिकार-रक्षा के लिए वहाँ पत्रकारों ने अपने संघ बना रखे हैं। अमेरिका के पत्रों को पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त हो चुका है। वे सब प्रकार के विचारों तथा समाचारों को प्रकाशित कर सकते हैं। अमेरिका में कोई २५००० समाचार पत्रों तथा सामयिक पत्रों का प्रकाशन होता है। वहाँ २१०० के लगभग दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं। कहते हैं कि इंग्लैण्ड, अमेरिका, देशों में प्रत्येक व्यक्ति औसतन तीन पत्र पढ़ लेता है किन्तु भारतवर्ष में तो अभी केवल १२ प्रति शत व्यक्ति ही ऐसे हैं जो साक्षर कहे जा सकते हैं। देश अब पराधीनता के बन्धन से मुक्त हुआ है। इसलिए आशा की जाती है कि साक्षरता की वृद्धि के साथ-साथ देश में समाचार-पत्र पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। पाठकों और ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर तो पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में भी अनिवार्यतः वृद्धि होगी। और वह दिन भी देखने को मिलेगा जब यहाँ के पत्र विदेशी पत्रों से मुकाबिला कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। वर्तमान समय

*देसिये मार्च १९३९ के 'साहित्य सन्देश' में प्रकाशित श्री बंकटलालजी ओझा का 'समाचार पत्रों का इतिहास और हिन्दी पत्रकार' शीर्षक लेख।

में तो बँगला, मराठी तथा गुजराती में प्रकाशित उच्च कोटि के पत्रों के स्तर को पहुँचने वाले हिन्दी के पत्र विरल ही हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की बढ़ सी आ गई है किन्तु कह नहीं सकते, कितने पत्र समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। बहुत से पत्र तो ऐसे हैं जो अत्यन्त सामान्य कोटि के हैं, जो किसी भी हालत में अपनी सत्ता की सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकते। अन्य देशों में पत्रकारों की शिक्षा के लिए बाकायदा शिक्षण-संस्थाएँ बनो हुई हैं, भारतवर्ष में ऐसी संस्थाओं का बहुत कुछ अभाव है। यह हर्ष की बात है कि काशी विद्यापीठ में पत्रकार-शिक्षा का भी आयोजन किया गया है। अच्छे पत्रकार के लिए जिस विद्वत्ता, अनुभव, धैर्य, साहस और निर्भीकता आदि गुणों की आवश्यकता होती है, वे गुण बहुत से पत्रकारों में आज नहीं दिखलाई पड़ते। बहुत से पत्र तो ऐसे हैं जो अपने पत्र का कलेवर निरर्थक विज्ञापनों से भर देते हैं और अपने लाभ के लिए ग्राहकों का गला धोंटते हैं। महाकवि निराला के शब्दों में “आज के बहुत से सम्पादक ऐसी स्वतंत्रता के ढोल हैं, जो केवल घजते हैं। बोल के अर्थ, ताल-गति नहीं जानते अर्थात् उनके भीतर ही पोल भी है। वे दूसरे के हाथों की मधुर थपकियों से बोलते हैं, जनता वाह-वाह करती है और बजाने वाले देवता को पुष्पमाला देकर यथाभ्यास, जैसे उसे सुझाया गया, पूजने को दौड़ती है।” ऐसे सम्पादक सम्पादक—नाम को बदनाम करते हैं। पत्रकार और सम्पादक का पद बड़ा दायित्वपूर्ण होता है। सच कहा जाय तो पत्रकार जनता की आँख होता है, अन्धी जनता को मार्ग-दृष्टि देना सच्चे पत्रकार का ही काम है। विश्व के महान् आनंदोलन के संचालन में पत्रकारों का बड़ा हाथ रहता है। ऊपर के विवेचन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हिन्दी में अच्छे सम्पादकों का नितान्त अभाव है। हिन्दी में अब भी सम्पादकाचार्य श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, पराडकरजी, शिवपूजनसहाय, चतुर्वेदीजी, श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे तथा श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जैसे पत्र-सम्पादक मौजूद हैं। इससे भी कोई इन्कार नहीं कर

सकता कि देश में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में बहुत से पत्रकारों का हाथ रहा है जिसका उचित श्रेय उनको मिलना चाहिए। इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का एक वृहद् इतिहास हिन्दी में प्रकाशित हो। डा. रामरत्न भट्टनागर की एतद्विषयक एक पुस्तक (किताब महल इलाहाबाद से) अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी में भी इस विषय की पुस्तकें और पत्र* प्रकाशित हों। प्रस्तुत पुस्तक के दोनों सम्पादक पत्रकारिता में विशेष अभिरुचि रखने वाले हैं, उनका यह प्रारम्भिक प्रयत्न है। इसमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गई होंगी, ऐसा वे स्वयं भी अनुभव करते हैं किन्तु उनका प्रयास निःसन्देह अभिनंदनीय है।

प्रस्तुत निष्पत्ति के लिखने में जिन पुस्तकों अथवा पत्र-पत्रिकाओं से सहायता ली गई है उनके नाम पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में दे दिये गये हैं। उन सब के लेखकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना आवश्यक कर्तव्य समझता हूँ।

दीपावली, १९०५

विड्ला कालेज
पिछानी, (जयपुर)

}

—कन्हैयालाल सहल ।

*गांधी नगर, बनारस से श्री सतीशचन्द्र गुह-ठाकुर के सम्पादकरण में Indiana नामक पत्रिका अंग्रेजी में निकली थी जिसमें भारत की समस्त प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित मासिक पत्रों के महत्वपूर्ण लेखों का परिचय रहता था। Indiana के परामर्श-मण्डल में हिन्दी भाषा की ओर से प्रमुख सम्पादक श्री प्रेमचन्द्र जी थे।

३. दैनिक-पत्र

(१) अमर उजासा—गत ५ मास से प्रकाशित; सं० श्री डोरीलाल अप्रवाल 'आनंद'; स्थानीय पत्र; प्रति —), प० बेलनगंज, आगरा।

(२) अमर भारत—संस्था० श्री गोस्वामी गणेशदत्तजी; इसी वर्ष से प्रकाशित; सं० श्रीयुत 'माधव'; व्यंग चित्र अच्छे निकलते हैं, थोड़े अर्से में ही लोकप्रिय बन गया है; वार्षिक मू. ३४), प्रति —॥, प० दरियागंज, दिल्ली।

(३) अधिकार*—१६३६ से काशित; संस्था० कालाकांकर के श्री सुरेशसिंह; प्रारम्भ में श्री सुरेशसिंह तथा श्री सोहनलाल द्विवेदी सम्पादक रहे; प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र, प० आर्यनगर, लखनऊ।

(४) अशोक—इसी वर्ष से प्रकाशित; संचा० श्री रामकृष्ण भार्गव; सं० सर्व श्री कृष्णचन्द्र मुद्गल, 'निशंक', प्रति —॥, प० ४, महारानी रोड, इंदौर।

(५) आज—५ सितम्बर १६२० से प्रकाशित; (जन्माष्टमी १६७७ को श्री शिवप्रसाद गुप्त द्वारा संस्थापित) प्रारम्भ में श्री श्रीप्रकाश सम्पादक रहे तथा श्री बाबूराव विष्णु पराडकर ने २२ वर्ष तक (सन् १६२०-४२) सम्पादन किया। 'आज' का यही 'स्वर्णयुग' कहा जा सकता है। तब यह सर्वोत्तम राष्ट्रीय पत्र रहा। इसका 'रजत-जयन्ती अङ्क' (सम्पादक श्री परमेश्वरीलाल गुप्त) सुन्दर निकला है। सन् १६४४ से इसके सोमवार संस्करण का प्रकाशन शुरू हुआ; वा० मू. २७), प्रति —॥, वर्तमान सम्पादक पराडकरजी; प० ज्ञानमण्डल लि०, काशी।

(६) आर्यावर्त—८ वर्ष से प्रकाशित; बिहार का पुराना राष्ट्रीय पत्र; प्रधान सं० श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार; सं० श्री ब्रजनन्दन आजाद; प० इण्डियन नेशन प्रेस, पटना।

(७) इन्दौर समाचार—३ वर्ष से प्रकाशित; सं० कमलाकान्त मोदी; प्रति ५), प० गांधी रोड, इन्दौर।

(८) उजाक्षा—१० वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री गणपतिचन्द्र केला; यह दिल्ली और आगरा होठों जगह छपता है; दिल्ली से हाल ही में प्रकाशित; वा० मू० ३०), प० उजाला प्रेस, आगरा।

(९) जनता—इसी वर्ष से प्रकाशित; सं० शिखरचन्द्र; राष्ट्रीय पत्र; वा० मू० २४), प्रति —); प० युनाइटेड प्रिन्टर्स एंड पब्लिशर्स, इन्दौर।

(१०) जनशक्ति—इसी वर्ष से प्रकाशित; कम्युनिस्ट दैनिक; सं० गिरिजाकुमार सिन्हा; वा० मू० २५), प्रकाशक—गंगाधरदास, नवाबिहार, पटना।

(११) जन्ममूमि*—जोधपुर।

(१२) जयभूमि—८ वर्ष से प्रकाशित; पहले साप्ताहिक निकलता था; सं० श्री गुलाबचन्द्र काला; वा० मूल्य० १५), प्रति)॥, प० बीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर।

(१३) जयहिन्द*—१६४६ से प्रकाशित; संचार सेठ गोविन्ददास; सं० श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर'; राष्ट्रीय पत्र, प० जबलपुर।

(१४) जागरण*—१६३२ से प्रकाशित; राष्ट्रीय नीति; प० स्वतंत्र जर्नल्स लि०, झांसी।

(१५) जागरण*—कस्तूरबा गांधी रोड, कानपुर।

(१६) जागृत—पिछले वर्ष से प्रकाशित; सं० करतारसिंह नारंग; इसका साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है; वा० मू० २४), प्रति —); प० किशन-पोल बाजार, जयपुर।

(१७) जागृति*—१६४० से प्रकाशित; सं० श्री जगदीशचन्द्र 'हिमकर'; राष्ट्रीय पत्र; प० सलकिया, हबड़ा।

(१८) दरबार—१६२७ से प्रकाशित; पहले यह साप्ताहिक रूप से निकलता था; विगत वर्ष से दैनिक। प० अजमेर।

(१९) दैनिक सदैश*—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री श्रीनारायण-प्रसाद शुल्क; एक प्रति -); प० यशवंत रोड, इन्दौर।

(२०) नई हुनिया—विगत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री कृष्णकान्त व्यास; जनता का राष्ट्रीय दैनिक; प० कड़ावघाट, इन्दौर सिटी।

(२१) नव ज्योति*—१९३६ से प्रकाशित; राष्ट्रीय नीति; सं० सर्वश्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, रामपालसिंह; प० केसरगंज, अजमेर।

(२२) नवजीवन—अक्टूबर १६४७ से प्रकाशित; सं० श्री भगवतीचरण वर्मा; वा० मू० ३४), प्रति -);, राष्ट्रीय पत्र; प० लखनऊ।

(२३) नवप्रभात—अगस्त १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री हरिहरनिवास द्विवेदी तथा विजयगोविन्द द्विवेदी; वा० मू० २४), प्रति -); प० सराफा बाजार, लश्कर (गवालियर)

(२४) नवभारत—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री जंगबहादुर सिंह; राष्ट्रीय पत्र, उत्तरी भारत में लोकप्रिय; रविवार परिशिष्टांक भी निकलता है, जिसमें 'बाल भारत' शीर्षकान्तर्गत बालकों के लिए लेख तथा शेष में सुरुचिप्रद साहित्यिक लेख रहते हैं; वा० मू० २८), प्रति -), प० मोरीगेट, दिल्ली।

(२५) नवभारत*—१६३४ से प्रकाशित; सं० श्री रामगोपाल माहेश्वरी; राष्ट्रीय नीति; प० नागपुर।

(२६) नवराष्ट्र—कई वर्ष से प्रकाशित; राष्ट्रीय पत्र; प्रधान सं० देवब्रत शाळी, सं० श्री सुमंगलप्रकाश; प्रति -); 'मौजीराम की डायरी' शीर्षक से अच्छी चुटकियाँ रहती हैं; प० पटना।

(२७) नवीन भारत*—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री जगतनारायण-लाल एम. एल. ए.; राष्ट्रीय तथा स्थानीय खबरें विशेष रूप से निकलती हैं; वा० मू० २४), प्रति -), प० कदमकुआँ, पटना।

(२८) निराला*—राष्ट्रीय पत्र; सं० श्री विद्याशंकर शर्मा; विजयादशमी २००५ से प्रकाशित; प० निराला प्रेस, आगरा।

(२६) नेताजी*—गत वर्ष से प्रकाशित; अग्रगामी दल की नीति; वा० मू० २५), —॥; प० द्रापिकल बिलिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

(३०) प्रजासेवक—७ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा; पहले यह सामाजिक रूप से ही निकलता था, अब कुछ समय से दैनिक संस्करण भी निकलता है; प० प्रजासेवक प्रेस, जोधपुर ।

(३१) प्रताप*—१६१३ से प्रकाशित; स्व० श्री गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा संस्थापित; सं० श्री हरिशंकर विद्यार्थी तथा श्री युगलकिशोर शास्त्री; मुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस पत्र ने अहुत योग दिया है । श्री विद्यार्थी जी की टिप्पणियाँ इसमें अहुत जोरदार निकलती थीं । प० कानपुर ।

(३२) प्रदीप*—पटना ।

(३३) भारत—१६३३ से प्रकाशित; स्व० सी. वाई. चिंतामणि द्वारा संस्थापित; सं० श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र; प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र; युक्तप्रान्त का प्रमुख दैनिक; वा० मू० ३७), प्रति —॥, प० लीडर प्रेस, प्रयाग ।

(३४) भारतवर्ष—२७ अगस्त १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री रामगोपाल विद्यालंकार; हिन्दू राष्ट्रवादी नीति का एष्ट पोषक; वा० मू० ३५), प्रति —॥। प० दिल्ली द्वारा, दिल्ली ।

(३५) राष्ट्रपताका—विगत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री हेमसिंह; हिन्दू राष्ट्रवादी पत्र; प्रति —), प० मारबाड़ प्रिन्टर्स लिं० जोधपुर ।

(३६) राष्ट्रवाणी*—१६४२ से प्रकाशित; प० पटना ।

(३७) रियासती—दो वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री सुमनेश जोशी; प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र; वा० मू० २८), प० जोधपुर ।

(३८) लोकमान्य*—१६३० से प्रकाशित; सचा० श्री रामशङ्कर त्रिपाठी, सं० मदनलाल चतुर्वेदी; दिन्दुत्व की पुट लिए राष्ट्रीय; प० १६०, हरिसन रोड, कलकत्ता । (३९) १६३२ से अस्वर्द्ध संस्करण भी प्रकाशित होता है । सं० श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति; प्रतिबंध के दिनों में ‘हिन्दुस्थान’ नाम

से प्रकाशित होता था; प० खटाउवाडी, गिरगाँव बम्बई ४.

(४०) लोकवाणी—गत ३ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री सिद्धराज ढड्हा, प्रबन्ध सं० श्री जवाहिरलाल जैन; रियासती भारत का प्रमुख दैनिक; गांधीवाद का प्रबल समर्थक; वा० मू० ३०), प्रति —), प० जयपुर ।

(४१) लोकमत*—१६३० से प्रकाशित; प्रथम सं० श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र; १६३१ में प्रकाशन स्थगित भी हुआ; राष्ट्रीय पत्र; प० नागपुर ।

(४२) लोकसेवक—विगत ६ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० श्री अभिनन्द हरि, सं० श्री देवीचरण साहित्यरत्न; राष्ट्रीय नीति; प्रति —); पहले यह साप्ताहिक था; प० लोकसेवक प्रेस, कोटा ।

(४३) वर्तमान—१६२० से प्रकाशित; संचा० श्री रमाशङ्कर अवस्थी, सं० भगवानदीन त्रिपाठी; स्तर कायम रखे हैं; प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र; वा० मू० २८), प्रति —)॥; प० सिविल लाइन्स, कानपुर ।

(४४) विश्वबंधु—गत ८ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० स्व० श्री गोपाल-प्रसादसिंह; सं० श्री विश्वनाथसिंह शर्मा; राष्ट्रीय पत्र; प० १६८/१ कार्नवा-लिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(४५) विश्वमित्र*—१६१७ से प्रकाशित; आज प्रकाशित होने वाले दैनिकों में ख्यातिप्राप्त प्राचीन; सं० मातासेवक पाठक; राष्ट्रीय नीति; प० ७४ धर्मतळा स्ट्रीट, कलकत्ता । (४६) बम्बई से सन् १६४१ में प्रकाशित; सं० श्री बाबूलाल गुप्ता; प्रति —)॥; बम्बई का प्रमुख हिन्दी पत्र; इसका सांख्य संस्करण 'मातृ भूमि' भी अप्रेल (१६४८) से निकल रहा है । प० नोबल चेम्बर्स, पारसी बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई । (४७) दिल्ली से—सन् १६४२ से प्रकाशित; प्रति —)॥ सं० श्री सत्यदेव विद्यालंकार; श्री बाबूराम मिश्र ने कई वर्षों तक सम्पादन किया; प० कनाट प्लेस, नई दिल्ली । (४८) गत वर्ष से पटना से भी इसका दैनिक संस्करण प्रारम्भ हुआ है; सं० श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल; वा० मू० २८) प्रति —) प० कदमकुआ, पटना । (४९) कुछ मास से कानपुर से भी यह प्रकाशित होने लगा है; प० महात्मा

गांधी रोड़, कानपुर। इन सबके संचालक सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री मूलचन्द्र अप्रेवाल हैं। हिन्दी के लिए यह गौरव की बात है कि एक ही पत्र पाँच स्थानों से प्रकाशित होता है। अपेक्षाकृत उच्च स्तर वांछनीय है।

(५०) वीर अर्जुन—सन् १९२३ में ‘अर्जुन’ स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा संस्थापित; १९३४ में प्रतिबंध (सरकारी) के कारण नाम परिवर्तित किया गया; स्वतन्त्र राष्ट्रीय नीति, आर्य-समाज की ओर मुकाब; अनेक वर्षों तक श्री रामगोपाल विद्यालंकार ने सफलता पूर्वक सम्पादन किया; श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति की मार्मिक टिप्पणियाँ इसमें पढ़ने को मिलती हैं; प० श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

(५१) वीर भारत*—लाठी मोहाल, कानपुर।

(५२) स्वतन्त्र भारत*—पायोनियर प्रेस, लखनऊ।

(५३) सन्मार्ग—२४ जनवरी १९४६ से प्रकाशित; संचारों ‘श्रीकृष्ण संदेश’ लिमिटेड; प्रधान सं० श्री गंगाशङ्कर मिश्र, सं० श्री हरिशंकर द्विवेदी; वा० मू० ३५), प्रति =); इसका रविवार परिशिष्टांक भी प्रकाशित होता है, जिसमें साहित्यिक लेख रहते हैं तथा प्रति सप्ताह ‘सम्पादक की लेखनी से’ किसी सांस्कृतिक समस्या पर विचार प्रकट किये जाते हैं। प० १६० सी, चितरंजन एवन्यु, कलकत्ता। (५४) इसका काशी संस्करण भी—(१९४६ ई०) प्रकाशित होता है; इसका भी रविवार परिशिष्टांक निकलता है; प० सन्मार्ग प्रेस, काशी। (५५) हाल ही में इसका एक संस्करण, कुछ मास से दिल्ली से भी प्रकाशित होने लगा है। हिन्दू राष्ट्रवादी नीति तथ सनातनधर्म का समर्थक; तीन स्थानों से पत्र का प्रकाशन अभिनन्दनीय है।

(५६) सैनिक—११ वर्ष से प्रकाशित; संस्थारों तथा प्रथम सं० श्री श्रीकृष्णदत्त पालीबाल; प्रतिबंध के दिनों में ‘अमर सैनिक’ के नाम से निकला था; १९४२ के आनंदोलन में बहुत योग दिया है। श्री जीवाराम पालीबाल पिछले कई वर्षों से इसका सम्पादन कर रहे हैं; आज भी श्रीकृष्णदत्तजी पालीबाल की मार्मिक टिप्पणियाँ इसमें पढ़ने को मिलती हैं।

वा० मू० ३७) प्रति -J॥; प० सैनिक प्रेस, किनारी बाजार आगरा ।

(४७) संदेश—८ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री कालीचरण पाण्डेय; राष्ट्रीय नीति; वा० मू० १६); प्रति -J; प० संदेश प्रेस, आगरा ।

(४८) संसार—१६४३ में श्री पराङ्करजी द्वारा संस्थापित; अब पिछले कई वर्षों से सम्पादक श्री कमलापति त्रिपाठी एम. एल. ए. हैं; सह० सं० श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय; इसका रविवार परिशिष्टाङ्क भी साहित्यिक सामग्री से परिपूर्ण, सुन्दर निकलता है। युक्तप्रान्त का प्रमुख दैनिक; कांग्रेसी नीति का समर्थक; प० गायघाट, बनारस ।

(४९) हिन्दुस्तान—१६३३ से प्रकाशित; प्रारम्भ में कई वर्ष तक श्री सत्यदेव विद्यालंकार सम्पादक रहे। कई वर्षों तक स्थानानपन्न सम्पादक रहकर पिछले ४ वर्ष से श्री मुकुटबिहारी वर्मा ही अब सम्पादक है। उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय पत्र; भारत के हिन्दी दैनिकों में इसका विशिष्ट स्थान है; रविवार परिशिष्टांक भी सुसम्पादित निकलता है; वा० मू० ४०), प्रति -J॥; प० कनाट सरकस, नई दिल्ली ।

(५०) हिन्दुस्तान*—कलकत्ता ।

(५१) हिन्दी मिलाप*—१६२८ से प्रकाशित; संस्था० तथा प्रारम्भ में भं० श्री खुशहालचन्द आनन्द; १८ वर्ष तक लाहौर से प्रकाशित होता रहा, पंजाब विभाजन के बाद अब दिल्ली से निकलता है; राष्ट्रीय पत्र, आर्यसमाज की ओर झुकाव; सं० श्री 'यश'। प. कनाट सरकस, नई दिल्ली ।

४. धार्मिक एवं दार्शनिक

(क) आर्यसमाजी : मासिक

दयानन्द सन्देश—प्रथम प्रकाशन अगस्त १६३८ से प्रारम्भ । अगस्त १६४२ में प्रकाशन स्थागित होकर पुनः दिसम्बर १६४७ में आरम्भ हुआ ; सं० सर्व श्री आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री, देवबन्धु शर्मा; सह० सं. सत्यकाम सिद्धान्त शास्त्री ; लेखादि अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति ॥=); प० ईपोसराय, नई दिल्ली ।

(२) वैदिकधर्म—२६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री दामोदर सातवलेकर; भारतीय संस्कृति से संबंधित व वेद विषयक लेखों का बाहुल्य रहता है ; वा० मू० ५), प्रति ॥); प० स्वाध्यायमण्डल, औंध (जिला सातारा) ।

(३) सविता—वेद-संस्थान, अजमेर का मुख्यपत्र; संस्था० श्री विद्यानन्द 'विदेह', सं० श्री विश्वदेव शर्मा । प्रथम अङ्क माघ पूर्णिमा २००४ वि० को प्रकाशित ; वैदिक धर्म का प्रचारक, कलेवर जीण ; वा० मू० ३), प० अजमेर ।

(४) सार्वदेशिक*—१६२७ से प्रकाशित ; सार्वदेशिक आर्य प्रति-निधि सभा (दिल्ली) का मुख्यपत्र ; सं० श्री धर्मदेव सिद्धान्तालंकार; सभा की सूचनाओं के अतिरिक्त सामाजिक लेख भी (विशेष रूप से आर्यसमाज के सिद्धांतों के प्रतिपादक) रहते हैं ; वा० मू० ५), प० श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली ।

सामाजिक

(५) आर्यजगत—गत ६ वर्ष से प्रकाशित ; श्रवैतनिक सं० प्रो० राम-चन्द्र शर्मा ; आर्य प्रादेशिक सभा, पंजाब, सिंध, बिलोचिस्तान (जालंधर

नगर) का मुख्य-पत्र ; वा० मू० ६), प्रति ≡); प० आर्यसमाज, किला, जालंधर (पूर्वी पंजाब) ।

(६) आर्यभानु—२ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री विनायकराव विद्यालंकार, सह० सं० कृष्णदत्त ; आर्य प्रतिनिधि सभा (हैदराबाद स्टेट) का मुख्य-पत्र ; वा० मू० ६), प्रति ≡); प० हैदराबाद (दक्षिण)

(७) आर्यमार्तरड*—१६२३ से प्रकाशित ; राजस्थान का सबसे पुराना पत्र ; श्री चाँदकरण शारदा के सम्पादकत्व में पहले खूब चमका था ; अब कलेवर भी क्षीण तथा आर्यसमाजों के उत्सवों आदि की विज्ञप्तियाँ ही छपती हैं ; प० वैदिक यन्त्रालय, अजमेर ।

(८) आर्यभित्र—५० वर्ष से प्रकाशित ; पहले आगरा से प्रकाशित होता था, भगवानदीन आर्य भास्कर प्रेस के लखनऊ चले जाने पर अब किन्तने ही वर्षों से वहीं से निकल रहा है ; अवैतनिक सं० श्री धर्मपाल विद्यालंकार । युक्तप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख्य-पत्र ; आर्यसमाज के पत्रों में सर्वाधिक प्रचलित । अनेक विद्वान् सम्पादक रहे ; श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी तथा स्व० रुद्रदत्तजी शर्मा के सम्पादकत्व में काफी उन्नति की ; श्री हरिशंकर शर्मा के संपादन काल में विविध विषयक साहित्यिक सामग्री भी जुटाता था, टिप्पणियाँ भी जोरदार रहती थीं । वा० मू० ५), प्रति ≡), प० ५, हिल्टन रोड, लखनऊ ।

(९) अर्थावर्त—१६ मार्च १६४५ से प्रकाशित ; सं० श्री शिवराज सिंह, सह० सं० श्री लक्ष्मीनारायण । साधारण लेख रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति ≡), प० दयानन्द वैदिक मिशन, १०, जेल रोड, हन्दौर ।

(ख) सनातनधर्मी : मासिक

(१) प्रेमसंदेश—७ वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० श्री गोस्वामी विन्दुजी सं० नाथूरामजी अग्निहोत्री 'नन्द' ; प्रेम महामण्डल (वृन्दावन) का मुख्यपत्र ; मुख्यतः रामायण का प्रचारक तथा अपने नाम को सार्थक बनाने वाला ; वा० मू० २।—), प्रति ।), प० प्रेमधाम, वृन्दावन ।

(२) सन्मार्ग—कार्तिक शुक्र १५ सं० १६६६ वि० से प्रकाशित; संस्था० श्री मूलचन्द चोपड़ा ; सं० सर्व श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी, गोविन्द नरहरि बैजोपुरकर; प्रारम्भ में श्री विजयानन्द त्रिपाठी सम्पादक रहे; वेदादि शास्त्रानुसार भक्ति ज्ञानादि का विवेचन तथा निःश्रेयस एवं ऐहिक अभ्युदय का मार्ग प्रदर्शन करना ही मुख्य ध्येय है ; वा० मू० ५), प्रति ॥), प० टाउन हाल, काशी ।

सामाहिक

(३) श्रीवेंकटेश्वर समाचार—५३ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० श्री खेमराज श्रीकृष्णदास; प्रथम महायुद्ध के समय इसका दैनिक संस्करण भी निकला था; आज प्रकाशित सब से पुराना हिन्दी सामाहिक; सर्व श्री अमृतलाल चतुर्वेदी, सम्पादकाचार्य रुद्रदत्त शर्मा, हरिकृष्ण जौहर, राजबहादुरसिंह आदि भूतपूर्व सम्पादक रह चुके हैं ; आज-कल साधारण रूप में प्रकाशित; सं० श्री देवेन्द्र शर्मा; वा० मू० ५), प्रति ॥), प० खेतवाड़ी मेन रोड, ७ वीं गली, बम्बई ४.

(४) सन्मार्ग—२६ मई १६४७ से प्रकाशित; प्रधान सं० श्री गंगाशंकर मिश्र, सं० सर्वश्री कमलाप्रसाद अवस्थी, शिवप्रसाद मिश्र; धर्मसंघ की सूचनाएं तथा हिन्दू संगठन पर जोर देता है, कभी-कभी राजनैतिक लेख भी रहते हैं; वा० मू० ६), प्रति ॥), प० सन्मार्ग प्रेस, काशी ।

(५) सिद्धांत—१६ अप्रैल १६४० से प्रकाशित; सं० श्री गदाधर ब्रह्मचारी; सं० श्री गंगाशंकर मिश्र, सह० सं० श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी; सनातनधर्मी सिद्धान्तों पर शास्त्रीय लेख रहते हैं; विशेष रूप से श्री करपात्री जी के लेख ही छपते हैं ; वा० मू० ४); प० सिद्धान्त कार्यालय, काशी ।

(ग) जैनधर्म : मासिक

(१) अनेकांत—१६३८ से प्रकाशित; सं० श्री जुगलकिशोर मुख्तार; सुदाचार विषयक तथा खोजपूर्ण लेख रहते हैं; वा० मू० ४), प्रति ॥), प० खेल मन्दिर, सरसाबा (सहारनपुर)

(२) आत्मधर्म—३ वर्ष से प्रकाशित; सं० रामजी माणेकचंद दोशी; आध्यात्मिक लेख अच्छे रहते हैं; प्राहक संख्या ३०००; वा० मू० ३), प्रति ।—), पृष्ठ १३; प० अनेकान्त मुद्रणालय, मोटा आँकड़िया (काठियावाड़)

(३) जिनवाणी*—५ वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्वश्री फूलचन्द जैन 'सारंग', केशरीकिशोर 'केशव'; वा० मू० ४), प्रति ।—), प० जैन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़ ।

(४) जैनजगत—अप्रैल १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री हीरासाव चवडे, सह० सं० जमनालाल जैन साहित्यरत्न ; श्री दरबारीलाल 'सत्यभक्त' भूतपूर्व सम्पादक रह चुके हैं; वा० मू० २), छात्रों से १); प० भारत जैन महामण्डल वर्धा (सी० पी०)

(५) जैनप्रचारक*—४१ वर्ष से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्री राजेन्द्र-कुमार जैन, सं० चिन्तामणि जैन; भारतवर्षीय जैन अनाथरत्नक सोसाइटी (दिल्ली) का मुख पत्र । वा० मू० ३), प्रति ।), प० दिल्ली ।

(६) जैनप्रभात—अमस्त १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री पन्नालाल साहित्याचार्य, सह० सं० श्री मुन्नालाल समगौरेया; निर्बंध व कहानियाँ पुरस्कृत करता है; श्री गणेश दिगम्बर जैन संस्कृत विद्यालय, सागर का मुख-पत्र; वा० मू० ३), प्रति ।), प० सागर (सी० पी०)

(७) तरुणजैन—४ वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री भँवरमल सिंघी, चंदनमल भूतोड़िया; साहित्यिक सामग्री भी रहती है; वा० मू० ५), प्रति ।), प० नवयुवक प्रेस, ३, कामर्सियल बिलिंगस, कलकत्ता ।

(८) दिगम्बर जैन—४१ वर्ष से प्रकाशित; कुछ अंश गुजराती में भी छपता है; वा० मू० २।।); सं० तथा प्रकाशक श्री मूलचन्द किशनदास कापड़िया, चंदावाड़ी, सूरत ।

(९) सनातन जैन—२१ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० ब्र० शीतलप्रसाद; अ० भा० सनातन जैन समाज का मुख-पत्र ; सं० श्री मनोहरनाथ जैन, सह० प्रसन्नकुमार जैन 'लाड'; वा० मू० २), प० बुलन्दशहर (यू० पी०)

पात्रिक

(१०) ओसवाल—१४ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री मूलचन्द बोहरा
अ० भा० ओसवाल महासम्मेलन का मुख्य-पत्र; वा० मू० ४॥), प्रति ३),
प० रोशनमोहल्ला, आगरा ।

(११) खण्डेलवाल जैन हितेच्छु—२८ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री नाथूलाल
जैन शास्त्री, सह० सं० भेंवरलाल जैन; वा० मू० २), ४० रंगमहल, इन्दौर ।

(१२) खण्डेलवाल जैन हितेच्छु—२८ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री नेमि-
चन्द बाकलीबाल, वा० मू० २), प० मदनगंज (किशनगढ़) ।

(१३) जैनबोधक*—इस पर छपने वाले आँकड़े से ज्ञात होता है कि
६४ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री वर्द्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री; स्वर्गीय रावजी
सखारामजी दोशी स्मारक संघ का प्रमुख पत्र; प० शोलापुर ।

(१४) महावीर सन्देश—इसी वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री केशरलाल
जैन अजमेरा, सह० सं० श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री; दिग्म्बर जैन अतिशय केत्र
महावीरजी, जयपुर का मुख्य-पत्र; वा० मू० ३), प्रति ३) प० जयपुर ।

(१५) वीरवाणी—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्व श्री चैनसुखदास
न्यायतीर्थ, भवरलाल न्यायतीर्थ; वा० मू० ३), प्रति १), प० वीरप्रेस,
मणिहारों का रास्ता, जयपुर ।

(१६) श्वेताम्बर जैन—कई वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री जवाहरलाल
लोढ़ा; वा० मू० ४) नमूना मुफ्त, प० मोतीकटरा, आगरा ।

साप्ताहिक

(१७) जैनगजट—भा० व० दिग्म्बर जैन महासभा (देहली) का मुख्य-
पत्र; इस पर छपे आँकड़े से पता चलता है कि ५३ वर्ष से प्रकाशित; सं०
श्री वंशीधर शास्त्री; वा० मू० ३॥), प्रति २), प० नई सड़क, दिल्ली ।

(१८) जैनमित्र—४६ वर्ष से प्रकाशित; दिग्म्बर जैन प्रान्तिक सभा,
भम्बई का मुख्य-पत्र; वा० भू० ५), प्रति २), सं० तथा प्रकाशक—श्री मूल-
चन्द किशनदास कापड़िया, सूरत ।

(१९) जैनसंदेश—११ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री बलभद्र जैन; साहित्यिक लेख भी रहते हैं; प्रति ब्रह्मस्पतिवार को प्रकाशित; वा० मू० ५), प्रति—), नमूना मुफ्त; प्रा० मोतीकटरा, आगरा।

(२०) ध्वज—११ वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्व श्री राजमल लोढ़ा, मदनकुमार चौबे; जैन समाचारों के अतिरिक्त स्थानीय समाचार भी रहते हैं; वा० मू० ५), प्रति—); प० ध्वज कार्यालय, मन्दसौर (गवालियर स्टेट)

(२१) वीर—१६२४ में पात्रिक रूप में ब्र० शीतलप्रसादजी के सम्पादकत्व में बिजनौर से प्रकाशित हुआ। कई वर्षों से दिल्ली से निकल रहा है; सं० श्री कामताप्रसाद जैन एम. आर. ए. एस.; सह० स० श्री बाबूलाल जैन ‘फागुल्ल’, अ० भा० दिगम्बर जैन परिषद् (देहली) का मुख-पत्र, जैन संगठन व दार्शनिक विषय पर भी अच्छे लेख रहते हैं। वा० मू० ४), प्रति—)॥, प० मोरीगेट, दिल्ली।

(२२) वीरभारत*—१० वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री रूपकिशोर जैन ‘प्रेमी’; भारतीय दिगम्बर जैन महासभा का मुख-पत्र; वा० मू० ४), प्रति—), प० आगरा।

(२३) सुदर्शन*—२१ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री खेतीलाल अग्निहोत्री; अवैतनिक सं० श्री प्यारेलाल सारस्वत; वा० मू० ४), प्रति—)॥, प० सुदर्शन प्रेस, एटा (यू० पी०)

(घ) बौद्धधर्म : मासिक

धर्मदूत—१२ वर्ष से प्रकाशित; महाबोधि सभा सारनाथ का मुख-पत्र; बौद्धधर्म का हिन्दी में प्रकाशित एक मात्र पत्र; कुछ अंश पाली भाषा (नागरी लिपि) में भी छपता है। ‘धर्मयाल अनागरिक’ विशेषाङ्क सुन्दर निकला था; बुद्ध जयन्ती पर भी प्रति वर्ष साधारण विशेषाङ्क प्रकाशित होता है; सं० भिक्षु धर्मरत्न; वा० मू० १), विदेशों में १॥), प० सारनाथ (बनारस)

(ङ) ईसाई : मासिक

भानूदय—२२ वर्ष से प्रकाशित; सं० पादक पी० श्री० सुखनन्दन (मिशन

प्रस्पताल, मँगोली, सी०पी०) सह० सं० जोनाथन राय (सहरसा, भागलपुर) अधिकांश धार्मिक लेख ही रहते हैं, कहानियाँ भी छपती हैं; प्रचार ही मुख्य उद्देश्य है। ७८० प्रतियाँ छपती हैं; यह अंप्रेजी, गुजराती, मराठी भाषाओं में भी निकलता है। वा० मू० १), प० मिशन प्रेस, जबलपुर (सी० पी०)

(च) आध्यात्मिक : त्रैमासिक

(१) अदिति—कई वर्ष से प्रकाशित; योगिराज अरविन्द की विशाल आध्यात्मिक जीवन हाइ की प्रेरक पत्रिका; सं० सर्व श्री डा० इन्द्रसेन, हराधन बर्हरी; योग व दर्शन संबंधी स्वस्थ मानसिक भोजन प्रस्तुत करती है। वा० मू० ५), प्रति १॥), पृष्ठ ६४; श्री अरविन्द आश्रम, पाइडचेरी का मुख्यन्त्र ; प० पोस्ट बॉक्स ८५, नई दिल्ली तथा पाइडचेरी।

मासिक

(२) अखण्ड ज्योति—१६३६ में आगरा से प्रकाशित; एक वर्ष बाबू कार्यालय मथुरा आ गया; संस्था० व सं० श्री श्रीराम शर्मा आचार्य, सह० सं० श्री रामचरण महेन्द्र; सदाचार विषयक काफी सामग्री रहती है, संकलित लेख ज्यादा रहते हैं; वा० मू० २॥), प्रति ॥, पृष्ठ ३५; प०, अखण्ड ज्योति प्रेस, मथुरा।

(३) कल्पवृक्ष—२६ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री डा० दुर्गाशंकर नागर; आध्यात्मिक मण्डल, उज्जैन के वार्षिक समारम्भ का विवरण भी इसी में निकलता है; लेखों का चयन प्रति मास सुन्दर रहता है। 'संकल्प की भावना' स्थायी स्तम्भ है, जिसमें प्रत्येक अङ्क में नवीन विचार रहता है; वा० मू० २॥), प्रति ॥, प० कल्पवृक्ष कार्यालय, उज्जैन।

(४) गीताधर्म—कई वर्ष से प्रकाशित; संस्था० स्वामी विद्यानन्दजी; गीता के निष्काम कर्म व सदाचार विषयक लेख रहते हैं। इसका गुजराती संस्करण भी प्रकाशित होता है। वा० मू० ४), प० गीताधर्म कार्यालय, बनारस।

(५) मानस-मणि—१६४१ से श्री अंजनीनन्दन शरण के सम्पादकत्व में ५ वर्ष तक अयोध्या से प्रकाशित होता रहा ; अब सतना से निकलता है। सं० श्री सुदर्शनसिंह ‘चक्र’ ; गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रचार तथा मानस पर प्रकाश डालना ही मुख्य उद्देश्य है ; इसका वर्ष जनवरी से प्रारम्भ होता है ; वा० मू० ३), प्रति ।), प० मानस संघ, रामबन, सतना (सी. पी.)

(६) योगेन्द्र*—अ० भा० योगी महामंडल का मुख्य-पत्र ; योग विषय का ज्ञान कराने वाला, आसन एवं प्राणायाम सम्बन्धी सबसे सस्ता, सचित्र पत्र ; वा० मू० १।), प्रति ॥२॥, प० योगेन्द्र कार्यालय, प्रयाग।

(७) संजय—सन् १६३३ में सामाहिक रूप में हरिजन आंदोलन का उद्देश्य लेकर प्रकाशित हुआ। द्वितीय वर्ष में समाज-सेवा का उद्देश्य लेकर मासिक रूप में प्रकाशित। १६३६ के अंत तक सचित्र मासिक निकलता रहा। अब जुलाई १६४८ से पुनः सचित्र रूप में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ; संस्था० तथा सं० श्री भद्रसेन गुप्त ; लेख अच्छे रहते हैं। ‘कृष्णाङ्क’ ‘महाभारताङ्क’, ‘भारतरत्नाङ्क’ आदि विशेषाङ्क भी प्रकाशित हुए हैं, जनवरी १६४६ में ‘कलियुग’ अङ्क प्रकाशित हो रहा है। ‘महाभारताङ्क’ अति लोक-प्रिय सिद्ध हुआ। वा० मू० ५), प्रति ॥२॥, पृष्ठ ४०; प० २४, क्लाइव स्कायर, नई दिल्ली।

(छ) पौराणिक : मासिक

कल्याण—अगस्त सन् १६२६ (श्रावण कृष्णा एकादशी सम्बत् १६८३) से सत्संग भवन, अन्धई द्वारा एक वर्ष तक प्रकाशित। उसके बाद निरंतर गोरखपुर से निकल रहा है। प्रथम विशेषाङ्क ‘भगवन्नामाङ्क’ था और अब तक इसके भक्ताङ्क, गीताङ्क, रामायणाङ्क, कृष्णाङ्क, ईश्वराङ्क, शिवाङ्क, शक्ति अङ्क, योगांक, वेदान्ताङ्क, सन्ताङ्क, मानसाङ्क, गीता तत्वाङ्क, साधनाङ्क, श्रीमद्भागवताङ्क, संक्षिप्त महाभारताङ्क, संक्षिप्त बालमीकीय रामायणाङ्क, संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क, गौत्रांक, संक्षिप्त मारकरण्डेय ब्रह्मपुराणाङ्क

और नारी अङ्क निकले हैं। अगले वर्ष (१९४६) उपनिषदांक प्रकाशित होगा। इसका प्रत्येक विशेषांक साहित्य की अनमोल निधि है; प्रायः सभी अंप्राप्य हैं। आद्य एवं वर्तमान सं० श्री हनुमानप्रसाद पौदार, सह० सं० सर्वश्री चिम्बनलाल गोस्वामी, पाण्डे रामनारायणदत्त, गौरीशंकर द्विवेदी, माधवशरण, शिवनाथ दुबे, रामलाल एवं कृष्णचन्द्र अग्रवाल; इस समय इसकी ग्राहक संख्या १ लाख से ऊपर है; वा० मू० ६३] में ही विशेषांक तथा शेष ११ अंक मिलते हैं। साधारण अंकों में भी ठोस सामग्री रहती है। प० गीताप्रेस, गोरखपुर।

(ज) सांस्कृतिक : त्रैमासिक

(१) भारतीय संस्कृति*—गत वर्ष से प्रकाशित; भारतीय संस्कृति के सब अंगों (साहित्य, इतिहास, दर्शनशास्त्र, कला, शिक्षा, समाज-व्यवस्था) का अध्ययन, प्रचार तथा उन्नति करना ही उद्देश्य है; सबसे सस्ती त्रैमासिक पत्रिका; अन्य भाषाओं से अनूदित लेख भी प्रकाशित होते हैं। अवैतनिक सं० श्री प्रभाकर माचवे ; वा० मू० ३), प० संस्कृति सदन, रतलाम।

मासिक

(२) कर्मयोग—वसन्त पञ्चमी २००३ से साप्ताहिक रूप में श्री हरिशंकर शर्मा कविरत्न के सम्पादकत्व में निकला; चार अंकों के बाद पात्रिका रूप में प्रकाशित। आज-कल मासिक रूप में श्री धर्मदेव शास्त्री दर्शनकेसरी के सम्पादन में प्रकाशित हो रहा है। लेखादि का चयन प्रारम्भ से ही मुन्दर; सं० कार्यालय-अशोक आश्रम, कालसी (देहरादून), वा० मू० ४) प० गीता-मन्दिर प्रेस, सिकन्दरा, आगरा।

(३) भारतीय—१५ अगस्त १९४७ से प्रकाशित; संचार० श्री जगन्नाथ-प्रसाद मालवीय, सं० श्री रामेश्वर भट्ट; भारतीय जीवन-दर्शन और विचार-धारा से परिपूर्ण स्वस्थ सामग्री देता है; वा० मू० ६॥८], प्रति ॥८] प०, ५०, खुशहालपर्वत, इलाहाबाद।

(४) भारतीय विद्या पत्रिका*—श्रावण १६६८ से प्रकाशित। भारतीय विद्याभवन का मुख्य-पत्र ; सं० सर्व श्रीकन्हैयालाल मुन्ही, सीताराम चतुर्वेदी। विद्याभवन के समाचारों के अतिरिक्त अध्ययनपूर्ण लेख रहते हैं; प० सम्बद्ध ७.

(५) मानवधर्म—अगस्त १६४१ से प्रकाशित ; सं० श्री दीनानाथ भार्गव 'दिनेश', सह० सं० श्री तिलकधर शर्मा ; प्रत्येक नूतन वर्ष के प्रारम्भ में विशेषाङ्क प्रकाशित होता है, अब तक धर्माङ्क, युद्धांक, नियंत्रण अङ्क, श्रीकृष्णाङ्क, मातृभूमि अङ्क तथा गांधीअङ्क प्रकाशित हुए हैं ; साधारण अङ्कों में भी लेख, कवितादि का संकलन सुन्दर रहता है ; छपाई, गेटअप भी सुन्दर। वा० मू० ४), प्रति ।=], प० पीपल महादेव, दिल्ली।

(६) सात्त्विक जीवन—१६४० से प्रकाशित ; संचारो काशीराम बनारसीलाल ; प्रारम्भ में श्री गुप्तनाथसिंह इसके संपादक रहे। सं० श्री मनोहर मालवीय ; कलेवर तीण है पर नामानुकूल सामग्री देता है ; वा० मू० ३), प्रति ।), प० ८३, पुराना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता।

(भ) साम्प्रदायिक : मासिक

(१) कबीर संदेश—महात्मा कबीर के हिन्दू मुसलिम एकता के सिद्धांत का अनुमोदक ; सं० श्री उदयशंकर शास्त्री ; प० कबीर संदेश कार्यालय, स्थान हरक, प०० सतरिख (जिला बाराबंकी) गू. पी.

(२) दादू सेवक*—महात्मा दादूदयाल के 'दादू पंथ' से सम्बन्धित लेखादि छपते हैं : प० दादूसेवक प्रेस, पीतलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर।

(३) महाशक्ति—दिसम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री वासुदेव मेहरोत्रा, शिवनारायण उपाध्याय, बलदेवराज शर्मा 'उपवन' ; इसमें सामाजिक व साहित्यिक लेखों का भी समावेश रहता है ; वा० मू० ४), प्रति ।=], प० ५/५३, त्रिपुरा भैरवी, काशी।

(४) स्वसंबोद्ध—१३ वर्ष से प्रकाशित ; संचा० महन्त बालकदासजी ; सं० सर्वश्री मोतीदास, चेतनदास ; कबीर पंथ का प्रचार, प्रसार ही मुख्य क्षेय है, इसका गुजराती संस्करण भी निकलता है ; वा० मू० ३), प० सीयाबाग, बड़ौदा ।

(५) संगम—१६४२ से प्रकाशित ; संस्था० श्री सत्यभक्त, सं० सर्वश्री स्वामी कृष्णानन्द सोख्ता, सूरजचन्द्र सत्यप्रेमी ; यह सत्यभक्त जी द्वारा निर्मित ‘सत्यसमाज’ के सिद्धान्तों का प्रचारक है ; वा० मू० ३), प्रति ॥), प० सत्याश्रम, वर्धा ।

(६) संतवाणी—फाल्गुन शुक्ला अष्टमी २००५ से प्रकाशित ; संस्था० स्वामी मंगलदास जी, सं० श्री केशवदास स्वामी ; दादू पंथ से सम्बन्धित लेख ही रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति ॥), प० मंगलप्रेस, जयपुर ।

(ज) विविध : मासिक

(सत्य, ज्ञान, भक्ति, हित)

(१) मानवता—मई १६४८ से प्रकाशित ; संचा० श्री किशनलाल गोयनका, सं० श्रीमती राधादेवी गोयनका तथा श्री शंकरसहाय वर्मा ; पृष्ठ १००, लेखों का चयन बहुत सुन्दर रहता है ; मानवता का संदेशवाहक, नाम को सार्थक बनाता है ; छपाई भी आकर्षक ; वा० मू० १२), प्रति १॥) ; प० आकोला (बरार)

(२) सत्युग—८ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री सत्यभक्त ; सत्य, न्याय और ऐक्य के आधार पर संसार के नए संगठन का पत्र ; साधारणतः लेख अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति ॥—), प० सत्युग प्रेस, इलाहाबाद ।

(३) सर्वहितकारी—मई १६४७ से प्रकाशित ; संस्था० महात्मा शाहनशाही, सं० सचिच्चदानन्द द्विजहंस ; शाहनशाही संघ का मुख्य-पत्र ; वा० मू० ५), प्रति ॥), प० रायबरेली (यू०पी०)

(४) साधु—मई १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री श्रीदत्त शर्मा ; बाबा

काली कमलेशाला चैत्र, ऋषिकेश का मुख-पत्र ; वा० मू० ४), प्रति ।=), प० साधु कार्यालय, १२ टोंटी, सदर बाजार, दिल्ली ।

(५) संकीर्तन—यह पत्र लगातार नो वर्षों तक मरठ स निकला था । प्रारम्भ में सम्पादक श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी (भूंसी) रहे व ५ वर्ष तक श्री सुदर्शनसिंह 'चक्र' के सम्पादन में निकला और १६३६ में बंद होगया ; अब रामनवमी चैत्र, २००५ वि० से प्रकाशित । पत्र पर प्रथम वर्ष अंकित है । वर्तमान सं० श्री सुदर्शनसिंह 'चक्र' ; वा० मू० ५), प्रति ।), प० मानस संघ, प० रामवन, सतना (सी० पी०)

साप्ताहिक

(६) विश्वहितैषी—२१ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री खुशी-राम शर्मा वाशिष्ठ ; अ० भा० व्यापक धर्म सभा का मुख-पत्र ; सर्व धर्म समन्वय ही उद्देश्य है ; पृष्ठ संख्या कम रहती है ; प्रकाशक—श्रीनिवास वाशिष्ठ, १०२४, रोशनपुरा, दिल्ली ।

(७) ज्ञानशक्ति—३५ वर्ष से प्रकाशित ; सर्व शिरोमणि मुनि समाज (गोरखपुर) का मुख-पत्र ; सं० सर्वश्री योगेश्वर, शिवकुमार शास्त्री ; प्रकाशन अनियमित, साधारण सामग्री रहती है ; वा० मू० ३), प्रति ।=), प० ज्ञानशक्ति प्रेस, गोरखपुर ।

५. ऐतिहासिक एवं शोध-पत्रिकाएँ

(क) ऐतिहासिक : मासिक

इतिहास—१५ अगस्त १९४८ से प्रकाशित ; इसमें ऐतिहासिक घडयंत्रकारियों का परिचय देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है ; स्वतंत्रता संग्राम के खिलाड़ियों के ऐसे परिचय की बड़ी आवश्यकता भी है ; वा० मू० ४), प्रति —॥ ; सं० तथा प्रकाशक : श्री विशनस्वरूप कोलमर्नेंट, कटरा बड़ियान, दिल्ली ।

(ख) साहित्य : पाएमासिक

(१) जैनसिद्धान्त भास्कर—१९२३ से त्रैमासिक रूप में प्रकाशित; अब वर्ष में दो बार निकलती है। अवैतनिक सं० सर्वश्री ए. एन. उपाध्ये, गो० खुशाल जैन, कामताप्रसाद जैन, नेमिचन्द्र जैन शास्त्री ; प्राचीन शोध और पुरातत्व सम्बन्धी पत्रिका ; योग्य विद्वानों के अन्वेषणपूर्ण लेख रहते हैं। कुछ अंश अंग्रेजी में भी छपता है। वा० मू० ३), प्रति १ii), पृष्ठ ११२, प० जैन सिद्धान्त भवन, आरा (बिहार)

त्रैमासिक

(२) नागरी प्रचारिणी पत्रिका—जून १९६६ (सम्वत् १९५३) से प्रकाशित ; २४ वर्षों तक मासिक रूप में निकलती रही ; ‘सरस्वती’ की प्रति-द्वन्द्वी पत्रिका रही। २५ वें वर्ष (सं १९७७) में इसने त्रैमासिक रूप धारण किया; प्रारम्भ में सर्वश्री गौरीशंकर हीराचन्द्र ओमा, मुंशी देवीप्रसाद, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, श्यामसुन्दरदास सम्पादक रहे। श्री ओमाजी ने १३ वर्षों (सन् १९२०-३३) तक बड़ी लगन से सम्पादन किया ; डा. वासुदेवशरण अभ्याल

के सम्पादकत्व में 'विक्रमाङ्क' प्रकाशित हुआ ; सर्वश्री रामचन्द्र शुक्ल, केशव-प्रसाद मिश्र, भी सम्पादक रह चुके हैं। अब सं० श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, सह० सं० श्री शिवनाथ ; पत्रिका का प्रसार भारत के अतिरिक्त इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस, अफ्रीका, पौलैण्ड, होलेण्ड, अरब, मोरिशस, फिजी और बर्मा में भी है। (वा० मू० १०), नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्यों से ३), प० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

(३) भारतीय विद्या*—कई वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्वश्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्दी, सीताराम चतुर्वेदी ; भारतीय संस्कृति सम्बन्धी शोध-पूर्ण लेख ही रहते हैं। इसमें कुछ अंश गुजराती में भी छपता है। प० भारतीय विद्या भवन, हार्वेरोड, चौपटी, अम्बई ७.

(४) विकास—श्रावणी पूर्णिमा २००५ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री डा. फतहसिंह, हारवल्लभ, 'अचल' शर्मा ; शोध सम्बन्धी लेखों के साथ-साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक लंख विशेषतः रहते हैं। गेट अप, छपाई, सफाई भी आकर्षक, भविष्य उज्ज्वल है ; (वा० मू० ५), प्रति १॥), पृष्ठ ६६ ; प० श्री भारतीय संस्कृति संसद, कोटा।

(५) विश्वभारती पत्रिका—१६४२ (पौष सं० १६४८) से प्रकाशित ; प्रारम्भ से ही सं० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ; रवीन्द्र साहित्य का नियमित प्रकाशन तथा देशी और विदेशी पुस्तकों की प्रामाणिक आलोचना इसकी अपनी विशेषता है ; (वा० मू० ६), प्रति १॥), प० हिन्दी भवन, शांतिनिकेतन (जिला बोलपुर) बंगाल।

(६) शोधपत्रिका—मार्च १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री पुरुषोत्तम मेनारिका तथा सम्पादकमण्डल में, सर्वं श्री नरोत्तमदास स्वामी, डा० रघुवीर-सिंह, मोतीलाल मेनारिया, भगवतशरण उपाध्याय, कन्हैयालाल सहल तथा देवीलाल सामर हैं; मुख्यतः प्राचीन राजस्थानी साहित्य, इतिहास, पुरातत्त्व, कला, भाषा, शास्त्र आदि के शोधपूर्ण निबन्ध रहते हैं। समीक्षा भी रहती

है ; वा० मू० ६), प्रति १॥), प० प्राचीन साहित्य शोध संस्थान, विद्यापीठ, उदयपुर ।

(७) सम्मेलन पत्रिका—हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्थापना काल से ही, ३५ वर्षों से, प्रकाशित ; सम्मेलन का साहित्य-मन्त्री इसका सम्पादक होता है ; डा० धीरेन्द्र वर्मा बहुत वर्षों तक सम्पादक रहे । सं. श्री ज्योति-प्रसाद मिश्र 'निर्मल' ; भाषा सम्बन्धी, साहित्यिक खोजपूर्ण निबन्ध अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ३), प्रति १), प० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।

(८) हिन्दुस्तानी—१७ वर्ष से प्रकाशित ; कई वर्षों से सं० श्री रामचन्द्र टण्डन ; पहले डा० धीरेन्द्र वर्मा भी इसके सम्पादक रहे ; हिन्दुस्तानी एकेडमी (अब हिन्दी एकेडमी) संयुक्तप्रान्त, की मुख-पत्रिका ; राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली से सम्बन्धित खोजपूर्ण लेख रहते हैं ; हिन्दी, अंग्रेजी, उदूर्पुस्तकों की समीक्षा भी रहती है ; वा० मू० ४), प० इलाहाबाद ।

६. साहित्यिक एवं शैक्षणिक

(क) प्रगतिवादीः द्वैमासिक

(१) कामना—अप्रैल १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री विजय मिश्र, सह० सं० श्री अमर निर्मल ; कहानी सं० श्री राजेन्द्र सक्सेना, कविता सं० श्री 'पलायनवादी' ; लेखों का चयन सुन्दर रहता है, समालोचनात्मक टिप्पणियाँ जानदार रहती हैं ; वा० मू० ४॥), प्रति ॥), प० कामना कार्यालय, कोटा जंकशन (राजपूताना)

मासिक

(२) आदर्श—अप्रैल १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री जवाहर चौधरी, प्रबन्ध सं० श्री पृथ्वीनाथ शर्मा ; समाजवादी इष्टिकोण को लेकर अच्छे लेख रहते हैं। लेखादि का स्तर भी ऊँचा है ; वा० मू० ५॥), प्रति ॥), प० १३४६, पीपल महादेव, दिल्ली ।

(३) जनवाणी—जनवरी १६४७ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री आचार्य नरेन्द्रदेव, रामवृक्ष बेनीपुरी, बैजनाथसिंह 'विनोद' ; समाजवादी विचारधारा को पोषित करते हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक विषयों पर योग्य विद्वानों के लेख रहते हैं, टिप्पणियाँ भी सामयिक रहती हैं ; थोड़े ही असे में इसने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है ; वा० मू० ८), प्रति ॥), प० गौदोलिया, बनारस ।

(४) नयाकदम—हाल ही में प्रकाशित ; सं० वीरेन्द्र त्रिपाठी ; वा० मू० ४), प० बल्लीमारान, दिल्ली ।

(५) नयासमाज—जुलाई १६४८ से प्रकाशित ; संचा० नयासमाज द्रस्ट ; सं० श्री मोहनसिंह सेंगर ; परामर्श समिति में, सर्वश्री महादेवी

बर्मा, काका कालेलकर, हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा जैनेन्द्रकुमार हैं ; नई समाज व्यवस्था का प्रतिपादन करता है ; सभी प्रसिद्ध लेखकों का सहयोग प्राप्त है। कविता व लेखों का चयन विशेष रूप से सुन्दर ; छपाई, सफाई, गेट अप भी नयनाभिराम ; अंत में लेखकों का परिचय भी रहता है। भविष्य उज्ज्वल है। वा० मू० ८), छःमाही ५), प्रति ॥), पृष्ठ ८०; प० १००, नेताजी सुभाष बोस रोड, कलकत्ता ।

(६) विश्ववाणी—८ वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० श्री सुन्दरलाल, सं० श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय ; हिन्दुस्तानी का समर्थक ; स्वस्थ सामग्री प्रदान करता है। ‘सोवियत् संस्कृति अङ्क’, ‘बौद्ध संस्कृति अङ्क’, ‘अन्तर्राष्ट्रीय अङ्क’ ‘गांधी अङ्क’ आदि समय-समय पर कई विशेषांक प्रकाशित हुए हैं ; प्रमुख मासिकों में एक है ; वा० मू० ८), प्रति १॥), प० साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

(७) समता—दिसम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सम्पादक-मण्डल में सर्वश्री नन्ददुलारे वाजपेयी, ‘अंचल’, शिवदानसिंह चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा गोपीकृष्णप्रसाद हैं ; साहित्यिक व सांस्कृतिक नवनिर्माण का ध्येय लेकर इस पत्र-पुस्तक का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है ; उच्चकोटि के लेखकों का सहयोग प्राप्त है ; आशा है, शीघ्र ही सुरक्षित स्थान बना लेगी ; आलोचनात्मक गंभीर लेख रहते हैं ; वा० मू० १०), प्रति १); पृष्ठ १३० ; प० ६०१, गोल बाजार, जबलपुर ।

(८) साधना—चैत्र सं० २००५ से प्रकाशित ; सं० श्री परमानन्द शर्मा ; ‘निराला’ सम्बन्धी साहित्य हर अङ्क में छपता है, उदूँ की गजलें भी रहती हैं ; आलोचनात्मक टिप्पणियाँ सामयिक और तर्कपूर्ण रहती हैं ; वा० मू० ६), प्रति ॥—), प० १५, भवानीदत्त लेन, कलकत्ता ।

(९) हंस—१६३० से प्रकाशित ; संस्था० उपन्यास-सम्राट प्रेमर्थद ; उन्हीं की स्मृति में प्रकाशित ; सं० सर्वश्री अमृतराय, नरोत्तम नागर । प्रारम्भ में प्रेमचन्द्रजी ही सम्पादक थे, उनके देहावसान पर कुछ समय

श्री जेनेन्द्रकुमार ने भी सम्पादन किया ; निम्न विशेषांक अधिक प्रसिद्ध हुए—‘प्रेमचन्द्र स्मृति अंक’ (पराडकरजो द्वारा सम्पादित), ‘एकांकी नाटक अंक’, ‘रेखा चित्रांक’, ‘कहानी विशेषांक’ ‘प्रगति अंक’ तथा ‘काशी अंक’। इसने अपना स्तर अभी तक कायम रखा है ; अन्तप्रान्तीय साहित्य सम्बन्धी लेख भी समय-समय पर निकलते रहते हैं ; प्रगतिशील विचारधारा का पृष्ठपोषक प्रमुख पत्र ; वा० मू० ६), प्रति ॥), प० सरस्वती प्रेस, पो० ब०० २२, बनारस ।

गल्प व कहानी : मासिक

(१) अरुण—मई १६३२ से प्रकाशित ; सं० श्री पृथ्वीराज मिश्र ; कहानियाँ सुरुचिपूर्ण निकलती हैं ; ‘अरुण चित्रावली’ में अच्छे चित्र भी छपते हैं । पहलियाँ भी छपती हैं, जिनपर पुरस्कार मिलता है । वा० मू० ४॥), प्रति ॥), पृष्ठ ५२ ; प० अरुण प्रेस मुरादाबाद ।

(२) आरती*—सं० श्री ‘अज्ञेय’ तथा श्री प्रफुल्लचन्द्र ओम्का ‘मुक्त’ ; वा० मू० ५), प्रति ॥॥) ; प० आरती मन्दिर, पटना सिटी ।

(३) आँधी*—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री कमलापति त्रिपाठी ; सुरुचिपूर्ण कहानियाँ रहती हैं ; ‘हिमालय’ की हाइ में सर्वश्रेष्ठ कहानी पत्रिका ; प० संसार प्रेस, गायघाट, काशी ।

(४) कल्पना—अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री ‘आनन्द’, सलाहकार सं० श्री चन्द्रभूषण राजवंशी ; प्रथम अंक से ही धारावाहिक उपन्यास भी प्रकाशित ; पहली भी छपती है । वा० मू० ६), प्रति ॥), प० कल्पना कार्यालय, मेरठ ।

(५) कहानियाँ—विगत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री गुरुप्रसाद उपल ; कहानो शीर्षक के ऊपर लेखक का नाम रहता है, अन्त में पाठकों के पत्र भी छपते हैं ; कहानियाँ सुरुचिपूर्ण रहती हैं ; वा० मू० ६), प० संतुप्तिक्षेपन्स, कुदमकुआ, पटना ।

(६) चिनगारी—जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री कुशवाहा 'कान्त' आदि । धारावाहिक उपन्यास भी छपता है, कविताएँ व रजतपट पर आलोचना भी रहती है ; वा० मू० ६), प्रति ॥), प० चिनगारी कार्यालय मिर्जापुर (य० पी०)

(७) धूपछाँह—जुलाई १६४८ से प्रकाशित ; सं० प्रो० बालमुकुन्द गुप्त, सह० सं० सर्वश्री सामनाथ शुक्ल, रमाकान्त दीक्षित, रत्नप्रकाश हजेला ; प्रसिद्ध लेखकों का सहयोग प्राप्त है, बालस्तम्भ भी है । निष्पक्ष पुस्तक समीक्षा भी उद्देश्य में घोषित है ; वा० मू० ५), प्रति ॥), प० ३२/८४ बंगिया मनीराम, (पो. बॉ. २८१) कानपुर ।

(८) नई कहानियाँ*—१६३६ से प्रकाशित ; वा० मू० ५॥), प्रति ॥) ; प० २८, एडमोन्स्टन रोड, इलाहाबाद ।

(९) पराग—सितम्बर १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री कुलदीप ; वा० मू० ४), प्रति ॥) ; प० पराग कार्यालय, आगरा ।

(१०) पंकज*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री श्रीराम शर्मा 'राम' वा० मू० ५॥), प्रति ॥), पृष्ठ ४८ ; प० १८१७, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।

(११) मनोहर कहानियाँ—१६३६ से प्रकाशित ; सं० श्री चितिन्द्र मोहन मित्र ; वा० मू० ३॥), प्रति ॥), प० १६४, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद ।

(१२) माया—जनवरी १६३० (सौर १-१०-१६८६) में सर्वश्री चितिन्द्र मोहन मित्र 'मुस्तफी', विजयवर्मा के सम्पादकत्व प्रकाशित । प्रथम अङ्क में अंकित है—'माया—प्रत्येक व्यक्ति के देवत्व में विश्वास रखती है और इसे कहानियों द्वारा प्रकट करना इसका लक्ष्य है—क्योंकि कहानी ही इसके प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है।' तब से यह निरंतर 'मुस्तफी' जी द्वारा उन्हीं के सम्पादन में निकले रही है लेकिन संभवतः आज वह उद्देश्य भुलाया हुआ है, यद्यपि आज अनुमानतः इसकी ५० हजार से ऊपर प्रतियाँ छपती हैं ; 'मनोहर कहानियाँ' भी इन्हीं की पत्रिका है । आज देश के नेतिक

स्तर को ऊँचा करने की आवश्यकता है ; वा० मू० ४॥), प्रति ।—], प०
आया प्रेस, प्रयाग ।

(१३) मंजरी—जनवरी १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री देवोदयाल
चतुर्वेदी 'मस्त' ; 'जो कथाकार अपनी कहानियों का कॉपीराइट मंजरी-
संचालक को देते हैं, उनकी कहानियों पर स्वीकृति के साथ ही अग्रिम
पारितोषिक भेज दिया जाता है, यह पत्रिका की नीति है ; अन्य पत्रों में
प्रकाशित कहानियों की निष्पक्ष समीक्षा भी रहती है ; 'नवीन कथा साहित्य'
स्तम्भ में नवीन प्रकाशनों (कहानी संग्रह और उपन्यास) की विस्तृत समीक्षा
भी रहती है । अंत में, अङ्क के कहानी लेखकों का परिचय भी रहता है ।
शीघ्र ही उच्च स्थान बना लेगी । वा० मू० ६], प्रति ॥), प० इण्डियन प्रेस,
लिमिटेड, प्रयाग ।

(१४) रसीसी कहानियाँ—१९३६ से प्रकाशित ; प्रबन्ध सं० श्री नन्द-
गोपालसिंह सहगल ; वा० मू० ४]. प्रति ।—], प० २८, एडमान्सटन रोड,
इलाहाबाद ।

(१५) रानी—६ वर्ष से प्रकाशित ; संचार० तथा सं० श्री दीनानाथ
वर्मा ; पारिवारिक मासिक पत्रिका ; सचिव सुरुचिपूर्ण कहानियों के अति-
रिक्त लेख कविताएँ भी सुन्दर रहती हैं ; मनोवैज्ञानिक लेख भी रहते हैं ।
३-४ पृष्ठों में केवल चित्र छपते हैं जिनमें नवदम्पतियों के चित्र अधिक रहते
हैं । वा० मू० ५], प० १२१, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ।

(१६) सजनी—अक्टूबर १९४३ से प्रकाशित ; सं० श्री नरसिंहराम
शुक्ल ; यह व्यापारिक इण्डियन से प्रकाशित होती है । साधारण कहानियाँ
रहती हैं ; वा० मू० ४॥), प्रति ।—], प० सजनी प्रेस, इलाहाबाद ।

(१७) सरिता—३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री विश्वनाथ ; इसका
प्रकाशन हिन्दी को अभूतपूर्व देन है । आर्ट पेपर पर दुरंगी छपाई में प्रति
मास आवरण पृष्ठ पर आकर्षक नवीन चित्र लिये, यह सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक
पत्रिका कही जा सकती है ; सुरुचिपूर्ण कहानियों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित

बिज्ञानों के लेखादि भी रहते हैं ; निबन्ध प्रतियोगिता व इसमें छपे हुए चित्रों का उचित शीर्षक बनाने पर पुरस्कार भी दी जाती है। 'कुछ घर की कुछ जग की' स्थायी स्तम्भ खियों के लिए व कुछ पृष्ठ ('बाल सरिता') बालकों के लिए रहते हैं। चलचित्रों की निष्पत्ति आलोचना रहती है और इसलिए सिनेमा विज्ञापन नहीं लिये जाते ; अश्लील विज्ञापन भी नहीं क्षमते ; सरिता-संचालकों का कहना है कि लेखकों को इसके पारिश्रमिक की दूर देशी भाषाओं के पत्रों में सर्वाधिक है। वा० मू० १५), एक प्रति १॥) ; मूल्य कुछ अधिक जान पड़ता है ; प० दिल्ली प्रेस, प०० बॉक्स १७, नई दिल्ली ।

साप्ताहिक

(१८) मधुप—१३ अप्रैल १९४७ से प्रकाशित ; सं० श्री एम. एल. पाण्डेय ; कहानी प्रधान साप्ताहिक का प्रकाशन संभवतः कहानी—जगत में एक नई चीज है ; मासिक पत्र के आकार में प्रकाशित ; आलोचना, सिनेमा व साहित्य-चर्चा का भी स्तम्भ है ; वा० मू० १५), प्रति ।—), पृष्ठ ३४ ; मूल्य कुछ अधिक मालूम पड़ता है ; प० नं० १, कोलफगिरा, इलाहाबाद ।

(ग) काव्यात्मक : मासिक

(१) अतीत—(विजयादशमी, २००४) नवम्बर १९४७ से प्रकाशित ; सं० श्री देवीदास शर्मा, सह० सं० श्री निर्भय ; किसी गौरवमय एवं महत्व-पूर्ण मार्मिक स्थल को लेकर प्रति मास पद्यात्मक रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित, दूर अङ्क में विषय परिवर्तित रहता है। अब तक 'मीना बाजार'; 'सिंहगढ़', 'कारागार', 'शिवापत्र', 'गुरु गोविन्दसिंह' आदि पाँच अङ्क निकले हैं ; श्रमजीवी नवयुवक—सम्पादकों का यह प्रयत्न स्तुत्य है। वा० मू० ६), प्रति ॥—) ; प० अतीत महल, हाथरस (यू० पी०)

(२) कलाधर—अगस्त १९४७ से प्रकाशित ; सं० श्री मूलचन्द भौंर, सह० सं० श्री माधवेश ; कविताओं का चयन सुन्दर रहता है ; सम्पादकीय पृष्ठ भी है; वा० मू० ४), प्रति ॥—); प० कलाधर कार्यालय, पाली (मारवाड़)

(३) सुकवि—१६२७। से प्रकाशित ; संचा० श्री गयाप्रसादे शुक्ल सनेही 'त्रिशूल', सं० मोहनप्यारे शुक्ल ; समस्यापूर्ति इसकी विशेषता है ; प्रत्येक अङ्क पर किसी कवि अथवा काव्यरसिक रईस वा तालुकादार का चित्र रहता है और अन्दर उसका परिचय भी छपता है। नवयुवक कवियों को विशेष प्रोत्साहन देता है ; प० सुकवि प्रेस, लाठी मोहाल, कानपुर।

(४) आलोचनात्मक : मासिक

(१) दृष्टिकोण—फरवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री नलिन-आलोचन शर्मा, शिवचन्द्र शर्मा, सम्पादक मण्डल में ; सर्वश्री राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, नगेन्द्र नागाइच, धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, जगन्नाथ-प्रसाद शर्मा तथा देवेन्द्रनाथ शर्मा हैं। इसमें भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी साहित्य की आलोचना भी को जाती है ; पुस्तक समीक्षा एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। अधिकारी विद्वानों के योग्य लेख रहते हैं। निश्चय इसका प्रकाशन महत्वपूर्ण है ; वा० मू० ८), प्रति ॥); पृष्ठ ६४ ; प० शारदा प्रकाशन, बाँकीपुर, पटना।

(२) साहित्य संदेश—पिछले १० वर्षों से आलोचना लेत्र में यही एक मात्र पत्र रहा है ; संचा० श्री महेन्द्र, सं० श्रो गुलाबराय एम. ए. ; १६३८ में प्रकाशित होकर सन् १६४२ में देशब्यापी आन्दोलन के कारण प्रकाशन १॥ वर्षे तक स्थगित रहा ; पुस्तकों की निष्पक्ष समीक्षा भी रहती है ; आचार्य द्विवेदी अङ्क, आचार्य शुक्ल अङ्क, विद्यार्थी अङ्क तथा श्यामसुन्दर-दास अङ्क आदि कई विशेषाङ्क भी निकले हैं जिनका अपना महत्व है ; समीक्षात्मक लेखादि अच्छे रहते हैं, कभी-कभी प्रूफ सम्बन्धी गलितयाँ अधिक रह जाती हैं ; वा० मू० ४), प० साहित्य रत्न भण्डार, गांधी रोड, आगरा।

(५) भाषा सम्बन्धी : मासिक

(१) उज्ज्वल—दिसम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्रोराम अट्रावलकर ; सह० सं० सर्वश्री चां० ग० चौधरी, वि० श्रा० चौधरी : 'राष्ट्रभाषा' परीक्षा

के लिए यह ज्ञेत्र तैयार करता है, कुछ अंश मराठी में भी प्रकाशित ; वा० मू० ५), प० ८८, जिल्हापेठ, जलगाँव (पूर्व खानदेश)

(२) जयभारती—दिसम्बर १६४७ से प्रकाशित ; प्रथम अङ्क हिन्दी साहित्य सम्मेलनाङ्क है ; सं० श्री पंढरीनाथ मुकुंद डांगरे ; सह० सं० सर्वश्री श० दा० चितले, प्र० रा० भुपटकर, चिं० बा० आँकार, य० बा० उमराशीकर, श्री० रा० मृ० मुँदडा ; यह महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्य-पत्र है ; वा० मू० ४), प्रति । ॥ ; प० ६०३, सदाशिव लद्दमी रास्ता, पो० बॉक्स ५५८, पूना २.

(३) दस्तिनी हिन्द—जनवरी १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री रामानंद शर्मा, सह० सं० रा० सारंगवाणी (एक तमील भाषी) ; यह मद्रास सरकार की हिन्दुस्तानी पत्रिका है ; उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक स्तेतु का कार्य करने के लिए यह प्रकाशित हो रही है ; भाषा सरल रहती है ; सं० कार्यालय-हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास १७ ; वा० मू० ४), प्रति । ॥ प० बाइरेक्टर ऑफ इन्फौर्मेशन एण्ड प्रिलिस्टी, फोर्ट सेन्ट जार्ज, मद्रास ।

(४) ब्रजभारती*—गत ७ वर्ष से प्रकाशित ; ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा का मुख्य-पत्र ; ब्रजभाषा से सम्बन्धित लेख ही अधिक रहते हैं ; सर्वश्री जवाहरलाल चतुर्वेदी, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, मदनमोहन मारण आदि भूतपूर्व सम्बादक रह चुके हैं । वर्तमान सं० श्री सत्येन्द्र ; प० मथुरा ।

(५) राष्ट्रभाषा—जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; संरक्षक, श्री शिवकिलारी तिवाड़ी ; सम्पादक मस्डल में सर्वश्री हस्तिप्रसाद शर्मा, जगदीशचन्द्र जैसवाल, यादवेन्द्र का 'विद्योगी' हैं ; हिन्दी साहित्य परिषद् (जयघुर) की मुख्य पत्रिका ; लैखादि का चुनाव अच्छा रहता है ; वा० मू० ४॥), प्रति । ॥, पृष्ठ ४० ; प० जयपुर ।

(६) सुस्त्रभाषा—ज्यैति ७ वर्ष से प्रकाशित ; साष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) का मुख्य-पत्र ; सं० श्री भद्रन्त आत्मन्त्र कैसल्कायद्द, सह० सं० आँशुकदेवनारायण ; राष्ट्रभाषा परीक्षाओं की प्रचार सम्बन्धी विज्ञप्तियों के

अतिरिक्त कई पत्रों से उद्धृत लेख व कविताएँ रहती हैं। कई लेख मौलिक भी निकलते हैं और बहुधा अच्छे रहते हैं; साहित्य समालोचना का स्तम्भ भी है। वा० मू० ३) ; प० वर्धा (सी. पी.)

(७) राष्ट्रभाषा पत्र—जनवरी १९४४ से प्रकाशित; सं० सर्वश्री लिंगराज मिश्र, अनुसूयाप्रसाद पाठक; उत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का मुख-पत्र; छोटी-छोटी कहानियाँ व लेख सुन्दर रहते हैं; कुछ अंश उद्धिया भाषा में भी छपता है। वा० मू० ४), प्रति ।=। ; प० उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, चौंडी चौक, कटक।

(८) हिन्दी*—कई वर्ष से प्रकाशित; पहले काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती थी, अब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित, सं० श्री चन्द्रबली पाण्डेय; हिन्दी की समस्या को लेकर गंभीर लेख रहते हैं; वा० मू० १), वी. पी. नहीं भेजी जाती; प० जतनबर, काशी।

(९) हिन्दी प्रचार पत्रिका—६ वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्वश्री भानुकुमार जैन, हरिशंकर, सह० सं० श्री 'मनुप'; अम्बई हिन्दी विद्यापीठ का मुख-पत्र; विद्यापीठ की विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख भी रहते हैं; वा० मू० ४), प्रति ।=।, प० अम्बई हिन्दी विद्यापीठ, महाराज बिलिंडग, ४ महला, गिरगाँव द्राम जंकशन, अम्बई ४.

(१०) सरकारी हिन्दी—अक्टूबर १९४८ से प्रकाशित; सं० श्री दिवाकर 'भणि'; सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी पत्र; इसमें अंगरेजी के शब्दों का उपयुक्त हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी शब्दों का उद्दू पर्याय नागरी लिपि में रहता है। तथाकथित 'सरकारी भाषा' में लेख भी रहते हैं; वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ३२; प० हिन्दी साहित्य परिषद्, गोवर्धन सराय, काशी।

(च) हास्य-रस-प्रधान : मासिक

(१) चाढ़ुक*—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री ठाकुर बब्बासिंह चौहान; प० १४, मदन चटर्जी लेन, कलकत्ता ।

(२) नोकझोक—१६३८ से प्रकाशित ; सं० श्री रामप्रकाश पंडित ; सह० सं० श्री ओमप्रकाश शर्मा ; मीठी चुटकियाँ तथा विनोदपूर्ण कहानियाँ प्रति मास पढ़ने को मिलती हैं ; ‘वर्धा की चिट्ठी’ और ‘चाय की चुस्कियाँ’ स्थायी स्तम्भ हैं ; भूतपूर्व सं० श्री केदारनाथ भट्ट के समय में इसका बहुत प्रचार था और ऊँचे दर्जे के हास्य की सामग्री पत्र प्रस्तुत करता था । ‘होलिकाङ्क’ आदि कई विशेषाङ्क प्रकाशित हुए ; वा० मू० ३), प्रति ।) ; प० बाग मुजफ्फरखाँ, आगरा ।

पादिक

(३) अजगर*—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० आहितुरेढक मुज़ंगराव, जोगदण्डराव ; वा० मू० ३), प० भारोव भूषण प्रेस, त्रिलोचन, काशी ।

(४) तरंग*—कई वर्षों से प्रकाशित ; सं० श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ ‘बेटब बनारसी’ ; प० तरंग कार्यालय, काशी ।

(५) मतवाला—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री चन्द्र शर्मा, धर्मवीर कालिया ; ‘चलती चक्की’ स्थायी स्तम्भ है, व्यंग-चित्र भी निकलते हैं ; वा० मू० १०), प्रति ।), प० ‘मतवाला’ कार्यालय, जोधपुर ।

सामाजिक

(६) मतवाला*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री शैलेन्द्रकुमार पाठक; वा० मू० ६), प्रति ८), षष्ठ २० ; प० चावडी बाजार; दिल्ली ।

(७) मतवाला—२५ वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० स्व० श्री महादेवप्रसाद सेठ ; सं० श्री पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उम्र’ ; ‘चलती चक्की’ शीर्षकान्तर्गत मीठी चुटकियाँ अच्छी रहती हैं ; व्यंग चित्र भी सुन्दर निकलते हैं ; योग्य सम्पादक के हाथों में पत्र पुनः चमक उठेगा, ऐसी आशा है ; वा० बोतल ६) नकद, प्रति प्याला ८) ; प्रकाशक—श्री हरगोविन्द सेठ, बीसवीं सदी प्रिंटिंग प्रेस, मिर्जापुर (य० पी०)

(छ) शिक्षा : त्रैमासिक

(८) शिक्षा*—जुलाई १६४८ से प्रकाशित ; सयुक्त प्रान्तीय सरकार

कि शिक्षापविभाग द्वारा निकलती है ; शिक्षा सम्बन्धी प्रगतियों परे प्रकाश छालने, विभिन्न समस्याओं पर विचार एवं उन्हें सुलझाने के लिये क्रियात्मक खुमार आदि उपस्थिति करने वाली सुन्दर पत्रिका है। योग्य विद्वानों के लिए रहते हैं। आशा है यह अपने नाम को पूर्णतः सार्थक बनाएगी। पठ लखेनऊ।

मासिक

(२) नई ताज्जीम*—१० वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्रीमती आशादेवी, तालीमी संघ (सेवाप्राम) का मुख्य-पत्र ; बुनियादी शिक्षा पद्धति पर लेख रहते हैं ; प० सेवाप्राम, धर्घा।

(३) विद्यार्थी—१५ अगस्त १९४७ से प्रकाशित ; संचार तथा सं० श्री गोपालप्रसाद गार्ग 'रवि', सं० सं० सर्वश्री जगन्नाथप्रसाद गुप्त, धर्मेन्द्र गुप्त ; विद्यार्थियोपयोगी साधारण लेख रहते हैं ; वा० मू० २॥), प्रति ।) ; प० विद्यार्थी मंदिर, हाथरस (यू० पी०)।

(४) शिक्षकबन्धु—जनवरी १९३३ से प्रकाशित ; श्रधान सं० श्री अध्यापक जगनसिंह सेंगर, सं० श्री रामचन्द्र गुप्त, शिक्षकों का हिन्दी में प्रकाशित अकेला पत्र ; वा० मू० २॥), प्रति ।) ; प० 'शिक्षकबन्धु' कार्यालय, कटरा, अलीगढ़ (यू० पी०)

(५) शिक्षण पत्रिका—आद्य सम्पादक स्व० गिजुभाई ; पिछले १५ वर्ष से श्रीमती ताराचहन मोदक के सम्पादकत्व में (बम्बई से) निकल रही थी, श्री काशीनाथ त्रिवेदी, भी संपादक रहे ; सं० श्री बंशीधर ; शिक्षकों के लिए सरल भाषा में मनोवैज्ञानिक लेख रहते हैं ; वा० मू० ३॥), प० बड़बानी (इन्दौर)

(६) शिक्षासुधा—११ वर्ष से प्रकाशित ; संचार श्री रामकुमार अग्रवाल ; सं० सर्वश्री वीरेन्द्रकुमार, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल ; विद्यार्थियों के उपयुक्त शिक्षा सम्बन्धी लेख व कविताएँ रहती हैं, 'द्वादारू' स्वास्थ्य विषयक स्तम्भ है ; इसके साथ ही कुछ पृष्ठों का 'बालबन्धु' परिशिष्टांक भी हर अक्षु

में रहती है, जिसमें धार्मोपयोगी सामंज्ञी रहती है। 'पुस्तकालेख अङ्क' 'विद्यार्थी अङ्क', 'परीक्षांक' आदि कई विशेषाङ्क भी प्रकाशित हुए हैं ; वा० मू० ३), प्रति ।—) ; प० मण्डी धननौरा (भुरांदाबाद)

(ज) सामान्य : चातुर्मासिक

(१) आखौक—अक्टूबर १६४७ से प्रकाशित ; हिन्दी-साहित्य-समाज, महाराजा कॉलेज, जयपुर का मुख्यपत्र ; सं० प्रो० सरनामसिंह शर्मा 'अरुण' ; विद्वतपूर्ण साहित्यिक लेख रहते हैं ; अन्य कॉलेजों के लिए भी यह प्रयास अनुकरणीय है ; वा० मू० १॥), प० जयपुर ।

त्रैमासिक

(२) भारतेन्दु—१५ अगस्त १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री इन्द्रदेव 'स्वाधीन', सह० सं० सर्वश्री हनुमानप्रसाद, गोकुलप्रसाद बागड़ी ; यह राजस्थान हिन्दी विद्यापीठ, कोटा का मुख्यपत्र है ; सारगमित साहित्यिक सामग्री से पत्र परिपूर्ण रहता है ; वा० मू० ४), प्रति १॥), प० श्री भारतेन्दु सभिति, कोटा (राजस्थान)

(३) वनस्थली पत्रिका—जनवरी १६४६ से प्रकाशित ; सं० श्री सुधीन्द्र ; वनस्थली बांसिकों विद्यापीठ (जयपुर) का मुख्यपत्र ; 'अध्ययन और निर्माण की पत्रिका' ; साहित्य समीक्षा और 'विचार विन्दु' के अतिरिक्त सुन्दर पठनीय सामग्री रहती है, नारी विषयक लेख भी रहते हैं । वा० मू० ५॥), प्रति १॥), प० जयपुर ।

द्वैमासिक

(४) पारिजात—सितम्बर १६४५ में श्री रामखेलावन पाण्डेय के सम्पादकत्व में त्रैमासिक के दो अंक प्रकाशित हुए ; जुलाई १६४६ से अक्टूबर १६४७ तक मासिक रहा ; इसके सम्पादक सर्वश्री विश्वमोहनकुमार, देवकुमार मिश्र रहे ; तत्पश्चात द्वैमासिक रूप में निकल रहा है ; सं० सर्वश्री रघुवंश पाण्डेय, देवकुमार मिश्र ; इस पत्र पुस्तक के प्रत्येक अङ्क में

अध्ययनपूर्ण सामग्री रहती है ; फिल्म की आलोचना, सामयिक चर्चा व पुस्तक समीक्षा स्तम्भ भी हैं ; लेखादि उच्चकोटि के रहते हैं ; समीक्षात्मक लेख भी प्रकाशित ; मू० ६), प्रति १), प० ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना ।

(२) प्रतीक—जून १९४७ से प्रकाशन प्रारम्भ ; वर्ष में ६ अंक-ग्रोष्टम, पावस, शरद, वसंत आदि ऋतुओं के अनुसार निकलते हैं, प्रारम्भ में ऋतु विशेष से संबंधित संस्कृत, हिन्दी में कविताएँ भी रहती हैं ; यह पत्र भी है, पुस्तक भी ; सं० सर्वश्री सियारामशरण गुप्त, नगेन्द्र, श्रीपत्रराय, स० ही० वास्त्यायन ; जन संस्कृति और लोक साहित्य तथा युगीन चेतना का यह प्रतीक है ; ‘स्वतंत्र गंभीर लेखकों के लिए उपयुक्त हिन्दी माध्यम प्रस्तुत करना, जो साहित्य को आज की देशब्यापी मानसिक क्लांति और कुण्ठा से मुक्त करना चाहते हैं, ही इसका प्रधान उद्देश्य है’ ; अधिकारी विद्वानों की उच्चकोटि की मौलिक रचनाएँ—कहानी, लेख, एकांकी नाटक तथा समीक्षाएँ भी इसमें प्रकाशित होती हैं । हिन्दीतर भारतीय साहित्यों और विदेशी साहित्यों के साथ हिन्दी का आदान प्रदान बढ़ाने की ओर भी यह उन्मुख है ; ‘पत्र-पुस्तक’ का यह अभिनव प्रकाशन अभिनन्दनीय है और विशेषतः साहित्यिकों द्वारा संचालित साहित्यिक आयोजन होने के कारण । वा० मू० ६), प्रति १॥) ; प० प्रतीक कार्यालय, १४, हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद ।

(३) वीरभूमि—जनवरी १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री रत्नलाल जोशी ; ‘मधुचयन’, ‘हमारी डाक’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; राजस्थानी भाषा पर लेख रहते हैं, वर्षों के लिए भी कुछ पृष्ठ रखे हैं ; सामग्री साधारण है ; वा० मू० ६), प्रति ॥॥), प० १०, नारायणप्रसाद बाबू लेन, कलकत्ता ।^७

मासिक

(७) अपना हिन्दुस्तान—जनवरी १९४८ से प्रकाशित ; भा० श्री ईश्वर-प्रसाद माथुर ; ग्वालियर से ऐसा सचित्र साहित्यिक पत्र निकलना गौरव-शाली है ; वा० मू० ९), प्रति ॥॥), पृष्ठ ५८ ; प० बाजार बालाबाई, लक्ष्मण (ग्वालियर)

(८) आशा—मई १६४८ से प्रकाशित ; १६४० से हस्तलिखित रूप में निकलती थी ; प्रारम्भ से ही श्री मधुसूदन ‘मधुप’ इसके सम्पादक हैं ; उनका प्रयास अभिनन्दनीय है ; इस सचिव पत्रिका में लेखों का चुनाव भी साहित्यिक रूचि की अभिव्यक्ति करता है ; वा० मू० ६), प्रति ॥—), प० १४; पलासिया, इन्दौर ।

(९) उषा*—कई वर्ष से प्रकाशित ; सं० कुमारी शकुंतला सेठ तथा श्री अयोध्यानाथ ‘वीर’ ; नारी विषयक व अन्य समस्याओं पर सामयिक लेख अच्छे रहते हैं ; जम्मू से निकलने वाली सुन्दर पत्रिका है ; वा० मू० ६), प० उषा कार्यालय, जम्मू (काश्मीर)

(१०) गौरव—१५ अगस्त १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री भगवानसिंह वर्मा ‘विमल’, सह० सं० श्री ‘अशोक’ बी. ए. ; सभी साहित्यांगों पर लेख रहते हैं, कहानियाँ अधिक रहती हैं ; ‘बाल जगत’ व ‘महिला संसार’ स्तम्भ भी हैं । नये लेखों को लेकर ‘गौरव’ आगे बढ़ रहा है, यह अनुकूल ही है ; वा० मू० ४), प्रति ॥—) ; प० राष्ट्रहितैषी कार्यालय, हाथरस (यू. पी.)

(११) चाँद—१६२३ से प्रकाशित ; सं० श्री नन्दगोपालसिंह सहगल ; भूतपूर्व सम्पादकों में सर्वश्री नन्दकिशोर तिवारी, सत्यभक्त आदि उल्लेखनीय हैं ; श्रीमती महादेवी वर्मा के समय इस पत्र की नीति स्त्रियोपयोगी रही और बराबर उन्नति पर रहा ; ‘फाँसी अङ्क’, विशेषाङ्क भी निकला ; ‘मार-वाड़ी अङ्क’ के प्रकाशन के बाद इसकी लोकप्रियता को बड़ा धक्का पहुँचा ; स्वामी चौखटानन्द शीर्षकान्तर्गत श्री जी. पी. श्रीवास्तव के लेख निकलते हैं ; हाल ही में ‘स्वतंत्रता अङ्क’ तथा ‘गांधी अङ्क’ त्रिशेषाङ्क प्रकाशित हुए हैं जो सुन्दर हैं ; वा० मू० ६॥), प्रति ॥—) ; प० पोस्ट बेग नं० ३, इलाहाबाद ।

(१२) चेतना—१५ अगस्त १६४८ से प्रकाशित ; संचा० व सं. परमेश्वर श्री० बगड़का ; सांस्कृतिक व सामाजिक विषयों पर भी लेख रहते हैं, पुस्तकाकार प्रकाशित यह पत्रिका चेतनाप्रद सामग्री देती है ; लेखों को

प्रत्येक रक्षा पर प्राक्षिप्रसिक दिव्य जाता है ; ग्राहक संख्या २००० ; वा० मू० ४५), प्रति ॥३), प० १२४, सायकार्ड, बम्बई २.

(१४) जीवन—जनवर १६४७ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री विष्णु-कुमार शुक्र, अनन्तरीलाल शर्मा, मधुसूदन बाजपेयी ; सुन्दर साहित्यक सामग्री प्रदान करता है, 'बाल साहित्य' व 'नारी जगत' के स्तम्भों में भी रचनाएँ सुन्दर रहती हैं ; गेट अप, छपाई-सफाई आकर्षक ; वा० मू० ६), प्रति ॥४), प० ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(१५) नयाजीकन*—ग्रन्थ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री कन्दैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ; पत्र-पुस्तक रूप में प्रकाशित ; लेखों का चयन सुन्दर रहता है ; वा० मू० १०), प० विकास लिमिटेड, सहारनपुर ।

(१६) निराला—अगस्त १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री हरिशंकर शर्मा, सभी प्रसिद्ध लेखकों का सहयोग प्राप्त है, सम्पादकोय टिप्पणियाँ सूजीब रहती हैं ; वा० मू० ६), प्रति ॥५), प० निराला प्रेस, आगरा ।

(१७) प्रवाह—अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; संचा० श्री ब्रिजलाल वियाणी, सं० श्री गाविन्द व्यास ; इस सचित्र पत्र में सामाजिक, राज-नैतिक आदि सभी प्रवृत्तियों पर समुचित प्रकाश ढाला जाता है ; 'विचार प्रवाह' स्तम्भ में नई विचारधारा उद्घृत रहती है ; वा० मू० ६), प्रति ॥६); प० राजस्थान प्रिंटिंग एण्ड लोथो वर्क्स लिमिटेड, आकोला (बरार)

(१८) भारती*—८ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्रीमती शान्ताकुमारी ; राष्ट्रभाषा हिन्दी की समर्थक ; लेखादि का चुनाव अच्छा रहता है ; काशमीर के एक मात्र पत्रिका ; वहाँ के जन आनंदोलन की अप्रदृती ; वा० मू० ६); प० भारती प्रेस, जम्मू (काशमीर)

(१९) मनोरंजन—श्रुकटद्वार १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री चिरंजीत, प्रबुन्ध सं० श्री इन्द्र विद्यावाचस्पदि ; पत्र तामाज्ञरूप सचेतनजक तो है ही, इसकी कहानियाँ, कविताएँ, नाटक, लेख आदि सुरुचिपूर्ण कलात्मक व ज्ञानवर्धक भी रहते हैं ; दोरंगी छपाई, चित्रों से अलंकृत, गेट अप भी

आकषक ; पत्र का भविष्य सुन्दर है ; वा० मू० ५॥), प्रति ॥), पृष्ठ ६३ ; प० श्रद्धानन्द पञ्चकेशन्स लि०, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

(१९) मस्ताना जोगी—अप्रैल १९४८ से प्रकाशित ; कई वर्षों से यह उद्दृ॑ में प्रकाशित हो रहा है, अब हिन्दी में भी निकला है ; सं० सर्वश्री सूफी लक्ष्मणप्रसाद, चेतनकुमार भटनागर ; कहानी व लेखों का चयन साधारणतः अच्छा रहता है ; पहाड़ी यात्रा सम्बन्धी लेख रहते हैं ; पत्र में सूफी धर्म की भलक भी मिलती है ; वा० मू० ६), प्रति ॥); प० कार्यालय हिन्दी मस्ताना जोगी, प० ७६, जी. वी. रोड, (फराशखाना) दिल्ली ।

(२०) माधुरी—अगस्त १९२१ से प्रकाशित ; संस्था० स्व० मुन्शी विष्णुनारायण भागव ; प्रारम्भ में सर्वश्री दुलारेलाल भागव, रूपनारायण पाण्डेय के सम्पादकत्व में निकली ; भूतपूर्व सम्पादकों में श्री प्रेमचन्द व श्री कृष्णबिहारी मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है ; सन् १९०० के बाद हिन्दी पत्रकारिता में क्रांति आई और अपने जन्म से अब तक ‘सरस्वती’ के साथ इसने भी प्रमुख भाग लिया है ; लगभग पिछले १५ वर्षों से इसके सम्पादक श्री रूपनारायण पाण्डेय ही हैं ; स्वस्थ साहित्यिक सामग्री रहती है, यद्यपि अब पहले का स्तर नहीं ; प्रकाशन में भी २/३ मास पिछड़ी है । अन्य पत्रिकाओं की भाँति कागज के अकाल में भी ‘माधुरी’ ने अपना कलेवर कभी छीण नहीं किया ; वा० मू० ७॥), प्रति ॥); प० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ।

(२१) युगारम्भ—ज्येष्ठ २००४ से प्रकाशित ; सं० श्री व्योहार राजेन्द्र-सिंह ; इसका उद्देश्य वाक्य है—‘एक सदी का तस्वीरात, दूसरी में साधारण ज्ञान का स्वरूप पाता है—आध्यक हैं विचार और चित्तन ।’ पठनीय सामग्री रहती है ; वा० मू० ४), प्रति ।—) ; प० मानस-मन्दिर अक्षरपुर ।

(२२) राष्ट्रसंबोधी—अप्रैल १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री रामस्वरूप गर्ग ; अक्षरक आवश्य से युक्त, पुस्तकाकार प्रकाशित इस सचित्र पत्रिका

में शिक्षा व साहित्य विषयक लेखों का चयन अच्छा रहता है; प्रत्येक अङ्क में किसी व्यक्ति का रेखाचित्र भी रहता है; राजस्थान से ऐसी सुन्दर पत्रिका का प्रकाशन गौरवपूर्ण है; वा० मू० ५), प्रति ॥); प० श्री वाणी मन्दिर, अजमेर।

(१३) लहर—मार्च १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री जगदीश ललवाणी; सुन्दर साहित्यिक सामग्री से ओतोत यह सचित्र पत्रिका उज्ज्वल भविष्य की ओतक है; सिनेमा की आलोचना भी रहती है; दोरंगी छपाई, पुस्तकाकार प्रकाशित; प्रत्येक लेख पर पारिश्रमिक दिया जाता है; वा० मू० १०), प्रति १), पृष्ठ ८०; नवयुवक प्रेस, जोधपुर।

(१४) वसुन्धरा—फरवरी १६५८ से प्रकाशित; संस्था० श्री मनोहर-लाल रायवैद्य, सं० सर्वश्री रामेश्वर 'अस्तु', लद्दमीकान्त 'मुक्त'; नवयुवक लेखकों को लेकर पत्रिका साहित्य-देत्र में अवतीर्ण हुई है; मानव जीवन को उच्च बनाना ही इसका ध्येय है; प्रथम अङ्क में लेखों का चयन उहेश्यानुकूल ही है; वा० मू० १२), प्रति १); प० वसुन्धरा निकेतन, ८२८, धर्मपुरा, दिल्ली।

(१५) विश्वमित्र*—अप्रैल १६३२ से प्रकाशित; संचा० श्री मूलचन्द्र अग्रवाल, सं० श्री देवदत्त मिश्र, सह० सं० रघुनाथ बाणेय 'प्रदीप'; विशेषतः राजनैतिक और सामाजिक लेखों का बाहुल्य रहता है; लेखादि अच्छे रहते हैं यद्यपि पहले का स्तर नहीं; वा० मू० ६); प० ७४, धर्मतळा स्ट्रीट, कलकत्ता।

(१६) विशालभारत—जनवरी १६२८ से प्रकाशित; 'प्रवासी' व 'माडन रिव्यू' के सम्पादक स्वर्गीय श्री रामानन्द चटर्जी द्वारा संस्थापित; इसके जन्म से लेकर १६३७ तक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक रहे और स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन वर्मा उनके सुयोग्य सहायक रहे; इन वर्षों को 'विशाल भारत' का स्वर्णकाल समझना चाहिए; प्रवासी भारतीयों के लिए इसका आनंदोलन सदैव स्मरणीय रहेगा। श्री चतुर्वेदीजी ने अनेक

आनंदोलनें द्वारा इसे बड़ा लोकप्रिय बनाया ; ‘रवीन्द्र अङ्क’, ‘एरदूज अङ्क’ ‘पद्मसिंह शर्मा अङ्क’, ‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार अङ्क’, ‘कला अङ्क’, राष्ट्रीय अंक’ आदि विशेषाङ्क भी निकते हैं। सर्वश्री ‘अङ्गेय’ व मोहनसिंह सेंगर भी इसके सम्पादक रह चुके हैं ; विगत कई वर्षों से यह पुनः श्री श्रीराम शर्मा के सम्पादन में निकल रहा है ; इसने अपना स्तर कायम रखा है ; सम्पादकीय टिप्पणियाँ अत्यन्त मार्मिक रहती हैं ; निष्पत्ति विचार प्रधान पत्र है ; विविध विषयों पर लेखादि रहते हैं, प्रत्येक अंक में आर्ट कागज पर छपा कलापूर्ण चित्र रहता है ; वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० १२०/२ अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता ।

(२७) वीणा—१६२६ से प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित ‘कुसुमाकर’ सम्पादक थे ; अनेक वर्षों तक आपने बड़ी योग्यतापूर्वक इसका सम्पादन किया ; उन दिनों इसकी गणना उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिकाओं में की जाती थी । अब कई वर्षों से प्रधान सं० श्री कमलाशंकर मिश्र है ; सं० श्री गापीवल्लभ उपाध्याय ; मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति (इन्दौर) की मुख-पत्रिका है ; कलेवर भी अब जीण और स्तर भी गिरा हुआ जान पड़ता है ; वा० मू० ४), प्रति ॥-॥) ; प० इन्दौर ।

(२८) सरस्वती—१६०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की अनुमति से पाँच सम्पादकों द्वारा इसका प्रकाशन (इंडियन प्रेस, प्रयाग द्वारा) शुरू हुआ ; दूसरे वर्ष स्व० श्यामसुन्दरदासजी ही इसके सम्पादक रहे ; यह युगनिर्मात्री सबसे पुरानी मासिक पत्रिका है ; स्व० आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने १५ वर्षों तक (सन् १६०३-१८) इसका सफल सम्पादन किया । इसी पत्रिका द्वारा उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता में क्रांति ला दी ; नए शीर्षक, नए समाचार देना तथा खड़ी बोली गद्य व पद्य का विकास उनके द्वारा हुआ ; इसी काल में अनेक नवीन लेखकों ने सिद्धहस्तता प्राप्त की ; द्विवेदीजी के सम्पादन काल में यह उन्नति के शिखर पर चढ़ी । उनके पश्चात कुछ काल श्री पदुमलाल पुजालाल बखशी ने भी वही स्तर कायम रखा ; सर्वश्री देवीदत्त

शुक्ल, ठा० श्रीनाथसिंह व उमेशचन्द्र देव भी भूतपूर्व सम्पादक रह चुके हैं ; बर्तमान सं० सर्वश्री हरिकेशब घोष, उमेशचन्द्र मिश्र ; अब भी हिन्दी पत्रिकाओं में इसका उच्च स्तर माना जाता है ; विविध विषयक सामयिक समाचार अधिक रहते हैं ; ‘विचार विमर्श’, ‘सामयिक साहित्य’, ‘नई पुस्तकें’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; वा० मू० ७॥), प्रति ॥८॥ ; प० इलाहाबाद ।

(३९) हिमालय—जनवरी १६४७ से प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री ‘दिनकर’, रामबृह बेनीपुरी तथा श्री शिवपूजनसहाय इसके सम्पादन भण्डल में रहे, पर तीसरे अङ्क से दूसरे वर्ष के प्रथम अङ्क तक श्री शिवपूजनसहाय के ही सम्पादन में यह पत्र—पुस्तक के रूप में निकलता रहा । इसकी लोकप्रियता का श्रेय उन्हें ही जाता है । महत्वपूर्ण सामयिक समस्याएँ व पत्र-पत्रिकाओं की समुचित संयत आलोचना की जाती है ; दूसरे वर्ष में द्वितीय अङ्क से श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र इसके सम्पादक हैं ; इसी अङ्क से राजनीति विषयक लेखों को भी स्थान मिलने लगा है ; यद्यपि कलेवर जीण हो गया है । ‘गांधी अङ्क’ विशेषांक सुन्दर निकला है ; इसका प्रकाशन हिन्दी साहित्य को एक अनुपम देन है ; आचार्य रामलोचनशरण (संस्था०) इसके लिए बधाई के पत्र हैं ; वा० मू० १०), प्रति १॥ ; प० पुस्तक भण्डार, हिमालय प्रेस, पटना ।

पात्रिक

(३०) आशा—१५ जुलाई १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री तुलसी भाटिया ‘सरल’ ; लेखादि साधारणः अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति । ; प० ‘आशा’ कार्यालय, करोलबाग, दिल्ली ।

(३१) प्रगतिशील—१५ नवम्बर से प्रकाशित ; संस्था० श्री देवीनारायण मैणवाल, सं० श्री हरिनारायण मैणवाल ; विद्यार्थियों एवं साहित्यिकों का प्रिय पत्र है ; राजनीति विषयक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति । ; प० १२ ; मूल्य अधिक जान पड़ता है ; प० हरिमोहन इलेक्ट्रिक प्रेस, पुरानी बस्ती, जयपुर ।

(३२) विजेती*—कई वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रामदयाल श्रिवेदी 'प्रवीण' ; गाँवों और किसान समस्या पर भी लेख रहते हैं ; प० पद्मा, इजारीबाग (बिहार)

साप्ताहिक

(३३) आगामी कला—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री प्रभागचन्द्र शर्मा ; यह प्रति सोमवार को (जवाहरगंज) खण्डवा और इन्दौर (३६, महात्मा गांधी रोड) से प्रकाशित होता है ; जन्म से मासिक रूप में केवल खण्डवा से प्रकाशित होता था ; १५ अगस्त ४७ से साप्ताहिक रूप में निकल रहा है । मध्यभारत की खबरों के अतिरिक्त पठनीय साहित्यिक सामग्री भी रहती है ; फलित ज्योतिष समाचार भी छपते हैं ; वा० मू० ६), प्रति =२० खण्डवा ।

(३४) ऊषा—१६४३ से प्रकाशित ; संचा० श्री राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल सं० श्री पञ्चालाल महतो 'हृदय' ; भूतपूर्व सम्पादक श्री शारदारंजन पाण्डेय व हंसकुमार तिवारी रहे ; साहित्यिक सामग्री अच्छी रहती है ; 'गया कॉलिंग' व्यांगपूर्ण शब्द चित्र का स्तम्भ है ; इसका 'पत्रकार अङ्क' अच्छा निकला था ; वा० मू० ५), प्रति =१॥ ; प० ऊषा कार्यालय, गया ।

(३५) देशदूत—१६३६ से प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री श्रीनाथसिंह के सम्पादकत्व में निकला ; बाद से श्री ज्योतिष्रसाद मिश्र 'निर्मल' ही प्रधान सम्पादक हैं ; हिन्दी के सचित्र साप्ताहिकों में शुरू से ही उच्चेखनीय रहा है ; निर्मलजी ने पत्र को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है । 'स्वास्थ्य और छायाचाम', 'मातृमण्डल', 'हमारा रंगमंच' 'सम्पादक के नाम चिट्ठियाँ' 'हमारा साहित्य' आदि स्थायी स्तम्भ हैं और विशेषता यह है कि इन शीर्षकों के अन्तर्गत प्रति सप्ताह लेखादि छपते ही हैं ; प्रति सप्ताह हास-परिहास स्तम्भ में 'श्री अघड़दत्त शर्मा' की चुटकियाँ तथा 'सम्बाददाताओं की कलम से' पृष्ठ में देश के भिन्न-भिन्न भागों की खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं ; हिन्दी भाषा का समर्थक ; अनेक विशेषांक भी निकाले ; प्रत्येक अङ्क

साहित्यिक व राजनीतिक सामग्री से परिपूर्ण रहता है; वा० मू० ७।), प्रति =); प० इंडियन प्रेस ज्ञ०, प्रयाग।

(३६) नवयुग—१६३२ से प्रकाशित; सं० सर्वश्री इन्द्रनारायण गुरु^१, महावीर अधिकारी; श्री अवनीन्द्र विद्यालंकार भी भूतपूर्व सम्पादक रहे; हिन्दी का श्रेष्ठ सचित्र सामाहिक; चित्रों का बाहुल्य पत्र को खिला देता है, हर सप्ताह आवरण चित्र भी परिवर्तित रहता है तथा भारतीय चित्र कला के ढंग का होता है। जनरुचि के साहित्य की ओर विशेष ध्यान है; 'अध्यात्म के घथ पर' एक स्थायी स्तम्भ है; विज्ञापन भी बहुत रहते हैं; सम्पादकों के अनुसार एक मास में एक लाख पचास हजार प्रतियाँ बिकती हैं; लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाता है; वा० मू० १२।), प्रति ।) प० मोरी गैट, दिल्ली।

(३७) निराला—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० मण्डल में—सर्वश्री बनारसोदास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, केदारनाथ भट्ट तथा हरिशंकर शर्मा हैं; प्रारम्भ में हास्य रसात्मक सामग्री देने का उद्देश्य लेकर कुछ अङ्क निकले थे पर अब विविध विषयक लेखादि रहते हैं; बीच में प्रकाशन स्थगित भी रहा था; वा० मू० ६।), प्रति =); प० निराला प्रेस, आगरा।

(३८) प्रकाश*—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री प्रताप साहित्यलंकार; वा० मू० ६।); प० वैद्यनाथधाम (देवघर-बिहार)

(३९) राध्वारणी—१७ जून १६४८ से प्रकाशित; संस्था० स्वामी श्री चिदानन्द सरस्वती; सं० श्री एस. सी. आनन्द; समाचारों के अतिरिक्त श्रद्धानन्द शुद्धि सभा की विज्ञप्तियाँ भी रहती हैं; वा० मू० ५।), प्रति =), पृष्ठ ८; पृष्ठ संख्या व सामग्री को देखते हुए मूल्य अधिक जान पड़ता है; प० आदित्य प्रेस, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

(४०) लोकमत*—६ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति; स्थानीय समाचारों के अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री भी रहती है; वा० मू० ६।), प्रति =); लोकमत कार्यालय, नागपुर।

७. राजनैतिक

(क) कांग्रेसी व गांधीवादी : मासिक

(१) अमरज्योति*—हाल ही में प्रकाशित ; संचा० श्री हरिवंश मिश्र ; सं० सर्वश्री सूर्य वंश मिश्र, ललित श्रीबास्तव, राधेकृष्ण, भैवरलाल । बापू के आदर्शों पर इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है ; प० अमर ज्योति कार्यालय, ११/३०६, सूटरगंज, कानपुर ।

(२) जीवनसाहित्य—अगस्त १९४० से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री हरिभाऊ उपाध्याय, यशपाल जैन बी. ए., एल-एल. धो; अदिसक नवरचना का पत्र ; पहले उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था, पर बीच में गांधीजी के प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्यतः करता था ; सांस्कृतिक व सामयिक विषयों पर भी लेख रहते हैं ; 'मधुकरी' स्तम्भ में अन्य पत्रों से चयन सुन्दर रहता है ; प० सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

(३) विहार कांग्रेस*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री श्यामसुन्दरदास ; लेखादि सुन्दर रहते हैं ; वा० मू० ६) प० विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, सदाकत आश्रम, दीघा, पटना ।

(४) युगधारा*—जुलाई १९४७ से प्रकाशित ; संचा० श्री धलदेवप्रसाद ; सं० सर्वश्री कमलापति त्रिपाठी, मुकुन्दीलाल, राजकुमार ; सामयिक समस्याओं और विशेषकर राजनैतिक तथा आर्थिक प्रश्नों का विवेचन करना ही मुख्य लक्ष्य है ; 'नववर्षाङ्क' विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित हुआ ; भविष्य उज्ज्वल है ; वा० मू० ५) प० संसार प्रेस, काशी ।

(५) लोक सेवक*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री बैजनाथ महोदय ; गांधीवादी नीति का समर्थक ; 'विन्ध्यवाणी' (टीकमगढ़) की निगाहों में — "यह" अत्यंन्त ठोस व व्यावहारिक सामग्री से पूर्ण 'हरिजन सेवक' की

कोटि का पत्र है; प्रत्येक अङ्क सुविचारित एवं सात्विक लेखों से 'युक्त रहता है; प्रत्येक राष्ट्रसेवी तथा रचनात्मक कार्यकर्ता को इसका अवलोकन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।" वा० मू० ६) ; प० इन्दौर ।

(१) स्वयंसेवक*—जनवरी १६४८ से प्रकाशित; सं० सर्वश्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, स. वि. इनामदार, वि. म. हार्डीकर, लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय', तथा रमेन्द्र वर्मा; आ० भा० कांप्रेस सेवा दल का मुख्य-पत्र; स्वयंसेवकों के कार्य की रिपोर्ट रहती है; राष्ट्रीय सेवा के लिये युवक वर्ग को तैयार करना ही मुख्य उद्देश्य है; वा० मू० ६), प्रति ॥-२; प० यु० प्राप्त कांप्रेस कमेटी, बालाकदर रोड, लखनऊ ।

पात्रिक

(२) सेनानी*—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री ओमप्रकाश; तरुणों में अनुशासित, क्रियात्मक और उच्चरदायी नागरिकता की भावना पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य; गांधीवादी नीति का पोषक; प० सेनानी प्रेस, अलीगढ़ (यू० पी०)

सामाजिक

(३) उत्थान—१४ फरवरी १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री मातादीन भगेरिया; विशेष रूप से राजपूताना प्रान्त की खबरें रहती हैं; लेखादि साधारण रहते हैं; वा० मू० ६), प्रति २; प० राजस्थान प्रिंटिंग वर्क्स, अदपुर ।

(४) छत्तीसगढ़ केतरी—२६ जनवरी १६४८ से प्रकाशित; सं० सर्वश्री नन्दकुमार दानी, दीपचन्द ढागा; रायपुर जिला कांप्रेस कमेटी का मुख्य-पत्र; वा० मू० ५), प्रति २; प० रायपुर (सी. पी.)

(५) त्वारकमूलि—हाल ही में प्रकाशित; संचा० श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सं० श्री सरस वियोगी; नवनिर्माण की सामाजिक परिवर्तन; सद् १६२८ में भी इसी नाम से उपाध्याय जी द्वारा प्रतिकाल संचालन

किया गया था जो कई वर्ष तक प्रकाशित होती रही, उसमें गांधीवादी विचारधारा को लेकर राजनैतिक लेख ही मुख्यतः रहते थे। वा० मू० ६), प्रति =); प० सस्ता साहित्य प्रेस, अजमेर।

(११) नयासंसार—१८ जून १९४८ से प्रकाशित; सं० श्री सैयद कासिम अली साहित्यालंकार; महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का प्रचार ही मुख उद्देश्य; स्थानीय स्तर पर मुख्य रूप से रहती है; वा० मू० ३), प्रति =); नयासंसार कार्यालय, भोपाल।

(१२) रामराज्य—१९४२ से प्रकाशित; स० सर्वश्री राधवेन्द्र, रामनाथगुप्त; साहित्यिक व सांस्कृतिक लेखों का भी समावेश रहता है; वा० मू० ६), प्रति =); प० आर्यनगर, कानपुर।

(१३) विजय—१७ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० श्री शंकरदत्त शर्मा एम. एल. ए.; सं० श्री सोम शर्मा, सह० सं० श्री शिवचन्द्र नागर; भूतपूर्व सम्पादकों में श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ का नाम उल्लेखनीय है; सरकारी प्रतिबंध के कारण कई बार प्रकाशन स्थगित; १५ अगस्त ४७ से श्री विश्वम्भर 'मानव' के सम्पादन में पुनः प्रारम्भ हुआ; स्थानीय समाचारों के अतिरिक्त लेख भी अच्छे निकलते हैं; मासिक संस्करण निकालने का भी आयोजन हो रहा है; प्राइक संख्या २०००; वा० मू० ६), प्रति =); प० मुरादाबाद।

(१४) विन्ध्यवाणी—११ अक्टूबर १९४८ से प्रकाशित; संस्था० श्री बनारसीदास चतुर्वेदी; सं० श्री प्रेमनारायण खरे; विन्ध्य-प्रदेश के समाचारों के अतिरिक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक लेख भी रहते हैं; कुछ समय पहले ६ वर्षों तक यहाँ से श्री चतुर्वेदीजी के सम्पादन में 'भधुकर' निकलता था, आशा है उस कमी को पूरी करते हुए राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करेगी; अन्य पत्रों से 'चयन' का स्तम्भ भी है; वा० मू० ६), प्रति =); प० कुण्डेश्वर, टीकमगढ़।

(१५) इरियन सेक्यूरिटी—१९३२ से प्रकाशित; संस्था० महात्मा गांधीजी;

सं० श्री किशोरलाल घ० मशुवाला ; गांधीवादी प्रमुख पत्र ; सन् १६४२ में आन्दोलन के समय बन्द रहा ; प्रारम्भ में श्री वियोगी हरि इसके सम्पादक रहे । प्रतिवंध उठने पर श्री प्यारेलाल के सम्पादकत्व में निकला ; बापू के बेहावसान पर कुछ समय प्रकाशन स्थगित रहा और मशुवालाजी के योग्य हाथों में सम्पादन सौंपा गया । पहले गांधीजी के ही लेख प्रमुख थे । इसके अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी संस्करण भी निकलते हैं ; स्तर अब भी कायम है ; भाषा हिन्दुस्तानी ; वा० मू० ६), प्रति ८); नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद ।

(१६) हमारी बात*—४ अक्टूबर १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री गोपीनाथ दीक्षित ; बापू की विचारधारा को जनता में प्रसारित करना व राष्ट्रनिर्माण का कार्य करना ही उद्देश्य है । छपाई-सफाई सुन्दर ; प्रति ।) ; प० ‘हमारी बात’ कार्यालय, लखनऊ ।

अद्व-साप्ताहिक

(१७) ग्राम संसार—१५ जून १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री कमला-पति त्रिपाठी ; ग्रामोपयोगी लेखों के अतिरिक्त समाचार विशेष रूप से रहते हैं ; ग्रामों में बसने वालों के लिए विशेष उपयोगी है ; “बच्चों का संसार” शृष्ट बच्चों के लिए, तथा “मिसिरजी की चिट्ठी” मनोरंजक बातों के लिए, उपयोगी स्थायी स्तम्भ हैं ; वा० मू० १०), प्रति ।।; प० गायघाट, काशी ।

(ख) समाजवादी : पादिक

(१) मजदूर आवाज—४ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; संस्था० श्री जयप्रकाशनारायण ; सं० श्री स्वामीनाथ, सह० सं० श्री बालचन्द्र ‘मुजतर’, दिल्ली प्रेस यूनियन का मुख-पत्र ; वा० मू० ३), प्रति ।। ; प० ‘मजदूर आवाज’ कार्यालय, ओडियन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

साप्ताहिक

(१) अमरज्योति—३० अगस्त से प्रकाशित ; सं० नारायण चतुर्वेदी :

लोकतंत्र की समस्या को लेकर अधिकतर लेख रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति ८), षष्ठि १२ ; चौड़ा रास्ता, जयपुर ।

(३) आदर्श—८ वर्ष से प्रकाशित ; संचा० श्री अवधिकिशोरसिंह ; सं० श्री विश्वनाथसिंह ; सांस्कृतिक लेख भी रहते हैं ; लेखों का चयन भी सुन्दर रहता है ; वा० मू० ७), प्रति १), षष्ठि २० ; प० गोपाल प्रिटिंग प्रेस, १६८/१ कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(४) जनता—१५ अगस्त १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री चिरंजीलाल अग्रवाल ; प्रजातंत्र का पक्षपाती पत्र ; वा० मू० ८), प्रति ८), षष्ठि १२, प० जनता कार्यालय, नाटानियों का रास्ता, जयपुर ।

(५) जनता*—कई वर्ष से प्रकाशित ; समाजवादी पार्टी का मुख्य-पत्र ; श्री रामबृहत् बेनीपुरी सम्पादक रहे । समाजवादी विचारधारा से सम्बद्ध ही लेखादि व कविताएँ रहती हैं ; प० जनता कार्यालय, कदमकुआँ पटना ।

(६) जयहिंद—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री हीरालाल जैन ; सह० सं० श्री हीरालाल ; वा० मू० ५), प्रति १) ; प० जयहिंद कार्यालय कोटा ।

(७) नयायुग—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री योगेन्द्रदत्त शुक्ल ; जनवादी विचारों का पोषक, राजनैतिक विषयों पर ही लेख रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति ८), षष्ठि १२ ; प० रेलवे रोड, फरुखाबाद (य० पी०)

(८) नया हिन्दुस्तान—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्रो किशोररमण ठाकुरप्रसाद, स्वामीनाथ ; किसानों व जनता के हित से सम्बन्धित, राजनैतिक लेखों की प्रमुखता ; वा० मू० ८), प्रति ८)II, षष्ठि २६ ; प० नया हिन्दुस्तान प्रेस, जगतगंज, बनारस ।

(९) निर्भीक—३१ जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; संस्था० बकील रामनारायण ; सं० बाबूलाल 'इन्दु', सह० सं० श्री लक्ष्मीनारायण पटवारी ; जनवादी पत्रिका ; स्थानीय समाचार भी रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति १)III, षष्ठि ४ ; प० जैन प्रेस, कोटा ।

(१०) प्रभात—१५ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० स्व० लाडलीनारायण गोयल; सं० बाबा नृसिंहदास, सह० सं० श्री सरस वियोगी; समाचारों के अतिरिक्त राजस्थान की राजनैतिक समस्याओं पर केन्द्रित लेख रहते हैं; विचार क्रांति का प्रतिपादक पत्र; प्रकाशन कई बार स्थगित भी हुआ; वा० मू० ६), प्रति ८); प० प्रभात कार्यालय, मनोरंजन प्रेस, जयपुर।

(११) युगारम्भ—२६ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री निर्मल-कुमार सुराणा; रियासती हलचल के अन्तर्गत राजस्थान के समाचार भी छपते हैं; वा० मू० ६), प्रति ८), पृष्ठ ८; प० युगारम्भ कार्यालय, चुरू (बीकानेर)

(१२) लोकमत*—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री० अस्वालाल माथुर; जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्र; बीकानेर राज्य से इसका प्रकाशित करना साहस का ही कार्य है; वा० मू० ७), प्रति ८); प० ‘लोकमत’ कार्यालय, बीकानेर।

(१३) वसुन्धरा—गत वर्ष से प्रकाशित; संस्था० श्री जनार्दनराय नागर; प्रथम सम्पादक श्री गिरिधारीलाल शर्मा रहे; बीच में कुछ समय अद्वासामाहिक रूप में भी प्रकाशित; राजस्थान की जागीरदारी प्रथा की विरोधक; अन्य सामयिक विषयों पर भी लेख रहते हैं; वा० मू० ७), प्रति ८), पृष्ठ १२; प० उदयपुर।

(१४) समाज—पहले ‘आज’ के नाम से जुलाई १६३८ से प्रकाशित; १८ जुलाई १६४६ (६ वें वर्ष के प्रारम्भ) से नाम बदल कर ‘समाज’ कर दिया गया; सं० श्री राजवल्लभसहाय; अर्थशास्त्र एवं राजनीति विषय की सभी धाराओं पर मननपूर्ण लेख रहते हैं; ‘पाठकों के पत्र’ शीर्षक में सभी विचारों के पत्र छपते हैं; ‘सामयिक विचार’ स्तम्भ में नेताओं के विचार और ‘अवकाश के दृणों में’ स्तम्भ के अन्तर्गत नए नए विचार, समाचार एवं कभी चुटकियाँ रहती हैं; ‘श्री संगम’ द्वारा लिखित प्रति सप्ताह मीठी चुटकियाँ और व्यंग से परिपूर्ण एक लेख प्रारम्भ में पढ़ने

को मिलता है ; देश-विदेश के संक्षिप्त समाचार तथा ज्योतिष का राशि फल भी प्रकाशित होता है । लेखकों को नियमित रूप से पारिश्रमिक देता है ; वा० मू० १०), प्रति ॥) ; प० सन्त कबीर रोड, काशी ।

(१५) संघर्ष—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री आचार्य नरेन्द्रदेव, दामोदरस्वरूप सेठ, रमाकान्त शास्त्री ; सोशलिएट पार्टी का मुख्य-पत्र ; समाजवादी नेताओं के लेख ही विशेषतः छपते हैं, समाचार भी रहते हैं ; वा० मू० ८), प्रति ॥), पृष्ठ १२ ; प० संघर्ष कार्यालय, लखनऊ ।

अद्वैत सामाजिक

(१६) जीवन*—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ; प्रारम्भ में सामाजिक रूप से निकलता था, अब लगभग दो वर्ष से अद्वैत सामाजिक हो गया है ; इसका संचालन ‘जीवन साहित्य ट्रस्ट’ करता है ; समाजवादी हाइकोण को लंकर ही अधिकांश लेख रहते हैं, स्थानीय समाचार भी छपते हैं ; प० जीवन प्रेस, लक्ष्मण (ग्वालियर)

(ग) उग्र राष्ट्रीय मासिक

(१) विष्वव—अक्टूबर १६३८ से प्रकाशित ; सं० श्री यशपाल ; '३८ में प्रकाशित होकर सरकार द्वारा अधिक जमानत मांग लेने से जून १६४० में प्रकाशन स्थगित करके ‘विष्वव ट्रेक्टों’ का प्रकाशन किया गया परन्तु जून १६४१ में सरकारी प्रतिबन्ध के कारण वह भी बन्द हुआ ; इसके प्रकाशन का ६ वाँ वर्ष चल रहा है ; ‘तुम करो शांति—समता प्रसार, विष्वव ! गा अपना अनल गान !’ यही पत्र का उद्देश्य छपता है ; पहले इसका बहुत प्रचार था । राजनैतिक लेखों के अतिरिक्त साहित्यिक लेखादि भी रहते हैं ; ‘चक्रर क्लब’, ‘चाय की चुस्कियाँ’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं, जिनमें व्यंग की मीठी चुटकियाँ रहती हैं ; इसकी अफसी अलग आवाज है ; वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० विष्वव कार्यालय, लखनऊ ।

साप्ताहिक

(१) कल की दुनिया—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री गणेशचन्द्र जोशी ; सह० सं० श्री जगदोश ‘प्रभाकर’ ; साम्यवाद का परिपोषक, जागीरदारों का कट्टर आलोचक पत्र ; वा० मू० ६॥), प्रति ८, पृष्ठ ८; प० जोधपुर।

(२) जनयुग—१६४२ में ‘लोकयुद्ध’ के नाम से प्रकाशित ; लगभग दो साल से इसका नाम बदल लिया गया ; सं० श्री बी. एम. कौल ; श्री पूरन-चन्द्र जोशी पहले इसके सम्पादक रहे ; हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य-पत्र ; यद्यपि अपने पक्ष के समाचार जरा अतिशयोक्तिपूर्ण रहते हैं सम्पादन व प्रकाशन का ढंग प्रशंसनीय है ; वा० मू० ६॥), प्रति ८; प० जनयुग कार्यालय, राजभवन, सैण्डहस्ट रोड, बम्बई।

(घ) अग्रगामी : साप्ताहिक

(१) अभ्युदय*—१६०७ में महामना मालवीयजी के संरक्षण में प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्पादक रहे ; पहले यह कांप्रेस की नरम दल नीति का पक्षपाती था ; बीच में प्रकाशन कई बार स्थगित भी हुआ। श्री० कृष्णकान्त मालवीय के सम्पादन में इसने बहुत उन्नति की ; इसने नेताजी (श्री सुभाषचन्द्र बोस) के जीवन, मिशन और आचाद हिन्दू फौज के सम्बन्ध में कई विशेषाङ्क प्रकाशित किए। राज-नैतिक लेखों के साथ साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; प० अभ्युदय प्रेस, ग्राम।

अद्वैत साप्ताहिक

(१) संग्राम—इसी वर्ष से प्रकाशित ; संचार० व सं० श्री विश्वम्भर-दयालु त्रिपाठी ; सह० सं० श्री प्रभुदयाल शुक्ल ; लेखादि साधारण रहते हैं ; स्थानीय समाचार भी छपते हैं ; वा० मू० १२॥), प्रति ८, पृष्ठ १२; प० शुक्ल प्रेस, उज्जाव (यू० पी०)

(ङ) हिन्दू राष्ट्रवादी : मासिक

(१) अद्वानन्द*—१८ वर्ष से प्रकाशित ; हिन्दू हितों का समर्थक ; सामाजिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ५), असमर्थ नए ग्राहकों से ३); प० 'श्रद्धानन्द' कार्यालय, दिल्ली ।

साप्ताहिक

(२) अरुणोदय—१६३५ से प्रकाशित ; सं० श्री आदित्यकुमार वाजपेयी ; हिन्दू महासभाई नीति का समर्थक ; सरकारी नीति का आलोचक ; दीच में प्रतिबंध लग जाने से प्रकाशन कई बार स्थगित ; वा० मू० ६॥), प्रति ३; प० हिन्दू राष्ट्र पब्लिकेशन्स, इटावा (य० पी०)

(३) आकाशवाणी*—सात वर्ष से प्रकाशित ; १६२२ में संस्था० स्व० भाई परमानन्द ; प्रधान सं० श्री धर्मवीर एम. ए., भं० श्री विद्यारथ 'धीर' ; प० 'आकाशवाणी' कार्यालय, गोपालनगर, जालंधर (पूर्वी पंजाब)

(४) एकता—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्रीप्रह्लाददास काकानी ; राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का पक्षपाती पत्र ; वा० मू० ६), प्रति ३; प० 'एकता' कार्यालय, ढाबा रोड, उज्जैन ।

(५) चेतना—आश्विन कृष्णा द, रविवार, सं० २००५ से प्रकाशित ; सं० श्री राजाराम द्विविड़ ; हिन्दू राष्ट्रवाद का समर्थक ; सांस्कृतिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० १०), प्रति ३; पृष्ठ १६; प० चेतना कार्यालय, आस भैरव, काशी ।

(६) पाञ्चजन्य—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री राजीवलोचन अग्रिहोत्री ; हिन्दू राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की नीति का पक्षपाती ; 'लोक वाणी' शीर्षक से पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं ; वा० मू० १०), प्रति ३; पृष्ठ १६; प० पाञ्चजन्य कार्यालय, सदर बाजार, लखनऊ ।

(७) युगधर्म—२५ जुलाई १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री कौशलराय ; 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान' का कट्टर समर्थक ; वा० मू० ६), प्रति ३; बाकर रोड, नागपुर ।

(८) शंखनाद—५ नवम्बर १९४७ से प्रकाशित ; सं० श्री नथमल शर्मा, द्वार्घीय स्वयं सेवक संघ का हिमायती ; ‘भंग की तरंग’ शीर्षक में व्यंग्य अच्छे रहते हैं ; प्रतिबंध के कारण कुछ समय के लिए प्रकाशन स्थगित भी हुआ ; वा० मू० ६॥), प्रति ८; प० फैन्सी बाजार, गोहाटी (आसाम)

(९) हिन्दू—४ दिसम्बर १९३५ से प्रकाशित ; प्रारम्भ से ही सं० ३० हरिश्चन्द्रसिंह भाटी; सह० सं० ऋषिगोपाल शास्त्री ‘स्वतन्त्र’ ; हिन्दुओं और बिशेषतः ज्ञात्रिय जाति का संगठन ही इसका मन्तब्य है ; वा० मू० ५, प्रति ३॥, प० हरद्वार।

(च) किसान व मज़दूरः सामाहिक

(१) किसान*—गत वर्ष से प्रकाशित, सं० सर्वभी राजाराम शास्त्री, कृष्णविहारी अघस्थी, कमलदेव शर्मा ; वा० मू० ६), प० कानपुर।

(२) किसान संदेश—२ वर्ष से प्रकाशित, सं० श्री शिवदयाल राजावत ; वा० मू० ५), प्रति २॥ ; प० कोटा।

(३) पंचायती राज*—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री विश्वम्भर-सहाय ‘प्रेमी’ ; मज़दूर और किसानों को समस्याओं को लेकर लेख प्रकाशित होते हैं ; राष्ट्र के सभाज सम्बन्धी कार्यों का विशेष विवरण प्रकाशित होता है ; वा० मू० ६), प्रति २॥, प० मेरठ।

(४) लोकसुधार—२४ अक्टूबर १९४७ से प्रकाशित ; संचा. तथा सस्था. चौ० खलदेवराम मिरदा (आपने उच्च सरकारी पदों को त्यागकर पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया है तथा राजपूताने में किसानों का यह एक मात्र प्रतिनिधि पत्र चालू किया) : सं० कु० रामकिशोर, प्रारम्भ में श्री यशोराज शास्त्री के सम्पादन में निकला ; गाँवों में बसने वाले किसानों व दूसरी जातियों में राजनैतिक चेतना का अप्रदूत ; किसानों और जागीरदारों द्वे प्रश्न को लेफ्ट प्रत्येक अंक में लेख रहते हैं ; वा० मू० ५) प्रति २॥, प० चोपासनीरोड, जोधपुर।

(छ) सरकारी पत्र : मासिक

(१) आजकल—मई १६४५ में श्री अनन्त मराल शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित, वर्तमान सं० श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, सह० सं० सर्वश्री करुणा-शंकर पटेल्या, केशवगोपाल निगम ; सचित्र रूप से आर्ट पेपर पर प्रकाशित; यह पत्र सरकारी होते हुए भी साहित्यिक सामग्री, विशेषकर कलात्मक लखों से भरपूर रहता है ; ‘नई पुस्तकें’, ‘देश विदेश’, ‘चिट्ठी पत्री’ ‘चयनिका’ आदि विशेष स्तम्भ हैं। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखे लेख रहते हैं ; प्रारम्भ में ही लखों का परिचय भी रहता है, इसके ‘नववर्षांक’ तथा ‘गांधी अंक’ विशेषांक सुन्दर निकले हैं। इसमें विज्ञापन नहीं लिये जाते ; कम मूल्य में उत्कृष्ट सामग्री प्रस्तुत करना इसकी विशेषता है ; वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ४८ ; प० प्रकाशन विभाग, ऑल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली ।

(२) नयायुग*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री अनन्तप्रसाद विद्यार्थी किसानों को खेती, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि विषयों की जानकारी देने वाला यह सचित्र मासिक है ; कई वर्ष पूर्व एक पत्र ‘हल’ सरकार द्वारा निकला था, वैसा ही यह पत्र भी कहा जा सकता है ; प० सूचना विभाग, संयुक्तप्रान्त सरकार, लखनऊ ।

(३) विहार—नवम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री नन्दकिशोर तिवारी ; आर्ट कागज पर मुद्रित यह विहार सरकार का मुख्य-पत्र है ; प्रान्त की आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक व कृषि सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है ; तिवारीजी के सुयोग्य हाथों में यह पत्र सुन्दरतापूर्वक सम्पादित हो रहा है। २००० प्रतियाँ छपती हैं ; वा० मू० ५) ; प० प्रकाशन विभाग, विहार सरकार, पटना ।

(४) विश्वदर्शन—अगस्त १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ; आर्ट कागज पर मुद्रित, यह सचित्र पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परिचित कराता है ; अंतर्राष्ट्रीय व्यंग चित्रों के अतिरिक्त सामाजिक लेख

भी रहते हैं ; कम मूल्य में अहुत उपयोगी सामग्री दे रहा ; शीघ्र ही मासिकों में इसका ऊँचा स्थान बन जायगा ; वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ४८ ; प० पब्लिकेशन डिविजन, ऑल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली ।

पात्रिक

(५) प्रकाश—१६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० ठा० अर्जुनसिंह ; यह रीवाँ राज्य का मुख्य पत्र है ; विन्ध्य-प्रदेश की खबरें ही मुख्यतः रहती हैं ; सरकारी विज्ञापियाँ व अन्य विज्ञापन भी काफी रहते हैं ; कभी-कभी साहित्यिक लेख भी निकलते हैं ; विजयादशमी के अवसर पर प्रति वर्ष इसने उपयोगी विशेषांक निकाले हैं ; 'विधानाङ्क' भी अच्छा निकला था ; हाल ही में 'विन्ध्यप्रदेश अङ्क' विशेषांक प्रकाशित हुआ है जो सुन्दर है ; वा० मू० ३), राजाओं से ११), प्रति -॥) ; प० रीवाँ (स्टेट)

(६) प्रकाश—गांधी जयंती, २ अक्टूबर १६४८ से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्री डा० रामकुमार बर्मी, सह० स० सर्वश्री इन्द्रबहादुर खरे, जीवन नायक, मू० ८० प० भीसीकर, शरत्चन्द्र मुक्तिबोध ; आर्ट कागज पर छपा, मध्यप्रान्त और बरार सरकार के समाज-शिक्षा विभाग का सचित्र पत्र है ; ग्रामोन्नति और समाज का नवनिर्माण ही ध्येय है ; लेखादि अच्छे हैं ; वा० मू० ५), प्रति ॥-॥) ; प्रकाशक—डा० वेणीशंकर भा, संचा० शिक्षा-विभाग, मध्यप्रान्त और बरार, नागपुर ।

(७) प्रदीप—१५ मई १६४८ से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्री वीरेन्द्र ; सं० सर्वश्री एल० आर० नायर, रजनी नायर ; आर्ट कागज पर छपा यह सचित्र पत्र, प्रति पक्ष पंजाब की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है ; शरणार्थियों के समाचारों के अतिरिक्त साहित्यिक लेख भी निकलते हैं ; उच्च लेखकों का सहयोग प्राप्त है ; प्रत्येक लेख पर पारिश्रमिक भी दिया जाता है । स्वाधीनता अङ्क सुन्दर निकला है ; वा० मू० ४॥), प्रति ॥) ; प० डाइरेक्टर पब्लिसिटी, पूर्वी पंजाब, शिमला ।

(८) भारतीय समाचार—१ मई १६४० से प्रकाशित ; [सं० श्री सोमेश्वरदयाल, ए० एस० आयंगर ; प्रतिमास १ और १५ तारीख को नियमित रूप से निकलता है ; इसका उहैश्य भारत सरकार के प्रधान कार्यों का सारांश सुविधाजनक रूप में उपस्थित करना है ; इसमें बाहर के लेख नहीं छपते ; पत्र निःशुल्क निकलता है किन्तु निकट भविष्य में ही यह केवल मूल्य पर ही मिल सकेगा ; इसका अंग्रेजी संस्करण भी निकलता है ; प० प्रिंसिपल इन्फार्मेशन आफिसर, प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो, रायसीनारोड़, नई दिल्ली ।

(९) विजय—४ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव ; दतिया राज्य के प्रकाशन विभाग द्वारा निकलता है ; प्राम व नगर में आर्थिक व सांस्कृतिक प्रचार ही उहैश्य है ; वा० मू० २), प्रति २॥ ; प० गोविन्द स्टेट प्रेस, दतिया ।

(१०) संयुक्तप्रान्तीय समाचार—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री जगमोहन मिश्र ; प्रान्त की विभिन्न प्रगतियों पर प्रकाश डालते हुए सूचना देता है ; ‘स्वतंत्रता दिवस अङ्क’ सुन्दर निकला है ; निःशुल्क प्रकाशित ; प० प्रकाशन विभाग, संयुक्तप्रान्तीय सरकार, लखनऊ ।

साप्ताहिक

(११) सूचना—२७ मार्च १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री मगनलाल दिनेश ; भोपाल राज्य का हिन्दी में प्रकाशित-पत्र ; स्थानीय समाचार रहते हैं ; पत्र लीथो प्रेस में छपता है ; वा० मू० ५, प्रति १॥ ; प० पब्लिक इन्फार्मेशन प्रेस, भोपाल ।

(ज) राष्ट्रीय पत्र : मासिक

(१) जनसेवक—अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री उदयनारायण शुक्ल ; राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र एकता का पत्र ; स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों का परिचय, शरणार्थी समस्या आदि पर लेख रहते हैं ; ‘बालपरिवार’, ‘देश विदेश’ स्तम्भ भी हैं ; वा० मू० ४॥), प्रति १॥ ; जनसेवक कार्यालय, मेरठ ।

साप्ताहिक

(२) अलवर पत्रिका—५ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री मोदी कुँजबिहारीलाल गुप्त ; मत्स्यराज्य की राष्ट्रीय पत्रिका ; स्थानीय समाचार भी रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति ८० ; प० अलवर प्रेस, अलवर ।

(३) आलोक—श्रावण कृष्णा १४, सं० २००४ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री हरिनारायण शर्मा, ताराचन्द यादव ; वा० मू० ६), प्रति ८० ; शृष्ट संख्या कम रहती है ; प० सीतावर्डी, नागपुर ।

(४) कर्मभूमि—१६ फरवरी १६३६ से प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री भक्तदर्शन, तथा श्री भैरवदीन धुलिया सम्पादक रहे ; वर्तमान सं० सर्वश्री भक्तदर्शन, ललिताप्रसाद नैथाणी, भैरवदीन धुलिया ; गढ़वाल के समाचार ही मुख्यतः रहते हैं ; १६४२ में देशब्यापी आनंदोलन के कारण प्रकाशन स्थगित रहा ; वा० मू० ५) ; प्रति ८० ; प० कर्मभूमि कार्यालय, लेण्डसडौन (गढ़वाल-यू. पी.)

(५) कर्मवीर—१६२६ से प्रकाशित ; इसके पूर्व भी १६१६ से प्रारम्भ होकर कई वर्ष तक जबलपुर से निकलता था ; पुन खण्डवा से स्व० श्री विष्णुदत्त शुक्ल तथा स्व० श्री माधवराव सप्रे की स्मृति में प्रकाशित ; प्रारम्भ से ही सं० श्री मास्तुलाल चतुर्वेदी ; आज यद्यपि इसका स्तर गिरा है ; लेकिन देश के राष्ट्रीय संग्राम में इसका बहुत हाथ रहा है ; मध्यप्रान्त के समाचार भी विशेषतः इसी से मिलते हैं ; टिप्पणियाँ जोरदार रहती हैं ; वा० मू० ५), प्रति ८० ; प० कर्मवीर प्रेस, खण्डवा (सी. पी.)

(६) नवभारत—३ जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री परशुराम नौटियाल ; सर्वतोमुखी विकास, प्रगति का परिचायक सचिव साप्ताहिक ; 'नारी जगत', 'पिछला सप्ताह', 'हास परिहास' आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; लेखादि का चयन, गेटअप व छपाई सुन्दर ; वा० मू० ८), प्रति ८० ; सं० कार्यालय—पो० ब०० ६६०७, शान्ताक्रूज, बम्बई २३ ; प० ३८, प्रोस्पेक्ट बम्बर्स, होर्नबी रोड, फोर्ट, बम्बई ।

(७) नवराष्ट्र—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री शिवकुमार शर्मा, सह० सं० श्री मुरारीसिंह ; स्थानीय लेखरों के अतिरिक्त सामान्य साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति =); प० बिजनौर (यू० पी०)

(८) नवशक्ति—१६३४ में श्री देवब्रत शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित ; वर्तमान सं० श्री युगलकिशोर सिंह ; ‘अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र’ और नारी जगत स्थायी स्तम्भ हैं ; सामग्री का संकलन अच्छा रहता है ; प्रमुख साप्ताहिकों में एक ; वा० मू० ७), प्रति =॥ ; पृष्ठ २० ; प० नवशक्ति प्रेस, पटना !

(९) नवाराजस्थान—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रामनारायण चौधरी, ‘राजपूताने का घटना चक्र’ स्थायी स्तम्भ है ; सम्पादकीय टिप्पणियाँ महत्त्वपूर्ण रहती हैं ; प० अजमेर।

(१०) नवज्योति*—कई वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, राजपूताने के समाचारों के अतिरिक्त कई लेख अच्छे भी रहते हैं ; प० केशरगंज, पो० बा० ७२, अजमेर।

(११) नवजीवन—१६३६ से प्रकाशित ; सं० श्री कनक मधुकर ; दिसम्बर १६३५ में पहले इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था ; सामग्री साधारणतः सुन्दर रहती है ; वा० मू० ६), प्रति =); प० उदयपुर।

(१२) नवयुग संदेश*—अक्टूबर १६४५ में श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी के सम्पादन में निकला ; १६४७ में कुछ समय प्रकाशन बन्द रहा ; वर्तमान सं० श्री सांबलप्रसाद चतुर्वेदी ; सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; भरतपुर राज्य में जन-आनंदोलन जाग्रत करने में प्रमुख भाग लिया ; प० भरतपुर।

(१३) प्रजामित्र—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री तारानाथ रावल, बीकानेर से प्रकाशित होने वाला यह सर्व प्रथम राजनैतिक पत्र है। प्रेस की सुविधा न रहने से पत्र जयपुर में छपता है, अतः ‘प्रकाशन अनियमित’। यह पत्र पर भी लिखा रहता है ; सम्पादकीय टिप्पणियाँ जोरदार रहती हैं ; वा० मू० ५), प्रति =), पृष्ठ २५ ; प० बीकानेर।

(१४) प्रजापुकार*- १६४६ से प्रकाशित ; संस्था० श्री व्य० दा० पुस्तके ; सं० सर्वश्री व्यम्बक सदाशिव गोखले, श्यामलाल पाण्डवीय ; गवालियर से प्रकाशित निर्भीक राष्ट्रीय पत्र ; साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; प० लक्षण (गवालियर)

(१५) प्रजासेवक*—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा ; जोधपुर में जन जाग्रति का अधिकांश श्रेय इसी पत्र को है ; ‘गांधी जयन्ती विशेषाङ्क’, ‘युद्ध विशेषाङ्क’, ‘आजाद हिन्द अङ्क’, ‘देशी राज्य अङ्क’ आदि कई विशेषाङ्क उल्लेखनीय निकले ; प० जोधपुर ।

(१६) प्रताप*—१६१३ से प्रकाशित ; संस्था० स्व० श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ; विद्यार्थीजी के समय में प्रमुख सामाहिक रहा ; देश के राजनैतिक आन्दोलन को प्रगति देने में काफी हिस्सा लिया ; सामयिक समस्याओं के अतिरिक्त साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; स्थानापन्न सं० सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य प० प्रताप प्रेस, कानपुर ।

(१७) महाकौशल—२ वर्ष से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्री अबिंका-चरण शुक्ल ; सं० श्री स्वराजप्रसाद द्विवेदी ; ‘लोकवाणी’ स्तम्भ भी है ; महाकौशल प्रान्त की खबरों के अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री भी रहती है ; वा० मू० ५) प्रति =), प० महाकौशल प्रेस, रायपुर (सी० पी०)

(१८) युगान्तर*—१६४१ से प्रकाशित ; सं० श्री रामकुमार शुक्ल ; प्रारम्भ में श्री वीरभारतीसिंह इसके सम्पादक रहे ; राष्ट्र निर्माण अङ्क आदि कई विशेषाङ्क निकले ; स्थानों खबरें भी रहती हैं ; टिप्पणियाँ मार्मिक छपती हैं ; प० गांधी नगर, कानपुर ।

(१९) योगी*—१६३३ से प्रकाशित ; आरम्भ से ही श्री ब्रजशंकर प्रधान सं० रहे ; आज के प्रसिद्ध राष्ट्रीय सामाहिकों में इसकी गणना की जाती है, टिप्पणियाँ बड़ी मार्मिक और सामयिक होती हैं ; राष्ट्र की सभी सेवा कर रहा है, वा० मू० ६), प० योगी प्रेस, पटना ।

(२०) राष्ट्रपताका—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री मदनलाल काबरा ।

आर्थिक, सामाजिक विषय पर भी लेख छपते हैं, वा० मू० ६), प्रति ३), प० राष्ट्रपताका कार्यालय, जोधपुर ।

(२१) लोकवाणी—११ फरवरी १६४२ से स्व० श्री जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित ; कई वर्षों से सं० श्री पूर्णचन्द्र जैन ; सर्वश्री राजेन्द्र-शंकर भट्ट व शिवबिहारी तिवाड़ी भूतपूर्व सम्पादक रह चुके हैं ; ‘जमनालाल बजाज अङ्क’ व ‘राजस्थान निर्माण अङ्क’ आदि विशेषाङ्क निकले । गांधी-वादी नीति का कठूर समर्थक ; लेखों का चयन सुन्दर रहता है, ‘बाल भारत’ स्तम्भ भी है ; पिछले चार मास से अब यह दैनिक लोकवाणी के साथ भी ग्राहकों को मिलता है ; वा० मू० ४) ; प० युगान्तर प्रेस, जयपुर ।

(२२) वीर अर्जुन—१६३४ सं प्रकाशित ; १६४२ में सरकारी प्रतिबंध के कारण बंद होगया, तत्पश्चात १६४५ से प्रकाशन पुनः प्रारम्भ हुआ ; सं० श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, सह० सं० चितीशकुमार वेदालंकार ; इसके संचार पहले श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति थे, बाद में ७ मई १६४० को श्री श्रद्धानन्द पद्मिनीशन्स, लिमिटेड कम्पनी की स्थापना पर संचालन उसी के पास चलागया ; ‘आधी दुनियां’ नारी समस्या और ‘गाएँव के तीर’ विषयक लेखों के स्तम्भ हैं ; यह स्वतन्त्र विवार प्रधान सचिव साम्राज्यिक है ; आर्य समाज की ओर मुकाब ई ; राष्ट्रभाषा हिन्दी का समर्थक, धारा-भाजिक उपन्यास भी प्रकाशित ; पहेली भी रहती है ; उत्कृष्ट साम्राज्यिकों में इसकी गणना है ; ‘रजत जयन्ती अङ्क’ भी प्रकाशित हुआ, अन्य कई विशेषांक भी निकले, वा० मू० ८), प्रति २) ; प० श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

(२३) शक्ति—२६ वर्ष से प्रकाशित ; १६१४ विजयादशमी को प्रथम अङ्क प्रकाशित हुआ ; प्रारम्भ में सं० श्री बद्रीदत्त पाण्डे रहे ; संरक्षक श्री गोविन्दवल्लभ पंत ; वर्तमान सं० श्री पूर्णचन्द्र तिवारी ; १६४२ से १६४६ तक पत्र (कार्यकर्ताओं के जेल में रहने के कारण) का प्रकाशन स्थगित रहा ; स्थानीय खबरें अधिक रहती हैं ; वा० मू० ६), प्रति २) प० देशभक्त प्रेस, लिमिटेड, अलमोड़ा (य० पी०)

(२४) स्वतन्त्र भारत—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री कृष्णाद्याल ; अलवर कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित ; मत्स्यप्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय ; वा० मू० ६), प्रति =) प० अलवर ।

(२५) स्वराज्य*—१९३१ से प्रकाशित ; संस्था० स्व० सिद्धनाथ माधव आगरकर ; श्री आगरकरजी के समय में प्रमुख राष्ट्रीय साप्ताहिक रहा ; आज कल उनके सुपुत्र श्री यशवंत आगरकर संपादन कर रहे हैं ; इसमें छपाई काका कालेलकर द्वारा आविष्कृत वर्ण-लिपि से होती है, (इसका मराठी संस्करण भी निकलता है) स्थानीय खबरें ही प्रमुख रहती हैं ; प० स्वराज्य प्रेस, खण्डवा (सी० पी०)

(२६) सैनिक—२४ वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० तथा आदि सम्पादक श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ; वर्तमान सं० श्री शान्तिप्रसाद पाठक ; देश के राष्ट्रीय संग्राम में इसने बहुत योग दिया है ; प्रतिबंध लग जाने से कई बार प्रकाशन स्थगित भी हुआ ; ‘बालसाहित्य’, ‘समाज की डायरी’, ‘संवाद-दाताओं की कलम से’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; स्तर अभी तक कायम रखा है ; श्री पालोवालजी को टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती थीं ; इसकी लोक-प्रियता उत्कृष्टता का प्रमाण है ; वा० मू० ५), प्रति =) पृष्ठ २०; प० सैनिक प्रेस, आगरा ।

(२७) संगम—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री इलाचन्द्र जोशी ; साप्ताहिक समाचार, नारी निष्कमण, पुस्तक परिचय आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; उच्च कोटि के लेख, कहानी आदि हर अंक में पढ़ने को मिलते हैं ; इस सचित्र साप्ताहिक ने अल्पकाल में ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है ; सुयोग्य हाथों में पत्र का सम्पादन एक विशेषता लिए रहता है । वा० मू० १२), प्रति () , पृष्ठ ४० ; प० लीडर प्रेस, प्रयाग ।

(२८) संसार—१९४३ में श्री बाबूराव विष्णु पराडकर द्वारा संस्थापित ; सं० सर्वश्री कमलापति त्रिपाठी, काशीनाथ उपाध्याय ‘ध्रमर’ ; कांग्रेसी नीति का समर्थक यह पत्र साप्ताहिकों में प्रमुख स्थान रखता है ;

‘एक साहित्यिक आवारा’ द्वारा लिखित छेड़छाड़ में अच्छी चुटकियाँ रहती हैं ; श्री ‘बेधड़क बनारसी’ निधड़क प्रति सप्ताह ही लिखते हैं ; साप्ताहिक राशि फल भी निकलता है ; सामयिक समस्याओं पर लेख अच्छे रहते हैं ; टिप्पणियाँ भी प्रभावपूर्ण होती हैं । इसके ‘क्रांति अङ्क’, ‘जेल अङ्क’, ‘हैदराबाद अङ्क’ आदि विशेषाङ्क साहित्य की स्थायी निधि हैं । वा० मू० ८), प्रति -)॥ ; प० संसार प्रेस, काशी ।

(२९) हुंकार*—१६४३ से प्रकाशित ; सं० श्री यमुना कार्यी ; पहले यह किसान सभा का पत्र था ; श्री स्वामी सहजानन्दजी ने ‘लोक संग्रह’ बन्द होने पर इसकी स्थापना की थी ; बिहार प्रान्त का प्रमुख साप्ताहिक ; प्रान्त की खबरों के अतिरिक्त राजनैतिक व साहित्यिक लेख भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं ; कम मूल्य में ही उपयोगी सामग्री देता है, समय पर निकलना इसकी विशेषता है ; राष्ट्रीय आनंदोलन में काफी योग दिया ; वा० मू० ५), प्रति -) ; हुंकार, प्रेस, बांकीपुर, पटना ।

अर्द्ध साप्ताहिक

(३०) शुभचितक—विजयादशमी सन् १६३७ से प्रकाशित ; स्व० श्री शंकरलाल की स्मृति में प्रकाशित ; संचा० श्री बालगोविन्द गुप्त ; सं० श्री नर्मदाप्रसाद खरे ; प्रारम्भ में तीन वर्ष तक श्री मंगलप्रसाद विश्वकर्मा ने सम्पादन किया ; पहले साप्ताहिक था, अब लगभग ५-६ वर्षों से अद्वीतीय साप्ताहिक बन गया है ; ‘जबलपुर की खबरें’, ‘नवीन प्रकाशन’ स्थायी स्तम्भ हैं ; मध्यप्रान्तीय राजनैतिक हलचलों का संदेशवाहक प्रमुख पत्र ; पठनीय साहित्यिक सामग्री भी रहती है ; साप्ताहिक राशि फल भी निकलता है ; वा० मू० ५), प्रति -)॥ ; प० शुभचितक प्रेस, जबलपुर ।

(भ) सामान्य : मासिक

(१) कल्पौज समाचार—१० वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री अनीसुल रहमान ; एक-आध लेख के अतिरिक्त सारा पत्र बेनीराम मूलचन्द इत्र बचने वाले के विज्ञापनों से भरा “रहता है ; यह उन्हीं के द्वारा प्रकाशित भी होता

है ; इस प्रकार के पत्रों से देश को कोई लाभ नहीं, यद्यपि पत्र पर 'प्रगति-शील राष्ट्रीय' मासिक' अंकित रहता है ; वा० मू० १॥), प्रति ८), प० कन्नौज (य० पी०)

(२) कमल—३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री चन्द्रशेखर शर्मा ; सह० सं० श्री कृष्णचन्द्र मुद्गल ; कुछ अच्छे लेखों के अतिरिक्त सिनेमा संबंधी चित्र व समाचार ही मुख्य रहते हैं। वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० कमल कार्यालय, वकीलपुरा, दिल्ली ।

(३) भारती—जून १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री नागेश्वर, सह० सं० कुमारी ब्रजदेवी ; पुस्तकाकार प्रकाशित इस पत्रिका में राजनैतिक सामग्री काफी रहती है ; 'आल-संसार' बच्चों के लिए सुरक्षित पृष्ठ हैं ; वा० मू० ४॥), प्रति ८), पृष्ठ ६० ; प० भारती कार्यालय, ए ४/१३ तिथिया कालेज, करोलबाग, दिल्ली ।

पादिक

(४) प्रजासित्र—२॥ वर्ष से प्रकाशित ; संचा० श्री दौलतराम गुप्त, सं० श्री हरिप्रसाद 'सुमन', सह० सं० श्री विद्याधर ; हिमाचल प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय पत्र ; प्रादेशिक खबरें ही प्रमुख ; वा० मू० ३), प्रति ८), पृष्ठ ४ ; प० रामा प्रेस, चम्बा ।

साप्ताहिक

(५) अंकुश—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री लक्ष्मीनारायण गौड़ 'विनोद', 'इधर उधर' हास्य का अच्छा स्तम्भ है ; गजलें भी प्रकाशित होती हैं ; वा० मू० ४), प्रति १) ; प० लालमणि प्रेस, फर्रुखाबाद (य०. पी.)

(६) जागृति—११ वर्ष से प्रकाशित ; प्रारम्भ से ही सं० श्री जगदीशचन्द्र 'हिमकर', सह० सं० श्री महावीरप्रसाद शर्मा 'प्रेमी' ; पहले यह आर्य समाजिक पत्र था और प्रचार भी बहुत था ; लेख, कवितादि

साधारण रहती हैं ; वा० मू० ६), प्रति ≡), प० २४, बनारस रोड, सलकिया, हवड़ा ।

(७) ताजातार—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री राजेन्द्रकुमार 'दीक्षित' ; स्थानीय समाचार ही रहते हैं और विज्ञापनों की भरमार ; वा० मू० ४॥), प्रति १॥ ; प० शंकर प्रेस, बेलनगंज, आगरा ।

(८) तिरहुत समाचार*—मुजफ्फरपुर से प्रकाशित सन् १६०८ से निकलने वाला यह विहार का सबसे पुराना साप्ताहिक है ।

(९) राष्ट्रपति—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० आचार्य मंगलानन्द गौतम, श्री मंगलदेव प्रभाकर ; साधारण समाचार रहते हैं ; लेखादि भी साधारण ; प्रति, ।), पृष्ठ २० ; प० नई सड़क, (रोशनपुरा) दिल्ली ।

(१०) लोकमत—६ दिसम्बर १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री वेंकटेश पारीख ; शेखावाटी प्रान्त की खबरें ही प्रमुख ; दैनिक पत्र के आकार में निकलता है ; वा० मू० ८), प्रति ≡), प० सीकर (जयपुर)

(११) लोकमित्र—३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री सुरेशचन्द्र 'वीर' ; 'पाण्डेजी का पत्र' और 'रसगुल्ला' चुटकियों के अच्छे स्तम्भ हैं ; वा० मू० ३), प्रति ≡), पृष्ठ ८ ; प० वीर प्रिंटिंग प्रेस, फीरोजाबाद (यू० पी०)

(१२) विक्रम—५ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रमापति शर्मा ; प्रारंभ में श्री पाण्डेय बेचन शर्मा उप्र ही सम्पादक रहे ; १६४२ के आन्दोलन में बन्द रहा । उग्रजी के समय में यह स्वतंत्र विचार-पत्र के रूप में साप्ताहिकों में विशिष्ट स्थान रखता था ; राष्ट्रभाषा हिन्दी का पक्षपाती ; राशि फल भी छपता है ; वा० मू० ६), प्रति ≡) ; प० विक्रम प्रिंटरी, गोविन्दबाड़ी, कालबादेवी, बम्बई ।

(१३) विजय—१३ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री सत्यकाम विद्यालंकार, सह० सं० श्री शक्ति दत्ता ; २५ वर्ष पूर्व श्री स्वामी श्रद्धानन्द ने उदू 'तेज' की स्थापना की थी ; तेज लिमिटेड द्वारा ही श्री देशबंधु-दास द्वारा इसका सञ्चालन होता है ; 'सम्पादक की डाक', 'जिनकी चर्चा

है' आदि स्तम्भ विशिष्ट हैं; सम्पादकीय टिप्पणियाँ शुद्ध हिन्दी में लिखी गयीं, अपना अलग महत्व रखती हैं; कविता व कहानियों का चुनाव भी सुन्दर रहता है। प्रथम अङ्क ही इस सचित्र सामाहिक के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है; 'स्वतंत्रता अङ्क' भी अच्छा निकला है; प्रति ३१; प० बिजय प्रेस, नया बाजार, दिल्ली।

(१४) विश्वमित्र—३१ वर्ष से प्रकाशित; संचार श्री मूलचन्द्र अग्रवाल; सं० श्री प्रदीप; कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय पत्रों में इसका स्थान ऊँचा था पर आज इसका स्तर गिरा है; छपाई-सफाई पर भी ध्यान नहीं; संभवतः इसीलिए निकल रहा है कि 'विश्वमित्र' का सामाहिक संस्करण निकलते रहना ही चाहिए; 'विश्वमित्र-संचालक की कलम से' में मूलचन्द्रजी के लेख रहते हैं, जो प्रायः प्रति सप्ताह निकलता है; 'अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच' में विदेशों की राजनीति पर प्रकाश डाला जाता है; एक अङ्क में पृष्ठ अवश्य अधिक रहते हैं; वा० मू० ६), प्रति २१, पृष्ठ ३२; प० ७४, धर्मतज्ज्ञा स्ट्रीट, कलकत्ता।

(१५) स्वतंत्र—१६२१ से प्रकाशित; सं० श्री 'शिवदर्शी'; यह स्व० जगदीशनारायण रूसिया की स्मृति में निकलता है; इस पत्र का भी राष्ट्रीय पत्रों में विशिष्ट स्थान रहा है; अपना स्तर अब भी कायम रखे हैं पर अब विशेषतः साहित्यिक, सामाजिक लेख ही रहते हैं। 'साहित्य समालोचना', 'भृद्युक्तश' और 'बाल-जगत' स्थायों स्तम्भ हैं। सामाहिक राशि फल भी रहता है। सामयिक समस्याओं पर टिप्पणियाँ अच्छी रहती हैं; वा० मू० ७), प्रति २१, पृष्ठ २०; प० स्वतंत्र जर्नल्स लिं०, झाँसी।

(१६) स्वाधीन*—१६२१ में श्री वृन्दावनलाल वर्मा द्वारा संचालित व सम्पादित; सं० सर्वश्री सत्यदेव वर्मा, लालाराम वाजपेयी; प० स्वाधीन प्रेस, झाँसी।

(१७) सिपाही—२ अक्टूबर १६४७ से प्रकाशित; सं० श्री कृपाशंकर पाठक, सह० सं० श्री स्वामी कृष्णानन्द; सागर जिले की खबरें ही विशेषतः

प्रकाशित ; कांग्रेसी नीति का समर्थक ; शिक्षा सम्बन्धी लेख भी रहते हैं ;
वा० मू० ५॥), प्रति =), पृष्ठ ८ ; प० सागर (सी० पी०)

आद्वं साप्ताहिक

(१८) जयाजी प्रताप*—११ जनवरी १६०५ से प्रकाशित ; सं० श्री शम्भूनाथ सक्सेना ; प्रारम्भ में यह साप्ताहिक रूप से निकला था, (१६१६ में) महायुद्ध के समय में दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ था और पुनः कई वर्षों तक साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होकर १६४७ के प्रारम्भ से अब आद्वं साप्ताहिक निकल रहा है ; इसका आधा अंश प्रारम्भ से ही कांग्रेसी में भी निकलता है ; कहानी आदि के अतिरिक्त गवालियर राज्य की सरकारी विज्ञप्तियाँ ही अधिक रहती हैं ; वा० मू० ७) ; प० लक्ष्मण (गवालियर)

८. सामाजिक, संस्था-प्रचारक एवं जातीय

(क) अछूतोद्धार : सासाहिक

(१) जनपथ*—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री देवेन्द्रकुमार ; पत्र श्रमिकों और दलितों में सुधार का संदेशवाहक है ; वा० मू० ६४ प० सरेफिल आर्ट प्रेस, ३१, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(२) दलितप्रकाश—प्रथम वर्ष का प्रवेशांक १२ नवम्बर १९४७ को प्रकाशित ; सं० श्री ललित श्रीवास्तव, लहमीचन्द्र वाजपेयी ; संचार श्री भगवानदीन एम. एल. ए. ; दलितों के उत्थान का उद्देश्य लेकर निकला है ; वा० मू० ४), प्रति -॥, प० लालूशरोड, कानपुर ।

(३)—मानवमित्र*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री शिवप्रसाद दीन ; दलितों का सचित्र राष्ट्रीय पत्र है ; सुन्दर निकला है ; वा० मू० ६४, प० १२; आरपुली लेन, कलकत्ता ।

(ख) ग्रामोत्थान : मासिक

(१) गाँव—११ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री अखौरी नारायणसिंह, सह० सं० श्री जगदीशप्रसाद 'श्रमिक' ; सम्पादक मण्डल में सर्वश्री दीप-नारायणसिंह, गोरखनाथसिंह, रामशरण उपाध्याय तथा मयुराप्रसाद हैं ; वा० मू० ४), 'स्वाधीनता अङ्क' हमें प्राप्त हुआ है ; पृष्ठ १७५, छपाई व गेट अप आकर्षक हैं ; अधिकांश लेख सम्पादकों द्वारा लिखे ही हैं । ऐसे पत्र में गाँवों में रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लेख होने चाहिएँ जिन्हें क्रियात्मक जानकारी प्राप्त है, तभी ग्रामीण जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है ; इतने कम मूल्य में फिर भी उपयोगी सामग्री दी जा रही है ; प० बिहार कोओपरेटिव फेडरेशन, पटना ।

(२) ग्रामोद्योग पत्रिका—कई वर्ष से प्रकाशित ; अ० भा० ग्रामोद्योग संघ, मगनवाड़ी (वर्धा) की पत्रिका है ; सं० श्री जे० सी० कुमारपा०, मगनवाड़ी में किये जाने वाले प्रयोगों की रिपोर्ट रहती है ; वा० मू० ३० ; प० वर्धा (सी० पी०)

(३) गोसेवक*—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री शुकदेव शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, साहित्यरत्न ; गो सेवा सम्बन्धी नवीनतम् साहित्य का प्रतिपादक पत्र ; वा० मू० ५० ; प० चौमूँ (जयपुर)

(४) चौपाल—गत वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा, सं० श्री रमेशचन्द्र मिश्र ; मोटे टायप में छपा यह पत्र ग्रामीणों के लिए विशेष उपयोगी है ; कृषि सम्बन्धी लेखों के साथ-साथ धार्मिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ४०), प्रति ।=), पृष्ठ ६० ; प० ग्रामहितैषी कार्यालय, श्यामबाग, हाथरस (य० पी०)

(५) नविदनी—अगस्त १९४७ (श्रावण अधिक सं० २००४) से प्रकाशित ; सं० श्री धर्मलालसिंह ; इसमें गो सेवा से सम्बन्धित लेख ही रहते हैं ; गो सेवा सम्बन्धी तथ्यपूर्ण और उपयोगी लेख रहते हैं ; अभिनन्दनीय प्रयास है । वा० मू० ४०), विदेश में ६), पृष्ठ २२ ; छपाई व गेट अप भी अच्छा है ; यह बिहार प्रान्तीय गोशाला पीजरापोल संघ का मुख-पत्र है । प० सदाकत आश्रम, पटना ।

पान्तिक

(६) गाँव की बात—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री सालिगराम पथिक ; सह० सं० श्री कृष्णदास ; ग्रामीण समस्याओं पर विविध लेख रहते हैं । मोटे टायप में प्रकाशित, गाँववासियों के लिए विशेष उपयोगी है ; वा० मू० ६) ; प० श्री मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयाग ।

साप्ताहिक

(७) ग्रामजीवन—फरवरी १९४८ से प्रकाशित ; संचा० श्री पन्नलाल 'सरल', सं० श्री रामस्वरूप भारतीय ; ग्रामों में जाग्रति की आज अत्यन्त

आवश्यकता है ; उन लोगों का सम्बन्ध शेष संसार से अलग न रहना चाहिए । समाचार व ग्रामीणों के लिए उपयोगी लेख रहते हैं ; वा० मू० ५), प्रति ७, पृष्ठ ८ ; प० ग्राम्यजीवन कार्यालय, जारखी (आगरा)

(८) देहाती—१० मई १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री रमेश ; यह प्रसन्नता का विषय है कि इसका केव्र संकुचित नहीं है और सभी स्थानों के संबाद प्रकाशित होते हैं ; ग्रामोपयोगी लेख भी रहने चाहिए ; वा० मू० ६) प्रति ८) पृष्ठ ८ ; प० देहाती कार्यालय, गुड़ की भण्डी, आगरा ।

(१०) परमहंस—विगत ५ मास से प्रकाशित ; सं० श्री सालिगराम पथिक ; पंचायती कार्य-प्रणाली में क्रांति उत्पन्न करने के लिए बाषा राघव-दासजी द्वारा संस्थापित ; इस सचित्र साम्प्राहिक में ग्रामशासियों ओर विशेष-कर ग्रामों में रचनात्मक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सरल भाषा में उपयोगी सामग्री रहतो है । २० हजार प्रतियाँ प्रति सप्ताह छपती हैं ; प- मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयाग ।

(ग) संस्था प्रचारक : मासिक

(१) गुरुकुल पत्रिका—भाद्रपद सं० २००५ से प्रकाशित ; सं० श्री रामेश बेदी आयुर्वेदालंकार तथा श्री सुखदेव विद्यावाचस्पति ; गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को मुख-पत्रिका ; ऐसी पत्रिका की नितान्त आवश्यकता थी ; प्राचीन भारतीय संस्कृति, शिक्षा से सम्बन्धित गवेषणापूर्ण लेख रहते हैं ; अन्त में लेखकों का परिचय भी रहता है । लगभग २२-२३ वर्ष पूर्व एक पत्रिका ‘अलंकार’ श्री देवरामा ‘अभय’ (स्वामी अभयदेव, पाण्डीचेरी) के सम्पादकत्व में भी निकली थी जिसमें गुरुकुल के समाचार भी छपते थे , वा० मू० ५), प्रति १), पृष्ठ ३४ ; पत्रिका का ‘श्रद्धानन्द अङ्कु’ विशेषांक शीघ्र ही निकल रहा है । प० हरिद्वार ।

(२) हिन्दी जगत —अगस्त १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री श्यामसुन्दर गुप्त ; बम्बई प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मुख-पत्र ; सम्मेलन से सम्बन्धित सूचनाएँ तथा बम्बई से प्रकाशित हिन्दी पत्रों की सूची व समीक्षा

छपती है ; वा० मू० २), प्रति ३); १० सम्मेलन कार्यालय, गणेशबाग, दादी सेठ अग्यारी लेन, बम्बई नं. २.

(१) हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका*—हिन्दी विद्यापीठ उद्यपुर की मुख्य पत्रिका है ; दिसम्बर १९४६ से प्रकाशित ; सं० श्री गिरधारीलाल शामी (प्रचार मन्त्री) विद्यापीठ की गति विधि पर प्रकाश डालती है ; प. उद्यपुर।

(घ) जातीय पत्र : त्रैमासिक

(१) चारण—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री देवीदान रत्नू ; अ० भा० चारण सम्मेलन का मुख्य-पत्र ; राजस्थानी साहित्य की सुन्दर सामग्री देता है, जातीय समाचार भी रहते हैं। लगभग ६ वर्ष पूर्व इसी नाम से एक त्रैमासिक सर्वश्री ईश्वरदान आसिया, शुभकरण कविया, खेतसिंह मिश्रण के सम्पादन में कड़ी (कलोल-गुजराती) से भी प्रकाशित होता था, जिसमें कुछ अंश गुजराती में भी छपता था तथा दो वर्ष तक निकलता रहा। वा० मू० ६); प्रकाशक—श्री मुरारीदान कीनिया, मोतीनिवास, उद्यमदिर, जोधपुर।

मासिक

(२) अग्रवाल—नवम्बर १९४६ से प्रकाशित ; सं० श्री भद्रसेन गुप्त ; धार्मिक एवम् सामाजिक लेख रहते हैं ; वा० मू० ४), प्रति ।=।; १० २४, क्लाइव स्कायर, नई दिल्ली।

(३) अग्रवाल पत्रिका*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० सर्वश्री मनोहरलाल गर्ग, गंगाशारण अग्रवाल ; सह० सं० श्री राधाकृष्ण कसेरा ; वा० मू० ५), प्रति ।।, पृष्ठ ३२ ; अग्रवाल पत्रिका कार्यालय, हाथरस (यू. पी.)

(४) अग्रवाल हितैषी*—कई वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री पूर्णचन्द्र अग्रवाल ; वा० मू० ५), पृष्ठ ४० ; पा० हींग की मण्डी, आगरा।

(५) कान्यकुञ्ज—४३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रमार्शकर मिश्र, 'श्रीपति' ; कान्यकुञ्ज प्रतिमिथि सभा का मुख्य-पत्र ; जातीय समाचार ही अधिक रहते हैं ; वा० मू० ४४ ; पा० कान्यकुञ्ज कार्यालय, नं० २, हुसैनगंज, लखनऊ।

(६) स्त्रीहितैषी*—कई वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री लक्ष्मीनारायण टण्डन 'प्रेमी'; प० प्रेमी कुटीर, पंजाबी टोला, पास राजा बाजार, लखनऊ।

(७) त्यागी—४० वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रामचन्द्र शर्मा ; त्यागी ब्राह्मण जाति का पत्र ; वा० मू० ३), प्रचारार्थ २); प० मेरठ।

(८) भविष्य—२ वर्ष से प्रकाशित ; संचा० आर० सी० भरतिया, सं० श्री श्रीकृष्ण मोर ; मारवाड़ी-समाज में सुधार ही उद्देश्य ; हमारे सामने मारवाड़ी सम्मेलनाङ्क है, अनेक मारवाड़ियों के चित्रों से विभूषित ; संभवतः मारवाड़ी समाज का प्रचारक-पत्र ; प० जोगीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली।

(९) मराठा राजपूत—१ जून १६४१ से प्रकाशित ; सं० श्री रामचन्द्रराव जाधव, डा० रविप्रतापसिंह श्रीनेत, भद्र० सं० श्री रामचन्द्र ज्योतिषि ; राजपूत मराठा यूनियन का मुख-पत्र ; वा० मू० ५), प्रति ॥); प० देवास जूनियर (मध्यभारत)

(१०) मारवाड़ी गौरव—३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री अद्भुत शास्त्री ; मारवाड़ियों का प्रशंसक पत्र ; प्रकाशन अनियमित ; वा० मू० ६), प्रति ॥) प० 'मारवाड़ी गौरव' कार्यालय, जयपुर।

(११) मैढ़ ज्ञानिय समाचार—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री कान्तिलाल वर्मा ; मैढ़ ज्ञानिय प्रभाकर ज्ञानिय सभा का पत्र ; कुछ काल पूर्व यह पत्र श्री नानूरामजी वर्मा (इन्दौर) के सम्पादन में 'मैढ़ प्रभाकर' नाम से १२ वर्षों तक निकलता रहा ; वा० मू० ३); प० आकोट, जिला आकोला (बरार)

(१२) यादव—२२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री राजितसिंहजी ; अ० भा० यादव महासभा का मुख-पत्र ; वा० मू० ४); प० दारानगर, बनारस।

(१३)—युवक हृदय—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री मनोहरलाल लडी-वाले ; अग्रवाल युवक परिषद् (जयपुर) का मुख-पत्र; वा० मू० ३), प्रति ॥); प० गोपालजी का रास्ता, जयपुर।

(१४) राजपूत—४७ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री राजेन्द्रसिंह; अ० भा० ज्ञानिय महासभा का मुख-पत्र ; राजपूत संगठन आदि पर लेखादि अच्छे

रहते हैं ; पहले इसका बहुत प्रचार था ; वा० २), पृष्ठ २० ; प० राजपूत प्रेस, आगरा ।

(१५) वालंटियर—सितम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री श्यामशरण सक्सेना ; संरक्षक, कायस्थ वालंटियर कोर ; वा० मू० ३), नमूना मुफ्त ; प० लक्ष्मण (गवालियर)

(१६) ब्राह्मण—जनवरी १६४५ से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्री देवदत्त शास्त्री ; सं० श्री सतंकुमार जोशी ; अ० भा० ब्राह्मण महासभा का मुख्य-पत्र-वा० मू० ४), प्रति ।—) ; प० चरखेवालाँ, दिल्ली ।

(१७) सनाह्य जीवन—१४ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री प्रभुदयाल शर्मा वा० मू० ३) ; प० शर्मन प्रेस, इटावा (य० पी०)

(१८) सविता संदेश—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रामचन्द्र भारती सविता समाज का मुख्य-पत्र ; वा० मू० ४), प० जोगीवाड़ा, नई सड़क दिल्ली ।

पांचिक

(१९) मंजिल—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री मोतीलाल शर्मा ‘सुमन’ ; मारवाड़ी समाज में रूढ़ियों के प्रति क्रांतिकारी भाव पैदा करना ही उद्देश्य है ; वा० मू० ६॥—), प्रति ।, पृष्ठ ४२ ; प० रघुनाथपुर (जिला मानभूम) बिहार ।

साप्ताहिक

(२०) अकेला—इसी वर्ष से प्रकाशित ; संचा० श्री विश्वनाथप्रसाद गुप्त ; सं० श्री शिवनारायण शर्मा ; मारवाड़ी सम्मेलनाङ्क हमारे सम्मुख है, मारवाड़ियों के चित्रों व परिचय से भरपूर ; प० तिनसुकिया (आसाम)

(२१) वैश्य समाचार—१० वर्ष से प्रकाशित ; सं० डा० नन्दकिशोर जैन ; अ० भा० वैश्य सोसायटी द्वारा संचालित ; वा० मू० ४) ; प० नया बाजार, दिल्ली ।

(२२) समाज-सेवक—४ वर्ष से प्रकाशित ; स्थानापन्न संबद्धीनरायण शर्मा ; अ० भा० मारवाड़ी सभा का मुख-पत्र ; कई विशेषाङ्क भी निकाले ; वा० मू० ६), प्रति ८; प० १५१ बी, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

(२३) ज्ञानिय गौरव—३ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रावत सारस्वत ; साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ६); प० राजपूत प्रेस, लिमिटेड, जयपुर ।

(२४) ज्ञानिय-वीर—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० कुँवर रूपसिंह भाटी ; वा० मू० ५), प्रति ८; प० जोधपुर ।

(ड) साधारण : मासिक

(१) अशोक*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री सुधीर भारद्वाज ; साहित्यिक लेख भी अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ५॥), प्रति ॥; प० अशोक कार्यालय, मोरीगेट, दिल्ली ।

साप्ताहिक

(१) तेजप्रताप—१६ सितम्बर १६३७ से प्रकाशित ; संचा० श्री कांति-चन्द्र जोशी ; सं० श्री अवतारचन्द्र जोशी ; सामान्य सामाजिक लेख रहते हैं ; वा० मू० ६); प० मुन्शेबाजार, अलवर ।

(२) सीमा—जून १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री मातूलाल शर्मा ; वा० मू० ४), प्रति ८॥, वृष्ट ८; प० आसनसोल (मानभूमि) बिहार ।

(च) स्काउटिंग : मासिक

(१) स्काउट—११ वर्ष से प्रकाशित ; जयपुर स्टेट बॉय स्काउट एसोसियेशन का मुख-पत्र ; कुछ अंश अंग्रेजी में छपता है ; वा० मू० २); प० जयपुर ।

(२) सेवा—२८ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री रमाप्रसाद 'पहाड़ी' ; भूतपूर्व सम्पादकों में श्री जानकीप्रसाद वर्मा का नाम उल्लेखनीय है ; यह हिन्दुस्तान स्काउट एसोसियेशन का मुख-पत्र है ; पहले इसमें हस्ती संस्था

विषयक लेखादि रहते थे, अब कुछ वर्ष से साहित्यिक लेख ही प्रकाशित होते हैं ; वा० मू० ३), प्रति ।—) ; प० इलाहाबाद ।

(छ) प्रवासी व आदिवासी : मासिक

(१) प्रवासी—नवम्बर १९४७ से प्रकाशित ; सं० श्री भवानीदयाल शन्यासी ; प्रवासी भारतीयों की समस्याओं से सम्बन्धित लेख ही रहते हैं । ‘आल-विनोद’, ‘महिला मंतव्य’ आदि बालकों व स्त्रियों के लिए स्तम्भ हैं । सुयोग्य सम्पादक प्रवासी-भारतीय-समस्या के विशेषज्ञ और अधिकारी विद्वान हैं । लेखादि अच्छे रहते हैं ; आधा अंश अँप्रेजी में छपता है ; वा० मू० १०), प्रति १) ; प० प्रवासी भवन, आदर्श नगर, अजमेर ।

साप्ताहिक

(२) आदिवासी—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री राधाकृष्ण ; विहार सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा राँची जिले के आदिवासियों को शिक्षित करने के लिये प्रसारित ; उपयोगो सामग्री रहती है ; ३००० प्रतियाँ छपती है ; वा० मू० १।), प्रति ।।, पृष्ठ ८ ; प० विहार गवर्नरेट प्रेस, राँची ।

(३) लोकशासन—हाल ही में प्रकाशित ; सं० सर्वश्री केशवचन्द्र, ब्रह्मदत्त तथा देवकृष्ण ; वनवासी प्रदेश का हिन्दी साप्ताहिक ; सामाजिक लेखों के साथ-साथ राजनीतिक लेख भी प्रकाशित होते हैं ; वा० मू० ६), प्रति ३।), पृष्ठ १२ ; प० ज्ञानमन्दिर मुद्रणालय, बामनिया (इन्दौर)

(४) होड़-सोमबाद—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० डोमन साहु ‘समीर’ ; यह विहार सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा संथाल परगने के आदिवासियों में समाज-सुधार, शिक्षा प्रसार के लिए निकलता है ; लिपि देवनागरी ही है लेकिन भाषा संथाली रहती है ; संथाली का सर्वप्रथम एक मात्र साप्ताहिक पत्र ; प० साहित्य प्रेस, वैद्यनाथ देवघर ।

६. स्वास्थ्य सम्बन्धी

(क) आरोग्यः मासिक

(१) आरोग्य—जुलाई १९४७ से प्रकाशित; संचा० तथा सं० श्री विट्ठलदास मोदी; प्राकृतिक चिकित्सा तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख ही रहते हैं; लेखों का चयन सुन्दर रहता है; प्रश्नोत्तर का स्तम्भ भी है; छपाई, सफाई भी सराहनीय है; वा० मू० ४), प्रति ।=।; प० आरोग्य मंदिर गोरखपुर।

(२) जीवन सखा*—१२ वर्ष से प्रकाशित; सं० डा० बालेश्वरप्रसाद सिंह; प्राकृतिक चिकित्सा, योग और व्यायाम आदि विषयों पर उपयोगी लेख रहते हैं; पाठकों के स्वास्थ्य विषयक प्रश्नों का भी समुचित उत्तर छपता है। 'जल चिकित्सा अङ्क' आदि कई विशेषाङ्क भी निकले हैं। प० लूकरगंज, प्रयाग।

(३) स्वास्थ्य सुधा—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री रामचन्द्र महाजन; संचा० श्री प्रिंसिपल हरिशचन्द्र; प्राकृतिक चिकित्सा, आहार-विहार, व्यायाम, सम्बन्धी तथा अन्य लेख अच्छे रहते हैं। वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ४२; प० स्वास्थ्य सुधा कार्यालय, चूनामण्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली।

(४) होमियोपेथिक सन्देश—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री डा० युद्धवीरसिंह; होमियोपेथी दावहश्यों सबसे सस्ती रहती हैं और लाभ भी होता है; गाँधों में इनका प्रचार उपयोगी हो सकता है। विदेशी पत्र-पत्रिकाओं से इसी विषय के अनूदित लेख भी रहते हैं; वा० मू० ५), प्रति ॥); प० चाँदनी चौक, दिल्ली।

(ख) आयुर्वेदः त्रैमासिक

(१. आयुर्वेद*—गत वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत,

आयुर्वेद के लुप्त अष्टाँग स्वरूप के पुनरुज्जीवन के लिये अन्वेषणपूर्ण साहित्य के प्रकाशन का उद्देश लेकर जन्म हुआ है ; वा० मू० ३), प्रति १); प० श्यामसुन्दर रसायनशाला, काशी ।

द्वै—मासिक

(२) राजपूताना प्रान्तीय वैद्य पत्रिका—५ वर्ष से प्रकाशित; पहले त्रैमासिक निकलती थी ; प्रारम्भ से ही प्रधान सं० श्री आचार्य नित्यानन्द सारस्वत ; यह राजपूताना प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन की मुख्य-पत्रिका है ; सम्मेलन के समाचारों के अतिरिक्त आयुर्वेद विषयक महत्वपूर्ण लेख रहते हैं ; वा० मू० ३) ; प० जयपुर ।

मासिक

(३) अनुभूत योगमाला—२७ वर्ष से प्रकाशित ; प्रारम्भ से ही सं० श्री विश्वेश्वरदयालु वैद्यराज ; पहले पाक्षिक रूप में निकलती थी अब कुछ समय से मासिक होगई है ; इसमें आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खे रहते हैं ; वैद्यों का परिचय भी छपता है । इससे देश का बहुत लाभ हो रहा है ; वा० मू० ४), प्रति ॥) ; प० अनुभूत योगमाला कार्यालय, बरालोकपुर (इटावा) यू० पी०

(४) आयुर्वेद—जुलाई १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री रामनारायण शर्मा वैद्य ; महादेव महोदय श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ता के अध्यक्ष हैं और साथ ही अनुभवी वैद्य भी ; इस सचित्र पत्र में लेखादि अच्छे रहते हैं ; वा० मू० ४) ; प० श्री वैद्यनाथ भवन ; नं० १, गुप्ता लेन (जोड़ासाँकू) कलकत्ता ।

(५) आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका—३५ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री आशुतोष मजूमदार ; अ० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन व विद्यापीठ की विज्ञप्तियों के अतिरिक्त गवेषणापूर्ण लेख रहते हैं । कुछ अंश संस्कृत में भी रहता है । वा० मू० ५), प्रति ॥) ; प० चौंदनी चौक, दिल्ली ।

(६) आयुर्वेद सेवक*—इसी वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री गुलराज

शर्मा मिश्र, शिवकरण शर्मा छांगाणी ; ‘धन्वन्तरि विशेषांक छप रहा है ; वा० मू० ५३), प्रति ॥) ; प० आयुर्वेद सेवक कार्यालय, नई शुक्रवारी, नागपुर ।

(७) धन्वन्तरि*—१६२३ से प्रकाशित ; सं० श्री देवीशरण गर्ग ; प्रारम्भ में कितने ही वर्षों तक वैद्य बॉकेलाल गुप्त सम्पादक रहे ; आयुर्वेद विज्ञान के अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख भी रहते हैं ; ‘नारी अङ्क’, ‘रक्त रोगाङ्क’, ‘सिद्ध योगाङ्क’ आदि कई विशेषाङ्क भी प्रकाशित हुए हैं ; वा० मू० ५३) ; प० विजयगढ़ (अलीगढ़)

(८) प्राणाचार्य—फरवरी १६४७ से प्रकाशित ; सं० वैद्य बॉकेलाल गुप्त, सह० स० श्री गिरिजादत्त पाठक ; ‘चिकित्सकों के प्रश्न’, ‘सिद्ध प्रयोग’, ‘हमारी डाक’, आदि विविध स्तम्भ हैं ; आयुर्वेद विषयक विशेष ज्ञानकारी मिलती है ; वा० मू० ४४) ; प० प्राणाचार्य प्रेस, विजयगढ़ (अलीगढ़)

(९) रसायन—जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० डा० गणपतसिंह बर्मा ; रसायन फार्मेसो दिल्ली का मुख-पत्र ; आयुर्वेद में आधुनिक विज्ञान की सहायता से क्रांति पैदा करना ही इसका उद्देश्य है ; गवेषणा-पूर्ण लेख रहते हैं ; वा० मू० ६), प्रति ॥१) ; प० नं० ३, दरियागंज, पो० बा० १२५, दिल्ली ।

(१०) वैद्य—जुलाई १६२० से प्रकाशित ; संस्था० वैद्य शंकरलाल जैन ; सं० श्री वैद्य विशुकान्त जैन ; आयुर्वेद विज्ञान सम्बन्धी लेख अच्छे रहते हैं ; स्वास्थ्य विषयक लेख भी रहते हैं ; कई विशेषाङ्क निकले ; हमारे सामने इस वर्ष का प्रथम अङ्क ‘सिद्ध योगाङ्क’ है, जिसमें ७६५ अनुभूत प्रयोग दिये गए हैं ; वा० मू० ४) ; प० ‘वैद्य’ कार्यालय, मुरादाबाद ।

पात्रिक

(११) सुधानिधि—जून १६०६ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री जगन्नाथ-प्रसाद शुक्ल, शिवदत्त शुक्ल, योगेन्द्रचन्द्र शुक्ल ; आरम्भ में मासिक था अब वार्षिक रूप में प्रकाशित ; आयुर्वेद के पत्रों में सम्मानित ; द्वाष्टवादी नीति ;

वा० मू० ५), प्रति ।) ; प० सुधानिधि कार्यालय, ३ सम्मेलन मार्ग, प्रयाग ।

(ग) व्यायाम : मासिक

(१) व्यायाम*—कई वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० प्रो. माणिकराव ; व्यायाम विषय की सचिव पत्रिका ; विशेषतः आसनादि पर लेख रहते हैं ; मराठी, गुजराती संस्करण भी निकलते हैं ; वा० मू० ७); प० जुम्माहादा व्यायाम मन्दिर, बडोदा ।

(२) बलपौरुष*—हाल ही में प्रकाशित ; स० श्री डा० सदानन्द त्यागी ; बतमान व्यायाम शैली में बहुत परिवर्तन व वैज्ञानिक व्यायाम का दिग्दर्शन कराना ही इसका ध्येय है ; वा० मू० ६), प्रति ।) ; बलपौरुष कार्यालय, ४७, मुकाराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता ।

१०. वैज्ञानिक

(क) शुद्ध विज्ञान : मासिक

विज्ञान*—१६१५ से प्रकाशित ; विज्ञान परिषद का मुख्य-पत्र ; अपने दंग का अकेला ही पत्र है जो इतने बचों से निकल रहा है, आज यद्यपि कलेवर कीण है। युगर्धम के अनुकूल इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन होना चाहिए ; डा. सत्यप्रकाश आदि सम्पादक रह चुके हैं ; वर्तमान प्रधान सं० श्री रामचरण मेहरोत्रा तथा ५ सम्पादकों की एक समिति है। वा० मू० ४) ; प० टैगोर टाउन, प्रयाग।

(ख) मनोविज्ञान : मासिक

(१) बालहित—जनवरी १९३६ से प्रकाशित सं० श्री काल्लाल श्रीमाली, जनार्दनराय नागर ; माता-पिताओं को बचों की शिक्षा के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराना तथा बालहित की समस्या पर विचार करना ही इसका उद्देश्य है ; लेख मनोवैज्ञानिक रहते हैं ; वा० मू० ३ ; प० विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर।

(२) मनोविज्ञान—मई १६४८ से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री श्रीराम खोहरा, शिवप्रसाद पुरोहित ; मनोविज्ञान से सम्बन्धित लेख सुन्दर रहते हैं ; वा० मू० ६) ; प्रति ॥), पृष्ठ ३५ ; प० मनोविज्ञान प्रकाशन, अंधेरी, बम्बई।

(ग) भूगोल : मासिक

भूगोल*—१६४३ से प्रकाशित ; संचार० व सं० श्री रामनारायण मिश्र वी०ए० ; यह पत्र भी अपने विषय का अकेला है ; अनेक विशेषांक निकाल-कर इस दिशा में इसने अद्वितीय कार्य किया है ; 'हैदराबाद अङ्क', 'देशी राज्य अङ्क' आदि बहुत से सुन्दर विशेषांक प्रकाशित हुए हैं ; वा० मू० ५) प० भूगोल कार्यालय, ककराहाघाट, इलाहाबाद।

(घ) ज्योतिष : त्रैमासिक

(१) श्रीस्वाध्याय—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० अमृतवारभव आचार्य ; सं० श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य ; वर्ष में शारदाङ्क, हेमन्ताङ्क, वसन्ताङ्क, ग्रीष्माङ्क प्रकाशित होते हैं ; ज्योतिष के अतिरिक्त साहित्यिक व सांस्कृतिक लेख भी इसमें छपते हैं ; भारतीय संस्कृति का पोषक पत्र ; साहित्य समालोचना का स्तम्भ भी है ; वर्ष के प्रारम्भ में विशेषांक, 'साहित्यांक' आदि निकलते हैं ; वा० मू० ६), प० श्रीस्वाध्याय सदन, सोलन (शिमला)

मासिक

(२) ज्योतिर्विज्ञान—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री मूलचन्द्र शर्मा ; भारतीय ज्योतिष शास्त्र का विस्तार और इस विद्या की वास्तविकता जनता के समझ उपस्थित कर इसका पुनरुद्धार करना ही, इसका उद्देश्य है ; वा० मू० ६), प्रति ॥।।। ; प० ज्योतिर्विज्ञान कार्यालय, महू (मध्यभारत)

(३) पण्डिताश्रम पत्रिका—१२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० ज्योतिषाचार्य संकर्षण व्यास ; पण्डिताश्रम सभा (उज्जैन) द्वारा संचालित ; प्रति पूर्णिमा को प्रकाशित ; राशा भविष्य, व्यापार भविष्य आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; कुछ साहित्यिक लेख भी रहते हैं ; वा० मू० ३), प्रति ॥।।, पृष्ठ २४ ; प० श्री हरिसिंह विटिंग प्रेस, नई सड़क, उज्जैन।।।

(४) व्यापार भविष्य—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री हीरालाल दीक्षित ; यह पत्रिका केवल व्यापारी वर्ग के लिए ही है, लेख आदि एक भा नहीं रहता ; सामग्री को देखते हुए मूल्य अधिक जान पढ़ता है ; वा० मू० ५), प्रति ॥।।, पृष्ठ ८ ; प. व्यापार भविष्य कार्यालय, हाथरस (यू. पी.)

(इ) कृषि : मासिक

(१) कृषि—जनवरी १९४६ से प्रकाशित ; सं० श्री माणिकचन्द्र गोन्द्रिया, सह० सं० श्री गोरेलाल अग्रिभोज ; कृषि व ग्रामोद्योग सम्बन्धी लेखों से परिपूर्ण यह पत्रिका बहुत सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रही है ;

अधिकारी लेखकों द्वारा लिखे गए लेख हूसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं; 'ज्ञान-विज्ञान-श्रुतिसंधान', 'पशुपालन-पशुसंधार' स्थायी स्तरभूमि हैं; इसका 'द्वीपावली अङ्क' भी सुन्दर निकला था; वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० कृषक कार्यालय, धर्मपौठ, नागपुर।

(३) कृषि संसार—मार्च १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री शिवकृष्णारुद्र शर्मा; देश के ८२ प्रतिशत किसानों में कृषि सम्बन्धी विज्ञान का प्रचार करना ही पत्र का लक्ष्य है; मोटे टायप में प्रकाशित यह पत्र अत्युपयोगी सामग्री से भरपूर रहता है; प्रथम अङ्क ही 'कम्पोस्ट विशेषाङ्क' निकला है; निश्चय ही कृषकों के लिए यह अपूर्व देन; मीरा बहन आदि कृषि विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त है। नवम्बर ४८ में 'गन्ना अङ्क' निकल रहा है; गेट अप व छपाई सुन्दर; वा० मू० ७), प्रति ॥), पृष्ठ ७२; प० कृषि संसार कार्यालय, विजनौर (य० प०)

(च) कामविज्ञान : मासिक

(१) कामाब्जलि*—काम विज्ञान सम्बन्धी कोई भी पत्रिका हिन्दी में न थी; इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक शिक्षा के लिए १५ अगस्त १६४८ से इसका प्रकाशन किया जा रहा है; पत्रिका विभिन्न चित्रों से सुसज्जित व रंगीन छपाई; सं० श्री 'प्रभात'; प० 'कामांजलि' कार्यालय, सिवनी (सी. पी.)

(२) छाया*—स्वास्थ्य तथा कामविज्ञान सम्बन्धी सचिव मासिक; अनेक चित्र; वा० मू० ६), प्रति ॥); प० स्वास्थ्य सदन, दिल्ली।

(छ) ग्रंथालय : मासिक

ग्रंथालय*—पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी हिन्दी में एक भी पत्र न था; नवम्बर मास (१६४८) से श्री शास्त्री मुरारीलाल नागर, एम. ए. साहित्याचार्य, विश्वविद्यालय ग्रंथालय, दिल्ली के सम्पादन में वर्ही से शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। यह सर्वेषां नूतन प्रयत्न है और है अभिनन्दनीय।

११. अर्थशास्त्र, वाणिज्य व व्यावसाय

(क) अर्थशास्त्रीय : त्रैमासिक

(१) अर्थसंदेश—फरवरी १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री भगवतशरण अधौलिया, सह० सं० श्री दयाशंकर नाग ; अर्थ, वाणिज्य विषयक सामर्थ्यिक प्रश्नों की चर्चा करना, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए गंभीर लेखों द्वारा विचार सामग्री उपस्थित करना तथा जनता के आर्थिक कल्याण के लिए भिन्न आदर्शों तथा योजनाओं पर विवेचनात्मक एवं तात्त्विक प्रकाश डालना ही इसका उद्देश्य है ; यह फरवरी, मई, अगस्त, और नवम्बर में प्रकाशित होता है। अब तक प्रकाशित अङ्कों से यह कहा जा सकता है कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा ; वा० मू० ६), विद्यार्थियों तथा पुस्तकालयों से ५), प्रति १॥), पृष्ठ ८४ ; प० ‘अर्थसंदेश’ कार्यालय, सेक्सरिया कॉर्मस कालेज, वर्धा।

(२) खादीजगत—२५ जुलाई १६४१ से प्रकाशित ; सं० श्रीमती आशादेवी तथा श्री० कृष्णदास गांधी ; बीच में प्रकाशन कुछ समय स्थगित रहा ; इसमें खादी से सम्बन्धित लेख ही रहते हैं और प्राधान्यतः खादी के अर्थशास्त्र पर ही ; श० भा० चर्खा संघ के परीक्षणों के आधार पर तैयार किये गए लेखादि रहते हैं। ‘खादी परीक्षा’ की सूचना व परिणाम भी छपता है ; गाँवों में बैठकर रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए विशेष उपयोगी है ; वा० मू० ६), प्रति ॥=) ; प० वर्धा।

(ख) व्यावसायिक : मासिक

(१) उच्चम—३० वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री त्रिं० ना० बाडेगाँवकर ; खेती, बागवानी, विज्ञान, खायापार, उद्योग-धंधे, आमसुधार और स्वास्थ्य सभी विषयों पर महत्वपूर्ण लेख इसमें रहते हैं ; हिन्दी में इसका प्रकाशन

अभूतपूर्व है ; ‘व्यापारी हलचलों की मासिक समालोचना’, ‘जिज्ञासु जगत्’, ‘साहित्य समालोचना’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; अनेक व्यंगचित्रों से सुसज्जित उपयोगी सामग्री देता है। ‘कृषि अङ्क’, ‘फोटोग्राफी अङ्क’ आदि कई विशेषाङ्क निकले हैं ; इसका मराठी संस्करण भी निकलता है ; वा० मू० ७), प्रति ॥), पृष्ठ २८ ; प० धर्मपेठ, नागपुर ।

(२) उदय—जनवरी १६४६ से प्रकाशित ; सम्पादक का नाम नहीं छपता ; व्यवसाय और उद्योग प्रधान सचिव पत्र है ; ‘पूछताछ’ स्तम्भ के अन्तर्गत पाठकों के एतद्विषयक प्रश्नों का उत्तर रहता है ; विश्व के देशों के व्यापारियों के पते भी हर अङ्क में छपते हैं ; चित्रपट आदि के व्यावसायिकों पहलू पर लेख रहते हैं ; हिन्दी में ऐसे पत्रों की आवश्यकता है ; प० न्यूज़ पब्लिकेशन लि०, नया कटरा, दिल्ली ।

(३) जैनउद्योग*—२१ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री श्री. सी. जैन ; कलात्मक और छोटे व्यवसाय, गृहोदयोग पर लेख रहते हैं ; वा० मू० ३), प्रति ॥) ; प० जैन उद्योग समिति, ३५५, गंज जामुन रोड, नागपुर सिटी ।

(४) बेकार सखा*—१६३२ से प्रकाशित ; इसमें गृह उद्योगों के नुस्खे तथा अन्य दस्तकारी पर पाठकों के प्रश्नोंवर रहते हैं ; विज्ञापन भी बहुत रहते हैं ; यदि अश्लील विज्ञापन न लिए जायें तो पत्र की उपयोगिता निश्चित है ; वा० मू० ४) ; प० ‘बेकार सखा’ कार्यालय, शिकोहाबाद (यू. पी.)

(५) व्यापार*—गत वर्ष से प्रकाशित ; व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार, मासिक बाजार भाव, विवेचन तथा कुछ चीजें बनाने के सरल ब उपयोगी नुस्खे तथा लेख रहते हैं ; वा० मू० २॥), प्रति ॥) ; प० १६८, क्रॉस स्ट्रीट कलकत्ता ।

(६) व्यापार विज्ञान—१० नवम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री भन्दकिशोर शर्मा, सह० सं० श्री भीमसेन चौधरी ; व्यापार सम्बन्धी साधारण लेख रहते हैं ; धारावाहिक उपन्यास भी निकल रहा है ; भारत-

के व्यापारियों के पते रहते हैं ; वा० मू० ३), प्रति ।), पृष्ठ २६ ; प० सदरबाजार, मेरठ ।

(७) वाणिज्य—जन्माष्टमी संवत् २००५ से प्रकाशित ; पृष्ठ ८० ; अंगरेजी के पत्रों ‘कार्मस’, ‘फेपिटल’ से अनुदित लेखों के अतिरिक्त व्यापार विषय पर मौलिक लेख भी रहते हैं ; बाजार भाव भी छपते हैं ; ‘कलकत्ता समाचार’, ‘बम्बई की चिट्ठी’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं जिनमें उन शहरों की व्यापारिक प्रगति पर प्रकाश पड़ता है ; प० वाणिज्य मुद्रणालय, कलकत्ता ।

(८) विज्ञानकक्षा—१५ अगस्त १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री निरंजनलाल गौतम ; ‘प्रश्नोत्तरी’, ‘गृहोद्योग’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; ‘प्रश्नोत्तरी’ में विभिन्न उद्योग विषयक प्रश्नों के उपयोगी उत्तर छपते हैं ; स्याही बनाने व अन्य गृहोद्योगों सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नुस्खे भी रहते हैं ; आशा है पत्र उत्पत्ति करेगा ; वा० मू० ५), प्रति ।), पृष्ठ ३० ; प० विज्ञानकला मन्दिर, ज्वालानगर, देहली शहादरा ।

सामाहिक

(९) ग्रामउद्योग—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री मोहनलाल हरित्स ‘प्रभाकर’ ; ‘सामाहिक समाचार’, ‘भंग की तरंग’ आदि स्तम्भों में खबरें व चुटकियाँ छपती हैं ; ग्रामोद्योग विषयक लेख भी रहते हैं ; आयुर्वेदिक नुस्खे भी छपते हैं ; वा० मू० ६), प्रति, ८), पृष्ठ ११ ; प० उदय प्रेस, वैदवाड़ा, दिल्ली ।

(१०) तिजारत—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री सीतानन्दनसिंह ; अर्थशास्त्र, व्यापार सम्बन्धी सामान्य लेख रहते हैं ; ‘वस्तुओं के दर पर एक निगाह’ स्तम्भ में व्यापारिक भाव भी दिये जाते हैं । संचालकों के अनुसार ग्राहक संख्या ६ हजार से ऊपर है ; वा० मू० ६), प्रति ८), पृष्ठ १२ ; प० पोस्ट बॉक्स ५३, बॉकीपुर, पटना ।

(११) घँजी—प्रवेशाङ्क १ अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री रामस्वरूप भालोटिया ; उच्चकोटि का औद्योगिक एवं व्यापारिक सामाहिक ;

आकार-प्रकार व लेखादि को देखकर इसकी उपयोगिता जंचती है और इसका प्रकाशन गौरव की बस्तु है; इसका प्रकाशन नियमित हो तभी यथेष्ट लाभ की समावना है; वा० मू० ५४०, प्रति ३५; प० 'पूँजी' कार्यालय, ४१ ए, ताराचंद दर्चे स्ट्रीट; कलकत्ता।

(१२) व्यापार कोनून—६ वर्ष से प्रकाशित; स० श्री नेमिषन्द्र गोथल; व्यापार सम्बन्धी कोनून एवं सरकारी सूचनाओं का देने वाला यह सांसाहिक अपने ढंग का अकैला है; योग्य विद्वानों के लेख भी रहते हैं; 'आयात-निर्यात', 'ग़ल्ला' आदि स्थायी स्तेम्भ हैं; 'स्वतंत्रता विशेषाङ्क' भी सुन्दर निकाला है; वा० मू० ६५; प्रति ३५; प० दर्दहली दरवाजा, आगरा।

१२. बालकोपयोगी.

(क) बाल वर्ग : मासिक

(१) अंगूर के गुच्छे*— ८० कटरा, प्रयाग।

(२) इंद्रधनुष*—अक्टूबर १६४७ से प्रकाशित; प्रथानः सं० श्री अशोक साहित्यालंकार; सं० सर्वश्री हजारीलाल श्रीवास्तव 'अधीर', केशवप्रसाद 'विद्यार्थी'; रंगीन स्याही में छपा, अच्छी सामग्री देता है; वा० मू० ४॥); प० इंद्रधनुष कार्यालय, हंसापुरी, नागपुर।

(३) किलकारी—माघे १६४८ से प्रकाशित; सं० श्री दीपचन्द्र छंयाणी; बालः मत्तोविज्ञान के आधार पर बालकोपयोगी सामग्री जुटाता है; छपाई सफाई सुन्दर; मूलय कुछ अधिक जान पड़ता है; वा० मू० ५्), प्रति ॥॥; किलकारी कार्यालय, नरसिंह दहा, जोधपुर।।

(४) खिलौता—२२ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री रघुनन्दन शर्मा; छोटे बच्चों के लिये इससे सुन्दर, सस्ता मासिक पत्र और कोई नहीं है; रंगीन छपाई, मोटे टाइप में छपा, प्रत्येक लेख चित्रों से युक्त; द्रसिद्ध बाल-साहित्य के लेखकों का सहयोग प्राप्त है; वा० मू० २॥), प्रति ॥, पृष्ठ ३२; प० नदा कठरा, प्रयाग।।

(५) चमचम—१८ वर्ष से प्रकाशित; संस्था० श्री गंगाप्रसाद उपर्याय सं० सर्वश्री विश्वप्रकाश, श्रीप्रकाश, 'विमलेश'; सुन्दर टाइटिल; रंगीन छपाई, मोटे टाइप में छपा, यह पत्र छोटे बच्चों के लिये अच्छा है; 'दुनिया की सैर' स्थायी स्तम्भ है; वा० मू० २॥), प्रति ॥, पृष्ठ २४; प० कलीं प्रेस, प्रयाग।।

(६) तितसी*—सं० श्री 'व्यथितहृदय'; वा० मू० ३्), प्रति ॥, प० श्रीतितसी कार्यालय, २३२/एकटस, प्रयाग।।

(७) बालबोध*—अक्टूबर १९४४ से प्रकाशित; सं० श्री श्रीनाथसिंह; बच्चों का सचित्र मासिक ; वा० मू० ४।), प्रति ।=। ; प० दीदी कार्यालय, कटरा, प्रयाग ।

(८) बालभारती*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री मन्मथनाथ गुप्त ; द से १४ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिये उत्तम मानसिक भोजन देती है ; अहुत सुन्दर पत्रिका है ; यह भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है ; वा० मू० ३।), प० पञ्चिकेशन्स डिवोजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली ।

(९) बालविनोद*—१५ वर्ष से प्रकाशित; सं० श्री सरस्वती डालमियाँ; बालकों की रुचि के अनुकूल ज्ञानवर्द्धक सामग्री प्रदान करता है ; वा० मू० ३।) प० ३६, लाटूश रोड, लखनऊ ।

(१०) बालसखा—जनवरी १९१७ के तीसरे हफ्ते में इसका जन्म हुआ, श्री बद्रीनाथ भट्ट प्रथम सम्पादक थे ; तदनन्तर सर्वश्री लल्लीप्रसाद पाण्डेय, कामताप्रसाद गुरु, देवीदत्त शुक्ल, गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' और श्रीनाथसिंह ने सम्पादन किया । १९५५ से पुनः श्री लल्लीप्रसाद पाण्डेय के सम्पादकत्व में निकल रहा है । लेखों का चयन बालकों की रुचि के अनुकूल मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया जाता है ; बालकों को स्वस्थ सामग्री देने वाला यह सर्व श्रेष्ठ पत्र कहा जा सकता है, 'पाठकों के पत्र' स्थायी स्तम्भ हैं ; छोटे बच्चों के लिये भी कुछ पृष्ठ रहते हैं, बाल और किशोरों का सन्धि-कारक पत्र है । आवरण आर्कषक व लेख सचित्र प्रकाशित होते हैं ; प्रति वर्ष नववर्षे विशेषांक भी २५०-३०० पृष्ठ का निकलता है जो अतिरिक्त मूल्य पर मिलता है ; बालकों की हस्तलिखित पत्रिकाओं का भी एक विशेषांक इसने निकाला था जो वस्तुतः अनुकरणीय प्रयत्न है । वा० मू० ४।), प्रति ।=।, पृष्ठ ३४ ; प० इंडियन प्रेस लिं० प्रयाग ।

(११) लल्ला*—सं० श्री 'शिज्जार्थी', वा० मू० ३।), प्रति ।।), प० लझा कार्यालय, बाई का बाग, प्रयाग ।

(१२) शिशु*—१९१६ से प्रकाशित ; संस्था० स्व० श्री सुदर्शननाथार्य ;

छोटे बच्चों का मोटे टाइप में छपा सुन्दर सचित्र मासिक है, लेख आदि रोचक रहते हैं, सोहनलाल द्विवेदी भू० पू० सम्पादक रह चुके हैं; वा० मू० २॥), प० शिशु प्रेस, प्रयाग।

(१३) शेर बच्चा*—सं० श्री यशोविमलानन्द; वा० मू० ३), प्रति ।), प० कटरा, प्रयाग।

(१४) हमारे गान्कक*—८ वर्ष से प्रकाशित; सं० सर्वश्री खदरजो, दिनेश भैया; ६ स १२ वर्ष की उम्र के लिये यह सचित्र पत्र सुयोग्य सम्पादक द्वारा प्रकाशित हो रहा है। मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों के लिये सुरचिपूर्ण लेख रहते हैं; प० नई सड़क, दिल्ली।

(१५) होनहार—मार्च १६४४ को पहली बार पात्रिक रूप में प्रकाशित हुआ, फिर ५ अंक निकल कर बन्द होगया; अब जुलाई १६४७ से पुनः प्रकाशित; सं० श्री प्रेमनारायण टण्डन; बच्चों के लिये हास्य और विनोदपूर्ण मनोरंजक सामग्रो का विशेष ध्यान रखता है। वा० मू० ३), प० विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ।

पात्रिक

(१६) भाग्योदय—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री टी. कृष्णा स्वामी; एक अहिन्दी भाषाभाषी द्वारा बच्चों के लिए यह सदूप्रयत्न सराहनीय है; उपयुक्त सामग्री सरल भाषा में है; वा० मू० २॥), प्रति ।), पृष्ठ २४; प० भारयोदय कार्यालय, गोला बाजार, जबलपुर।

सामाहिक

(१७) होनहार*—हाल ही में प्रकाशित; सं० श्री सूर्यदेव अनुरागी; मासिक पत्र के आकार में प्रकाशित बच्चों का यह सामाहिक निकलना सम्भवतः सर्वतः नूतन प्रयत्न है; प० २०१ हरीसन रोड, कलकत्ता।

(ख) किशोरवर्ग : मासिक

(१) किशोर—अप्रैल १६४८ से प्रकाशित; संचा० श्री रामदहिन

मित्र ; हं० श्री रघुवंश भाण्डेव ; प्रक्षेपणों का मानसिक विकास और चौराजि
मिर्माण ही प्रमुख ध्वेय है ; 'उपकथांक', 'रघुनन्द अङ्क', 'विशेषांक', 'काम्हि-
दासाङ्क' तथा 'गांधी अंक' आदि अच्छे विशेषांक निकले हैं ; लेखकों को
पारिश्रमिक नहीं दिया जाता , पत्र संगत सामग्री से परिपूर्ण ध्वेयानुकूल
निकल रहा है ; वा० मू० ४), प्रति ।=) ; प० बाल शिक्षा समिति, कांकीपुर,
पढ़ना ।

(२) कुमार*—१६४४ से प्रकाशित ; सं० श्री राजमम लोड़ा ; भोजे
दावृष्ट में छपा यह पत्र बालकों के लिए अच्छी सामग्री प्रदान करता है ;
वा० मू० ३) ; प० कुमार कार्यालय, मन्दसौर (गदालियर)

(३) तरुण—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री कृष्णनन्दप्रसाद ; मुख्य
रूप से युवकों और तरुणों का साहित्यिक पत्र है ; उदूँ की गंजले भी
प्रकाशित होती हैं ; लेख तथा कहानियाँ भी रोचक व शिक्षाप्रद रहती हैं ;
वा० मू० ६), प्रति ॥), ५० तरुण कार्यालय, इलाहाबाद ।

(४) मरना—नवम्बर १६४६ से प्रकाशित ; सं० श्री मेमीनन्द औंन
'भावुक' ; कुमारोपयोगी श्रेष्ठ पत्र है ; बाल साहित्य के लेखकों का परिचय
भी छपता है ; बाल पहली पुरस्कृत होती है ; 'स्वतन्त्रता अङ्क' विशेषांक
भी अक्ल्या निकला है ; कुछ अंश अङ्गेजी में भी छपता है ; वा० मू० ५)
प्रति ॥), पृष्ठ ५० ; प० मरना कार्यालय, जेघपुर ।

(५) बालक—१६२७ से प्रकाशित ; सं० श्री अमन्नीर्थ रामलतेजन-
शरण ; आदि सं० श्री रामवृक्ष बेनीपुरी रहे और फिर श्री शिवपूजनसहाय
अच्युतानन्द दत्त आदि ने भी सम्पादन किया ; पहले यह लहेरियासराय
से प्रकाशित होता था ; युवकों का कदाचित सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्र ; 'बालकों
का बाचनालय' स्तम्भ चयनिका है ; 'बालक' में लिखने वाले आज के श्रेष्ठ
लेखक बन गए हैं ; 'एडुक अङ्क' तथा विशेषरूप से भारतेन्दु अङ्क 'शताब्दि'
पर निकला विशेषांक उल्लेखमीय है ; वा० मू० ४) ; प० पुस्तक भण्डार,
बांकीपुर, पटना ।

(६) बाल सेवा—जून १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री लोकेश्वरनाथ सक्सेना ; सह० सं० धर्मदेव, केशवचन्द्र हजेला, सर्वेश्वरनाथ तथा भानु-प्रताप अवस्थी ; बाल-मनोविज्ञान से सम्बन्धित लेख अच्छे रहते हैं ; आर्ट-पेपर पर छपे चित्र भी रहते हैं। कुछ पृष्ठ 'बालविभाग' के हैं जो मोटे टाइप में रंगीन स्थाही से छपे रहते हैं ; वृद्धों से सम्बन्धित एक-एक आदर्श वाक्य ध्रुवीकृष्ट पर अंकित रहता है ; 'बालकनजी बिरी' की रिपोर्ट भी इसमें प्रकाशित होती है। नूतन प्रयत्न अभिनन्दनीय है; भविष्य में आशा है अपना मुराक्षत स्थान बना लेगा ; वा० मू० ३५ ; प्रति ॥४ ; पठ माधीनंगर ; कानपुर ।

१३. स्त्रियोपयोगी

त्रैमासिक

(१) माहिलाश्रम पत्रिका—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री भवानीप्रसाद मिश्र ; महिला आश्रम, वर्धा की मुख-पत्रिका ; सेवाग्राम की प्रवृत्तियों पर भी लेख रहते हैं। गांधीवादी विचारों की परिपोषक पत्रिका ; हाथ कागज पर छपती है ; महिलोपयोगी गंभीर लेख रहते हैं ; सम्पादक-मण्डल में सर्वश्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, कमला तायी लेले, कृष्णाबहन नाग, दामोदर मूँदड़ा, आनन्दीलाल तिवारी हैं ; वा० मू० ४॥), प्रति १॥, पृष्ठ ७८ ; प० वर्धा।

मासिक

(२) आर्यमहिला*—१६१८ से प्रकाशित ; महिलाओं की सबसे पुरानी पत्रिका ; इससे स्वस्थ मानसिक सामग्री मिलती है। गृहोपयोगी लेख रहते हैं ; प० जगतगंज, बनारस।

(३) कन्या*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० सर्वश्री ‘अशोक’ बी. ए., केशवप्रसाद विद्यार्थी ; कन्याओं के मनोविज्ञान को ऊँचा उठाने वाली सामग्री प्रकाशित होती है ; वा० मू० ३॥, प्रति ॥ ; प० नारायणगढ़ (मालवा)

(४) गृहिणी—जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० मण्डल में श्रीमती राधादेवी गोयनका, महाबलकुमारी राम, शारदादेवी शर्मा, शकुन्तलादेवी खरे हैं ; प्रबन्ध सं० श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा ; महिलाओं में जीवन और जागृति का संचार कर उन्हें आदर्श गृहिणी और वीर जननी बनाना ही उद्देश्य है। ‘गांधी पुण्य स्मृति अङ्क’ (पृष्ठ ६८) हमारे सामने है ; अनेक रंगीन चित्रों से सुसज्जित, बापू के जीवन और मिशन सम्बन्धी लेखों से भरपूर है ; आशा है पत्रिका हिन्दी जगत में सम्मान प्राप्त करेगी ; वा० मू० ६॥, प्रति ॥ ; प० नागपुर।

(५) ज्योत्सना*—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री शिवेन्द्रनारायण ; स्त्रियोपयोगी काफी सामग्री रहती है ; वा० मू० ८०, ८) प्रति ॥), प० कदमकुआँ पार्क, पटना ।

(६) जननी—४ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री देवदत्त शास्त्री, शचीरानी गुदूँ ; स्त्रियों की सांस्कृतिक पत्रिका है ; स्वास्थ्य सम्बन्धी व गृहोपयोगी लेख अच्छे रहते हैं ; ‘घर की बातें’, ‘बालभारती’, ‘बिखरे फूल’, ‘अन्नपूर्णा भगडार’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं । वा० मू० ५), पृष्ठ ३२ ; प० जननी कार्यालय, नया बेहराना, प्रयाग ।

(७) जागृत माहिला*—फरवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री ‘शलभ’ तथा श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय ; महिला मण्डल, उदयपुर की मुख-पत्रिका ; प्रथमांक ‘माता कस्तूरबा अङ्क’ निकला ; वा० मू० ६) ; प० उदयपुर ।

(८) जैन महिलादर्श—२७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्रीमती चन्द्राबाई ; सह० सं० ब्रजबालादेवी ; स्त्रियोपयोगी साधारण पत्रिका है ; ‘स्वाध्याय’ तथा ‘स्वास्थ्य’ विषयक स्तम्भ भी हैं ; जैन समाज की विज्ञप्तियाँ ही अधिक रहती हैं ; वा० मू० ३॥), पृष्ठ ३० ; प० महिलादर्श कार्यालय, कपाटिया चकला, चन्द्राबाई, सूरत ।

(९) दीदी—६ वर्ष से प्रकाशित ; प्रधान सं० श्रीमती यशोवती तिवारी, प्रबन्ध सं० श्री श्रीनाथसिंह ; भारतीय स्त्रियों और कन्याओं की सचित्र पत्रिका ; कविता, कहानियों आदि का चुनाव साहित्यिक दृष्टि से सुन्दर रहता है ; श्रीनाथसिंहजी के सम्पादन का शौर्य प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है ; ‘विविध समाचार’, ‘नई किताबें’, ‘अपने विचार’, ‘प्रश्न पिटारी’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं । विदुषी महिलाओं की सम्पादिका-समिति भी है ; माषा हिन्दुस्तानी ; कदाचित् स्त्रियोपयोगी सर्वश्रेष्ठ पत्रिका इसे ही कहा जा सकता है ; इसका प्रसार भी बहुत है ; वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ६० ; प० दीदी कार्यालय, इलाहाबाद ।

(१०) नारी—सितम्बर १६४७ से प्रकाशित ; संरक्षिका श्रीमती

विजयलक्ष्मी, पंचित ; सं० कुमारी द्वरदेवी मूलकाली ; महिला जगत में सामाजिक, बौद्धिक, तथा सांस्कृतिक, चेतना, उत्पन्न करना, तथा, उनकी सामयिक समस्याओं का समाधान ही इसका उद्देश्य है ; लेख उद्देश्यानुकूल अच्छे रहते हैं ; उच्चशिक्षित, जियों के लिए ही उपयोगी है ; छपाई गेट अप सुन्दर ; भविष्य उज्ज्वल है ; वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ६४ ; प० नारी, कार्यालय, कमच्छा, बनारस ।

(११) भारती—अगस्त १६४७ से प्रकाशित ; संचार तथा सं० डा० धनरानीकुँवर, सह० सं० श्री महिपालसिंह ; लेखादि अच्छे रहते हैं ; कहाँचियाँ ही अधिक छपती हैं ; वा० मू० ३॥), प्रति ॥) ; प० एबट रोड, लखनऊ ।

(१२) मनोरमा—अप्रैल १६२४ से प्रकाशित ; प्रारम्भ में श्री भक्त-शिरोमणि तथा श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल' के सम्पादन में निकली ; ६, वर्ष के बाद प्रकाशन स्थगित हो गया ; नवम्बर १६४७ से पुनः प्रकाशित ; सं० श्रीमती हीरादेवी चतुर्वंदी, श्री भक्तसज्जन, महिलोपयोगी पारिवारिक सचित्र पत्रिका है ; इसमें सामाजिक लेख विशेषकर नारियों की समस्याओं को लेकर अधिक रहते हैं ; श्री 'निर्मलजी' के समय में उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिका थी ; 'बच्चों की दुनियाँ', 'फब्बरे की छीट' आदि स्तम्भ सुन्दर हैं, जिनमें बाल-विषयक तथा अन्य विषयों पर उपयोगी लेख रहते हैं ; कहाँनियाँ भी सुन्दरिपूर्ण रहती हैं ; 'होलिकांक' भी सुन्दर निकला था । वा० मू० ५॥) ; प० वेलवीडियर प्रेस, प्रयाग ।

(१३) मोहिनी—जून १६४७ से प्रकाशित ; संचार श्रीमती गायत्रीदेवी वर्मा, भगवानदेवी पालीबाल ; प्रबन्ध सं० श्रो रामदुलार शुक्ल ; कहानियाँ अधिक रहती हैं ; जियों की समस्याओं पर पाठकों का पृष्ठ स्तम्भ है ; 'पुस्तक परिचय' स्तम्भ में समालोचना छपती है ; वा० मू० ३), प्रति ।—) ; प० मोहिनी कार्यालय, फाफामाऊ कैसल, प्रयाग ।

(१४) शान्ति—अक्टूबर १६३० से प्रकाशित : संचार श्रीमती शान्ति

देवी ; सं० श्री वासुदेव वर्मा ; यह प्रारम्भ में लाहौर से ही निकलती थी पर अब पंजाब विभाजन के बाद दिल्ली से । 'परिवार की छाया में समाज के नवनिर्माण की प्रतीक' पत्रिका है ; पारिवारिक समस्याओं व समाज में लियों का स्थान तथा अन्य सामयिक समेस्योंओं पर लेख सुन्दर रहते हैं ; 'शान्ति परिवार' पृष्ठ में पाठिकाओं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ; ऐसी उपयोगी पत्रिका का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए ; वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ६२ ; प० शान्ति-कार्यालय, पहाड़गंज, दिल्ली ।

पात्रिक

(१५) चत्राणी—१ मई १९४८ से प्रकाशित ; सं० रामपाली भाटी 'प्रभाकर' ; जातीयता और वर्गवाद से दूर नारी जगत का उथान ही इसका उद्देश्य है ; 'अपनी रक्षा आप' की भावना जाग्रत करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है ; इसमें केवल महिलाओं के ही लेखादि छपते हैं ; 'पाठिकाओं के पत्र' 'सौन्दर्य और स्वास्थ्य' स्थायी स्तम्भ हैं ; आशा है यह उन्नति करेगी ; वा० मू० ५) ; प० चत्राणी सेवा सदन, जोधपुर ।

१४. कला, संगीत व सिनेमा

(क) कला : त्रैमासिक

(१) कलानिधि*—चैत्र पूर्णिमा २००४ से प्रकाशित; सम्पादकमण्डल में सर्वश्री महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, हुमायूँ कबीर, वासुदेवशरण अग्रवाल, मोतीचन्द्र, रविशंकर म० रावल, प्रजमोहन व्यास तथा रायकृष्ण-दास हैं ; भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधी सचित्र पत्र ; प्रति अंक में चार रंगीन तथा तीस सादे चित्र एवं डबल क्राउन अठपेजी के ६४ पृष्ठों की पठनीय सामग्री ; वा० मू० १६), प्रति ५) ; प० भारत कला भवन, बनारस ।

मासिक

(२) नृत्यशास्त्रा—हाल ही में प्रकाशित ; सं० श्री ‘सुधाकर’ ; नृत्य सम्बन्धी सचित्र, आर्ट कागज पर छपी आकर्षक पत्रिका ; प्राचीन नृत्यकला को लेकर गवेषणापूर्ण लेख भी रहते हैं ; लेखों पर पारिश्रमिक भी दिया जाता है ; वा० मू० २४), प्रति २) ; प्रकाशक—श्री प्रभुलाल गर्ग, ‘संगीत’ कार्यालय, हाथरस (यू० पी०) ।

(३) माला—हाल ही में प्रकाशित ; सं० सुश्री कलावती देवी ‘बघी’ ; सिलाई, कटाई, बुनाई, गृह-विज्ञान-कला, शिल्प शिक्षा की सचित्र पत्रिका ; बेलबूटे, कसीदा कढाई आदि सिखाया जाता है ; अनेक रंग-बिरंगे चित्रों से सुसज्जित ; गीत-स्वरलिपि भी रहती है ; रागिनी से जानकार कराया जाता है ; ‘निजी पत्र’ स्तम्भ में पाठिकाओं के पत्रोचर छपते हैं । यह अभिनव प्रयास अभिनन्दनीय है ; वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ४० ; प० नागरी प्रेस, दारागंज, प्रयाग ।

(४) लेखक—१६३५ से प्रकाशित ; दो वर्ष निकल कर प्रकाशन स्थगित होगया ; अब १ जनवरी से पुनः प्रकाशित ; सं० श्री 'भारतीय' ; अपने विषय का एक मात्र पत्र ; लेखन-कला संबंधी लेख ही छपते हैं ; अनूदित लेखकों के लिये बहुत उपयोगी पत्र है ; वा० मू० ३), प्रति ।—), पृष्ठ १८ ; प० शारदा प्रेस, नया कटरा, प्रयाग ।

(ख) संगीत : मासिक

(१) संगीत—१४ वर्ष से प्रकाशित ; संस्था० श्री प्रभुलाल गग्न ; सं० श्री ज० दे० पत्की ; सिनेमा संबंधी तथा अन्य पत्के रागों की स्वर लिपियों तथा वाय विषयक शिल्पा के लेख रहते हैं ; रेडियो संगीत स्तम्भ भी है ; 'नृत्य अंक' आदि कई विशेषाङ्क भी निकले हैं । वा० मू० ५), पृष्ठ ४० ; प० संगीत कार्यालय, हाथरस (य० पी०) ।

(२) संगीत कलाविहार—दिसम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० प्रो० दी० आर० देवधर ; सह० भ० श्री विनयचन्द्र मौद्गल्य, प्राणलाल सहा ; संगीत विषयक उपयोगी लेख रहते हैं ; रागों की स्वरलिपियों का निर्देश भी इसमें रहता है ; कई लेख मराठी से अनूदित रहते हैं ; 'पाठकों के पत्र' स्तम्भ भी हैं । इसका मराठी संस्करण भी छपता है ; वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ४० ; प० 'संगीत कला विहार' कार्यालय, मोदी चेन्नार्स, फ्रैंच ब्रिज कॉर्नर, अम्बई नं० ४ ।

पाञ्चिक

(३) सारंग—१३ वर्ष से प्रकाशित ; सं श्री एस. एन. घोष ; इसमें ओल इण्डिया रेडियो का कार्यक्रम प्रकाशित होता है तथा वहाँ से प्रसारित कतिपय लेख भी संगृहीत होते हैं ; आहक १२००० वा० मू० ७), प्रति ।—) ; प० ओल इण्डिया रेडियो, कर्जन रोड, नई दिल्ली ।

(ग) सिनेमा : मासिक

(१) 'भिन्न'—आगस्त १६३८ से प्रकाशित ; संचा० श्री विश्वनाथ बूबना ; सं० सर्वश्री विश्वनाथ बूबना, रणधीर साहित्यालंकार ; कला की

उत्थयोगिता और विशेषत; सिनेमा के जिए प्रचार और आन्योलन ही उद्देश्य है; प्रत्येक दिवाली पर नव वर्षाङ्क भी निकलता है; हिन्दी के सिनेमा-पत्रों में सर्वाधिक प्राप्तीन, वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० ३५ बड़तज्ज्ञा स्टूड, अलकटा।

(२) आदर्श*—सं० श्री शान्तश्रोरोरा ; वा० मू० ६) प्रति ॥) ; प० आदर्श कार्यालय, ७, कानर चैम्बर्स, शिवाजी पार्क ; बम्बई २८।

(३) कौमुदी—६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री चन्द्रधर ; सिनेमा सम्बन्धी चित्र ही अधिक रहते हैं; ‘बाल-कौमुदी’ के कृष्ण बच्चों के लिए सुरक्षित हैं; लेख आदि भी अच्छे रहते हैं। वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० ७, दरियागंज, दिल्ली।

(४) दीपशिखा—सितम्बर १६४७ से प्रकाशित ; सं० श्री देवेन्द्र ; ‘सितारों के सन्देश’, ‘बौद्धम की भोली’ आदि स्थायी स्तम्भ हैं; सिनेमा सम्बन्धी लेख अच्छे रहते हैं; एकांकी, कहानी, गीत, कविताएँ भी छपती हैं; वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ५० ; प० पाटलीपुत्र प्रकाशन मंदिर, पटना।

(५) रजतपट*—सं० श्री के. पी. अग्रवाल ; प० १७६, बड़ा बाजार, मदु (मध्यभारत)।

(६) रंगभूमि—७ वर्ष से प्रकाशित ; सं० आचार्य मंगलानंद गौतम; पुस्तकाकार प्रकाशित यह सचित्र पत्रिका है; ‘सम्पादक की डाक’ स्तम्भ के अन्तर्गत पाठकों के पत्र का उचर मार्मिक रहता है; सिनेमा सम्बन्धी समाचार ही अधिक रहते हैं; वा० मू० १०), प्रति ॥) ; प० रंगभूमि प्रिंटिंग प्रेस, १४१ शिवाजी पार्क, बम्बई २८।

(७) रसभरी—६ वर्ष से प्रकाशित ; संचा० आचार्य मंगलानंद गौतम ; सं० श्री देवेन्द्रकुमार, पाहो; सं० श्री मंगलदेव शर्मा ; सिनेमा संबंधी समाचारों के अल्पिरिक्त एकम्बो कहानी भी रहती है; वा० मू० ५), प्रति ॥), पृष्ठ ५० ; प० रसभरी कार्यालय नर्द सड़क, दिल्ली।

(८) स्क्रिप्ट इंग्लिश—कुछ वर्षों से प्रकाशित ; सं० धर्मपाल गुप्ता व भास्कर ; ‘सितारों की हुनियाँ में’ स्थाची स्तम्भ है ; प्रतियोगिता फेजी भी रहती है ; सिनेमा सम्बन्धी आलोचनाएँ की जाती हैं। ‘मन्दू की चिट्ठी’ में जुहुल रहती है ; सम्पादक की डाक में प्रश्नोक्तर, राजसें और दीद विशेषज्ञता सिनेमाओं के रहते हैं। प्रति ॥ ; प० दिल्ली ।

(९) सिने-तस्वीर—२ वर्ष से प्रकाशित ; सं० सर्वश्री रामचन्द्रभसाद अँसू, श्रीकृष्ण खत्री ; इसमें एकांकी नाटक भी रहते हैं। वा० मू० ६, प्रति ॥), पृष्ठ ६० ; प० ३७४, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

(१०) सिनेमा—अप्रैल १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री भास्कर, सह० सं० श्री सुरेशचन्द्र मिश्र साहित्यालंकार । कहानियाँ भी प्रकाशित होती हैं ; ‘बम्बई की चिट्ठी’ प्रधान स्तम्भ है ; सिनेमा विषयक प्रश्नों का उत्तर भी रहता है ; वा० मू० ६), प्रति ॥) ; प० १७/११ महात्मा गांधी रोड, कानपुर ।

पाद्धिक

(११) नवचित्रपट—जनवरी १६४८ से प्रकाशित ; सं० श्री सत्येन्द्र श्याम ; ‘सिनेमा समाचार’ स्तम्भ में नए चित्रों की सूचना, ‘मधुचक्र’ में फिल्मी गाने तथा ‘जुहू तट से’ स्तम्भ के अन्तर्गत हास-परिहास छपता है ; इसके अतिरिक्त ‘हमारी डाक’ में प्रश्नोत्तर व कहानी भी रहती है । वा० मू० ६), प्रति ॥), पृष्ठ ५४ ; प० ६२, दरियागंज, दिल्ली ।

सामाहिक

(१२) चित्रपट*—१६ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री सत्येन्द्र श्याम ; ग्राहक १०,००० ; प० चित्रपट कार्यालय, २३, दरियागंज, दिल्ली ।

(१३) तारा*—सं० धर्मपाल गुप्त ; वा० मू० १२), प्रति ॥) ; प० तारा कार्यालय, कूँचा सेठ दरीबा, दिल्ली ।

(१४) मनोरंजन—८ वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री गिरीशचन्द्र त्रिपाठी ;
लेख व कहानियाँ अच्छे रहते हैं ; 'बाल-मनोरंजन' शीर्षक के अन्तर्गत अच्छों
की पहेलियाँ भी छपती हैं । वा० मू० ६), प्रति २५ ; प० मनोरंजन प्रेस, ६७
बाजल पाड़ा लेन, सलकिया, हस्तड़ा ।

(१५) रिमझिम—१५ सितम्बर १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री देवेन्द्र,
हरेन्द्र ; इसमें सिनेमा के गीत भी आते हैं ; 'सम्पादकीय छाक' स्तम्भ भी
है । वा० मू० ६), प्रति २५ । प० ६, डी गरदनी बाग, पटना ।

१५. विविध

(क) कानून : मासिक

न्याय बोध—गत वर्ष से प्रकाशित ; सं० श्री नरहरि बलवंत खदूकप ;
इसमें केन्द्रीय तथा धारा सभाओं के कानून और नियम तथा विलायत की
प्रीवी कौसिल, फेड्रेलकोट, नागपुर, इलाहाबाद, मद्रास, बंगाल आदि
हाईकोर्टों के फैसले भी प्रकाशित होते हैं ; यह अपने विषय की हिन्दी
में पहली ही पत्रिका है ; आज जब कि समाज का सारा जीवन कानून मय
बनता चला जारहा है, जन साधारण के लिये हिन्दी में ऐसी जानकारी देने
के लिए यह परमोपयोगी है ; इसका भराठी संस्करण भी प्रकाशित होता है
वा० मू० ८), प्रति १), पिछली प्रति २) ; प० तिलकरोड़, नागपुर।

(ख) चयन-पत्र : मासिक

(१) राजस्थान चितिज—अप्रैल १९४५ से प्रकाशित ; संचा० व सं०
श्री कृषि जैमिनी कौशिक ; राजस्थान प्रान्त की प्रवृत्तियों के अतिरिक्त इसमें
अधिकांश लेख श्रेष्ठ पत्रों से उद्धृत रहते हैं ; लेखों का चयन सुन्दर रहता
है ; हिन्दी भाषा का यह पहला 'डाइजेस्ट' है, इसका प्रचार वांछनीय है ।
वा० मू० १०), प्रति १), पृष्ठ ६०, प० राजस्थान चितिज प्रेस, नरेन्द्र भवन,
अलवर ।

(२) सौरभ—आगस्त १९४८ से प्रकाशित ; सं० श्री लक्ष्मीकान्त मुख्य ;
सह० सं० श्री पी० डी० जैन ; विश्वसाहित्य का संचय-पत्र ; राष्ट्रीय तथा
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर देशी और विदेशी पत्रिकाओं के विशेष लेख
अनुदित रहते हैं ; प्रयास अभिनन्दनीय है ; प्रामाणिक अनुवादकों के लेख
रहने से उपयोगिता और विषय की महत्त्वा और भी बढ़ेगी ; वा० मू० ५),
प्रति ॥) पृष्ठ ७५ ; प० सौरभ कुटीर, नई सड़क, दिल्ली ।

(ग) रेलवे तथा यातायात : मासिक

रेलवे समाचार—फरवरी १६४८ (वसंत पंचमी सं० २००४) से प्रकाशित; सं० श्री ब्रजबिहारीलाल गौड़ ; अंग्रेजी में 'रेलवे वर्कर' नाम से प्रयाग से एक पत्र गत आठ वर्षों से इन्हीं के सम्पादन में प्रकाशित होता रहा है; अब हिन्दी में प्रकाशित; पत्र का उद्देश्य रेलवेकर्मचारियों को लाभप्रद सुझाव देना, उनमें आधे भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रबन्ध करना तथा रेलवे मजदूरों, यात्रियों और रेल से काम लेने वाले व्यापारी वर्ग की कठिनाइयों को दूर कराने का प्रयत्न करना है; बास्तव में इसका प्रकाशन अभूतपूर्व और अभिनन्दनीय है। वा० मू० ४), प्रति ॥=), पृष्ठ ३२; प० १७६ बेरहना, इलाहाबाद तथा पो० रामबन बाया सतना (सी. पी.)

(घ) द्वैभाषिक : मासिक

नगा हिन्द—जनवरी १६४५ से प्रकाशित; सं० सवंशी ताराचन्द, भगवान्दीन, मुजफ्फरहसन, विश्वस्मर नाथ, सुन्दरलाल। हिन्दुस्तानी कल-चर सोसायटी (प्रयाग) का इस पत्र; इसमें आधेष्टुष में लेख व कविता नागरी लिपि में रहती हैं तथा दूसरी ओर आधे पृष्ठ में फारसी लिपि में लिखे रहते हैं। इस प्रकार हिन्दुस्तानी भाषा को प्रचारित किया जाता है; दोनों तरफ लेख एक ही होता है, यहाँ तक कि लखकों के नामों का भी उद्दृश्यु अनुवाद छपता है; मोटे टाइप में छपाई होती है, लेख साधारणतः रुचिप्रद, शिक्षापूर्ण एवं सरल भाषा में लिखे रहते हैं। वा० मू० ६) प्रति ॥=), पृष्ठ ६८; प० ४८, बाई का बाग, इलाहाबाद।

(ङ) सर्वविषयक : मासिक

जीवन विज्ञान—अप्रैल १६४६ से प्रकाशित; सं० श्री चन्द्रराज भेदडारी; जीवनोपयोगी सर्वांगीण साहित्य का पत्र, नारी समस्या, बनस्पति विज्ञान, चिकित्सा, आरोग्य, साहित्य, संस्कृति, शासन, कृषि, शिक्षा, धर्म, कला आदि सभी विषयों पर उपयोगी लेख रहते हैं; यह अथवे ढंग का

निराला है ; अपने सुयोग्य सम्पादक के अधीन उन्नति करेगा, ऐसी आशा है ; 'मासिक घटना चक्र' आदि स्थायी स्तम्भ हैं ; क्रियात्मक राजनीति से सम्बन्धित लेख इसमें नहीं छपते ; वा० मू० १०), प्रति १) ; ५० भानपुरा, इन्दौर ।

(च) परीक्षोपयोगी : पान्निक

(१) विद्या*—(प्रथम खण्ड) २० नवम्बर १६४७ से प्रकाशित ; नागपुर विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा के १६२५ से १६४७ तक के प्रश्न-पत्रों का सभी मुख्य विषयों (हिन्दी, मराठी, गणित, भूगोल, नागरिकता) का उत्तर रहता है ; मराठी संस्करण भी छपता है ; एक अंक में पृष्ठ १० ; वा० मू० १०) ; पा० सीता वर्ढी, नागपुर ।

(२) विद्या—(द्वितीय खण्ड) २० नवम्बर १६४७ से प्रकाशित ; अजमेर बोर्ड की इंटर परीक्षा के विषय में (अंगरेजी, हिन्दी, मराठी, अर्थ-शास्त्र, तर्क शास्त्र और नागरिकता) पर विवेचक प्रश्नोत्तर रहते हैं । एक अङ्क में पृष्ठ ६, वा० मू० ६) , इसका मराठी संस्करण भी निकलता है ; पा० सीतावर्ढी, नागपुर ।

१६. विदेशों के हिन्दी-पत्र

श्री आचार्य नित्यामन्द सारस्वत

भारतवर्ष में ही अंग्रेजी भाषा के अखबारों को जितना महत्व दिया जाता है उतना हिन्दी के समाचारपत्रों को नहीं। फिर भी विदेशों में जहाँ अंग्रेजी आदि का अखबार साम्राज्य रहा है—हिन्दी पत्रों के भी पनपने का अपना इतिहास है। वहाँ हिन्दुस्तान से निकलने वाले उच्च-कोटि के अनेक हिन्दी पत्रों की भी मौँग है। ‘कल्याण’ (गोरखपुर) और ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (काशी) काफी तादाद में विदेशों को रवाना होते हैं। श्री भवानीदयालजी सन्यासी द्वारा ‘प्रवासी भवन अजमेर’ से प्रकाशित होने वाला ‘प्रवासी’ भी मुख्य रूप से विदेशों के लिये ही छपता है। यह सुरुचिपूर्ण और प्रवासी भाइयों की समस्या को सुलझाने वाला हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपने वाला मासिक पत्र है। इसका मूल्य १० रु० वाषिक है।

नेटाल में जब महात्मा गांधी ने श्री भवानीदयालजी सन्यासी का बुला लिया था, तब गांधीजी के ‘इण्डियन ऑपिनियन’ में हिन्दी-विभाग भी रखा जाने लगा। उन दिनों हिन्दी पाठकों की वहाँ बहुत कमी थी। जितने थे, उन्होंने भी विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। अन्ततोगत्वा यह विभाग छन्द कर देना पड़ा। पर सन्यासीजी का विश्वास था कि प्रवासी भारतीयों में आत्माभिमान की जाग्रत्ति एवं स्वदेशोन्नति विषयक संगठन के लिये हिन्दों को साधन बनाना जरूरी है। फलस्वरूप धार्मिक भावनाओं को आधार बना कर वे ‘धर्मवीर’ नामक सामाजिक का सम्पादन करने लगे। यह पत्र चार वर्ष तक चला। फिर श्री भवानीदयालजी ने ‘हिन्दी’ का सञ्चालन किया। अनेकों उपनिवेशों में इसका प्रचार हो जाने पर भी आर्थिक

स्थिति सुष्टुप न हो सकी। वैसे भी राजनीतिक कार्यों में अधिक ध्याल रहने के कारण 'हिन्दी' का प्रकाशन सन्यासीजी अधिक दिन न कर सके। बाद में वहाँ हिन्दी में 'राइजिंग सन्' निकला तो सही किन्तु 'असूर्या नाम ते लोका' में हिन्दी की उज्ज्वल ज्योति उचित रूप में आज तक भी न फैल सकी।

पोर्ट लुईस के 'मोरिशस इण्डियन टाइम्स' (साप्ताहिक) में भी हिन्दी की सामग्री रहती थी। आर्यसमाज के दृष्टिकोण को उस्थित करने के लिये 'आर्य-वीर' और 'आर्य-पत्रिका' भी हिन्दी में प्रकाशित होने लगे। प्रतिक्रिया स्वरूप 'सनातन धर्मार्क' का भी उदय हुआ। पर उसे अस्त होने में भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 'आर्य-पत्रिका' भी चोला अदल कर 'जाग्रति' कहलाने लगी। 'आर्य वीर' के दर्शन भी कुछ समय पहले तक होते थे। 'आर्यवीर जाग्रति' पं० लक्ष्मणदत्त के सम्पादन में २२, फर्कुतार स्ट्रीट, पोर्ट लुईस (मोरिशस) से निकलती है। मोरिशस आदि की ओर हिन्दी की चर्चा उन्नति-पथ पर है और यह प्रयास है कि उधर से किसी सुव्यवस्थित हिन्दी पत्र का सञ्चालन किया जाय।

सुवा में 'फोजी समाचार' का प्रकाशन आरम्भ से ही जन सेवा का लक्ष्य लेकर हुआ। यह समाचार प्रधान साप्ताहिक है। यह 'इण्डियन प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी, मार्क्स स्ट्रीट, सुवा' की ओर से प्रकाशित होता है। आजकल इसके सम्पादक श्री रामखिलावन शर्मा हैं। इसमें पृष्ठ संख्या १२ से १६ तक रहती है। एक प्रति का मूल्य ३ पेनी और वर्ष भर का १० शिलिंग है। इसके कुछ पृष्ठ अंग्रेजों के लिये सुरक्षित रहते हैं। 'इण्डिया मेटलर्स' में भी लोथो से मुद्रित हिन्दी विभाग रहता था। सम्प्रदायवादी नीति को लेकर 'वैदिक संदेश' और 'सनातन धर्म' मासिक रूप में निकले। पर दोनों दी चिरस्थायी न हो सके।

डॉ० बी० टी० नामक अंग्रेज ने अपने प्रेस से पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र हे सम्पादकत्व में 'वृद्धि' नामक मासिक पत्र निकाला। कुछ समय तक यह

साप्ताहिक रूप में भी छपा, फिर भी अल्पप्राण ही रहा। इसी प्रकार श्री क्राशीराम के सम्पादकत्व में 'प्रवासिनी' (मासिक पत्रिका), श्री केशवराम द्वारा सम्पादित 'सनातन प्रकाशक' श्री ज्ञानीदास के सम्पादकत्व में 'ज्ञान' (मासिक) और श्री शमीम के सम्पादकत्व में 'जिल जाल' (मासिक) का हिन्दो संस्करण आदि भी प्रकाशित होते रहे और धीरे २ अष्टश्य भी।

एक यूरोपियन एलफोर्ड बार्कर का 'शान्तिदूत' (साप्ताहिक) आज १३ वर्षों से हिन्दो से गा कर रहा है। वहाँ की अर्धशिक्षित जनता इस समाचार प्रधान पत्र को बहुत पसन्द करती है, किन्तु वैसे भाषा भाव और गेटअप के दृष्टिकोण से यह साधारण कोटि का हो है। इसमें अंग्रेजी भी रहती है। पृष्ठ संख्या और मूल्य 'फीजी-समाचार' के अनुसार ही हैं। यह 'फीजो टाइम्स प्रेस' सूवा से प्रकाशित होता है।

'राजदूत' ने भी कुछ दिनों तेजी रखो, पर महाप्राण न निकला। 'किसान' (साप्ताहिक) ने किसानों के हित की संरक्षा में आवाज बुलन्द की। पर कुछ समय बाद दलबन्दी के चक्कर में इस का प्रभाव दीर्घ होगया। इन दिनों नियमित छपता भी नहीं। 'भारतपुत्र' और 'स्कूल जर्नल' (त्रैमासिक) भी अधिक दिनों प्रकाशित न हुए।

१९४२ में 'तारा' नामक मासिक पत्रिका श्री ज्ञानीदास के सम्पादकत्व में निकली। कुछ दिनों यह पात्रिक भी रहो और कुछ दिनों लीथो में ही छपी। आज-कल इसका त्रैमासिक संस्करण निकलता है। इस सुन्यवस्थित पत्रिका में साहित्यिक सामग्री के साथ ही राजनैतिक चेतना के विषय भी रहते हैं। प्रत्येक अंक करीब १०० पृष्ठ संख्या में पुस्तकाकार निकलता है। कागज अच्छा है। एक प्रति का ३ शिलिंग और वार्षिक मूँ १२ शिलिंग है। 'तारा कार्यालय' नसीनू, सूवा (फीजी) से प्रकाशित होती है।

१९४५ के आस-पास श्री रामखेलावन शर्मा के सम्पादकत्व में 'प्रकाश' भी प्रकाशित हुआ था। यह साप्ताहिक पत्र था, पर शीघ्र ही अन्तर्धान होगया। श्री रामसिंहजी के सम्पादकत्व में 'इंडियन टाइम्स' आज

भी हिन्दी और अंग्रेजी के संयुक्त मासिक संस्करण रूप में चालू है। पृष्ठ संख्या २४ और कागज रफ ही रहता है। कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। वार्षिक मूल्य ६ शिलिंग और एक प्रति का ६ पेनी है। इण्डियन टाइम्स प्रेस, बक्स ३४१ सूवा (फीजी) से प्रकाशित होता है।

आर्य-पुस्तकालय की ओर से 'पुस्तकालय' नामक पत्र भी निकला था, कहने की आवश्यकता नहीं अचिरस्थायी निकला। हाँ, नान्दा से 'दीनबन्धु' आज कल भी निकलता है। सायक्लोस्टाइल पर छपता है और पेज भी चार ही रहते हैं। दीनबन्धु कार्यालय से प्रकाशित होता है। सम्पादक का नाम और मूल्य पत्र पर छापने की जरूरत नहीं समझी जाती।

इस प्रकार अनेक उपनिवेशों में हिन्दी-पत्रों के सांगोपांग विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। आवश्यकता है सेवा भावी कार्यकर्ताओं की। यदि ट्रांसवाल, युगाएडा, केनिया, जंजिबार, मेडागास्कर, रोडेसिया, मोजम्बिक आदि में हिन्दी-पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए, तो वह शीघ्र ही फलवती हो सकती है। हमें तो विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी के आसीन होते ही विदेशों में भी हिन्दी पत्रों का तेजी से प्रकाशन और प्रचार अनिवार्य रूप से प्रगति करेगा।

परिशिष्ट १.

पत्रों का वर्णनुक्रम

अ	सं.	नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ		
१ अकेला सा. तिनसुकिया	११५	१६ अप्सरा — बनारस	१७	अभ्युदय सा. प्रयाग	×
२ अखण्डज्योति मा. मथुरा	५७	१८ अभिनय मा. कलकत्ता	१८	अभिनय मा. कलकत्ता	१३६
३ अग्रवाल मा. अलीगढ़	×	१६ अमरज्योति मा. कानपुर	१६	अग्रवाल मा. अलीगढ़	८४
४ अग्रवाल मा. दिल्ली	११३	२० अमरज्योति सा. जयपुर	२०	अग्रवाल मा. दिल्ली	६०
५ अग्रवाल-		२१ अमर-		अग्रवाल-	
पत्रिका मा. हाथरस	११३	उजाला दै. आगरा	११३	हाथरस	४४
६ अग्रवाल-		२२ अमर भारत दै. दिल्ली	२२	अग्रवाल-	४४
हितैषी मा. आगरा	११३	२३ अमर भारत मा. उदयपुर	११३	हितैषी मा. आगरा	×
७ अच्युत मा. काशी	×	२४ अमृत मा. हैदराबाद	२४	अच्युत मा. काशी	×
८ अजगर पा. काशी	७५	२५ अरुण मा. मुरादाबाद	७५	अजगर पा. काशी	६८
९ अतीत मा. हाथरस	७१	२६ अर्थ संदेश त्रै. वर्धा	२६	अतीत मा. हाथरस	१२५
१० अदिति त्रै. पांडीचेरो	५७	२७ अरुण सा. मुरादाबाद	२७	अदिति त्रै. पांडीचेरो	×
११ अधिकार दै. लखनऊ	४४	२८ अरुण सा. नैनीताल	४४	अधिकार दै. लखनऊ	×
१२ अनुभूत-		२९ अरुणोदय सा. इटावा	११६	अनुभूत-	६५
योगमाला मा. इटावा	३०	अलबर-	३०	योगमाला मा. इटावा	
१३ अनेकान्त मा. सरसावा	५३	पत्रिका सा. अलबर	१००	अनेकान्त मा. सरसावा	
१४ अपनादेश सा. प्रयाग	×	३१ अलीगढ़-		अपनादेश सा. प्रयाग	
१५ अपना-		अखबार सा. अलीगढ़		अपना-	×
हिंदुस्तान मा. लक्खर	७८	३२ अवध सा. प्रतापगढ़	७८	हिंदुस्तान मा. लक्खर	×

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ सं.
३४ अयोध्या-				५४ आर्य-			
वासी पंच	सा. फरुखाबाद	×		जगत	सा. जालंधर	५१	
३४ अशोक	दै. इन्दौर		४४	५५ आर्यबन्धु	मा. नागपुर		×
३५ अशोक	मा. दिल्ली		११६	५६ आर्यभानु	सा. हैदराबाद	५२	
आ				५७ आर्यभानु	सा. शोलापुर		×
३६ आकाशवाणी	सा. जालंधर		६५	५८ आर्य-			
३७ आगामीकल	सा. खण्डवा		८५	मदिला	मा. बनारस		×
३८ „	सा. इन्दौर		×	५९ आर्य-			
३९ आज	दै. काशी		४४	मार्तंण्ड	सा. अजमेर	५२	
४० आजकल	मा. दिल्ली		६७	६० आर्यमित्र	सा. लखनऊ	५२	
४१ आजाद-				६१ आर्यवर्त	दै० पटना	४४	
सैनिक	सा. पटना		×	६२ आर्यवीर-			
४२ आजादहिंद	सा. पटना		×	जागृति	सा. मोरिशस		×
४३ आत्मधर्म	मा. मोटाआंकड़िया	५३		६३ आर्य			
४४ आदर्श	सा. कलकत्ता	६१		सेवक	पा. नागपुर		×
४५ आदर्श	मा. दिल्ली	६६		६४ आयुर्वेद	मा. कलकत्ता	११६	
४६ आदर्श	मा. बम्बई	१४०		६५ आयुर्वेद	त्रै. काशी	११८	
४७ आदर्श-				६६ आयुर्वेद			
राजस्थान	सा. भरतपुर		×	पत्रिका	मा. दिल्ली	११६	
४८ आदिवासी	सा. राँची	११७		६७ आयुर्वेद			
४९ आनन्द	सा. उरई (मांसी)	×		सेवक	मा. नागपुर	११६	
५० आनन्द	मा. जोलौन (यूपी)	×		६८ आयुर्वेद			
५१ आनन्द	सा. लखनऊ	×		संदेश	मा. अम्बाला		×
५२ आर्य	सा. अमृतसर	×		६९ आरती	मा. पटना	६८	
५३ आर्य-				७० आरती	मा. नागपुर		×
गौरव	मा. जयपुर		×				

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
७१ आरोग्य	मा. गोरखपुर	११६	६२ ऊषा	सा. गया			८५
७२ आरोग्य-			६३ ऊषा	मा. दिल्ली			×
मित्र	मा. लक्ष्मण	×	६४ एकता	सा. उज्जैन			६५
७३ आलोक	सा. नागपुर	१००	६५ ओसवाल	पा. आगरा			५५
७४ आलोक	चा. मा. जयपुर	७७	६६ अंकुश	सा. खण्डवा			×
७५ आवाज	सा. कलकत्ता	×	६७ अंकुश	सा. फर्रुखाबाद	१०६		
७६ आवाज	सा. बम्बई	×	६८ अंगूर के				
७७ आशा	मा. इन्दौर	७६	गुच्छे	मा. प्रयाग			१२६
७८ आशा	पा. दिल्ली	८४	६९ अंगरेजी				
७९ आसरा	मा. बनारस	×	शिवक	सा. अलीगढ़			×
इ-अ'				क			
८० इतिहास	मा. दिल्ली	६३	१०० कनौज				
८१ इन्द्रधनुष	मा. नागपुर	१२९	समाचार	मा. कनौज			१०५
८२ इन्दौर			१०१ कन्या	मा. नारायणगढ़			१३४
	समाचार दै. इन्दौर	४५	१०२ कबीर				
८३ उज्ज्वल	मा. जलगाँव	७२	संदेश	मा. सतारिक			६०
८४ उजाला	दै. आगरा	४५	१०३ कबीर				
८५ उत्तराखण्ड			संदेश	मा. काशी			×
	समाचार पा. देहरादून	×	१०४ कमल	मा. दिल्ली			१०६
८६ उथान	सा. जयपुर	८८	१०५ कर्मभूमि	सा. लेण्ड-सड़ौन			१००
८७ उदय	मा. दिल्ली	१२६	१०६ कर्मयोग	मा. आगरा			५६
८८ उदय	मा. काशी	×	१०७ कर्मयोगी	पा. प्रयाग			×
८९ उद्यम	मा. नागपुर	१२५	१०८ कर्मवीर	सा. खण्डवा			१००
९० उर्वशी	मा. कानपुर	×	१०९ कल की				
९१ ऊषा	मा. जम्मू	७६	दुनियाँ	सा. जोधपुर			६४

सं. नाम	विगत स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत स्थान	पृष्ठ
११० कलाधर मास पाली			७१ १३२ कृषक बंधु पा. हरसूद (सो.पी.) X		
१११ कलानिधि त्रै. काशो			१३८ १३३ कृषिसंसारमा. बिजनौर	१२४	
११२ कल्पना मा. मेरठ			६८ १३४ कुमाऊँ-		
११३ कल्पषुद्ध मा. उज्जैन			५७ राजपूत मा. अल्मोड़ा X		
११४ कल्याण मा. गोरखपुर			५८ १३५ कुमार मा. मन्दसौर	१३२	
११५ कहानियाँ मा. पटना			५९ १३६ कुमावत-		
११६ कान्यकुञ्ज मा. लखनऊ			११३ चत्रिय मा. जयपुर	X	
११७ कामना छै. मा. कोटा			६६ १३७ कुकुंम मा. कानपुर	X	
११८ कामाञ्जलि मा. सिवनी			१२४ १३८ कुकुंम मा. बम्बई X	X	
११९ कायाकल्प मा. सफोदो (र्जीद) X			१३६ केसरी मा. गया X	X	
१२० किरण मा. प्रयाग			१४० कौमुदी मा. दिल्ली	१४०	
१२१ किलकारी मा. जोधपुर			१२६	ख	
१२२ किशनगढ़			X १४१ खरडेलवाल-		
समाचार मा. किशनगढ़			१३१ जै. हि. पा. इन्दौर	५५	
१२३ किशोर मा. पटना			६६ १४२,, पा. मदनगंज	५५	
१२४ किसान सा. कानपुर			X १४३ खत्री-		
१२५ किसान सा. फैजाबाद			X हितैषी मा. लखनऊ	११४	
१२६ किसान सा. भरतपुर			१४४ खादो-		
१२७ किसान से वक सा. जोधपुर			X जगत मा. वर्धा	१२५	
१२८ किसान सा. जोधपुर			१४५ खिलौना मा. इलाहाबाद	१२६	
संदेश सा. कोटा		६६ ग			
१२९ कृषक मा. नागपुर		१२३ १४६ गढवाली पा. देहरादून	X		
१३० कृषक सा. बक्सर		१२४ १४७ गंधालियर-			
(विहार) X		X समाचार — गंधालियर	X		
१३१ कृषक बंधु सा. हरदोई (यू.पी.) X		१४८ गाँव मा. पटना	११०		

सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट	सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट
१५६ गौव की-				१६५ ग्रामदूत सा. हाथरस	१६६ ग्राम-		×
बात पा. प्रयाग				१११ १६६ ग्राम-			
१५० गीताधर्म मा. बनारस				५७ संसार अ. सा. काशी	५७		६०
१५१ गृहस्थ सा. गया				× १६७ ग्रामोड्योग सा. दिल्ली	१६७		
१५२ गृहिणी मा. नागपुर				१३४ १६८ ग्रामोड्योग-			
१५३ गुमाश्ता मा. इन्दौर				× पत्रिका मा. वर्धा	१६९		
१५४ गुरुकुल-				१६६ ग्राम्य-			
पत्रिका मा. कांगड़ी				११२ जीवन सा. जारखी	१११		
१५५ गुरु-				१७० प्रथालय मा. दिल्ली	१२६		
घटाल सा. बाली (यू.पी.)	×		च				
१५६ गुरुदेव मा. अमरावती-				१७१ चतुर्वेदी मा. प्रयाग	१७१		
(सी.पी.)				१७२ चमचम मा. प्रयाग	१२४		
१५७ गोपाल सा. दिल्ली				१७३ चम्पारन सा. आरा (बिहार)	१७३		
१५८ गोरखपुर-				१७४ चम्पारन-			
अखबार सा. गोरखपुर				समाचार			
१५९ गोशुभ-					सा० मोतीहारी		
चिंतक मा. गया	×				(बिहार)	×	
१६० गोसेवक मा. चौमूँ				१११ १७५ चलचित्र मा० कलकत्ता	१११		
१६१ गोस्वामी मा. प्रयाग				×	१७६ चातक सा० परताबगढ़		
१६२ गौतम-					(यू० पी०)	१७६	
ब्राह्मण-				१७७ चातुक मा० कलकत्ता	७४		
पत्रिका मा. कानपुर				×	१७८ चारण ब्रै० जोधपुर	११३	
१६३ गौरव मा. हाथरस				७६ १७९ चाँद मा० प्रयाग	७६		
१६४ गैंडा-					१८० चिकित्सा		
समाचार — गैंडा (सी.पी.)	×			समाचार सा० कलकत्ता			×

सं. नाम विगत स्थान
 १८१ चिनगारी मा० मिर्जापुर
 १८२ चित्रपट सा० दिल्ली
 १८३ चित्र-

प्रकाश मा० दिल्ली
 १८४ चित्रलोक मा० कलकत्ता
 १८५ चित्रा मा. कलकत्ता
 १८६ चित्रालय — अम्बई
 १८७ चेतना सा. काशी
 १८८ चेतना मा. अम्बई
 १८९ चौपाल मा. हाथरस

छ

१९० छत्तीसगढ़-
 केसरी सा. रायपुर
 १९१ छाया सा. कलकत्ता
 १९२ छाया मा. इलाहाबाद
 १९३ छाया मा. दिल्ली
 १९४ छाया सा. अम्बई
 १९५ छायालोक सा. अम्बई

ज

१९६ जनता दै. इन्दौर
 १९७ जनता सा. कलकत्ता
 १९८ जनता सा. जययुर
 १९९ जनता सा. पटना
 २०० जनता सा. लखनऊ

पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
६६	२०१ जननी	मा. प्रयाग	१३५	
१४१	२०२ जनपथ	सा. कलकत्ता	११०	
	२०३ जनमत	सा. इटावा	×	
×	२०४ जनयुग	सा. अम्बई	६४	
×	२०५ जनवाणी	मा. बनारस	६६	
×	२०६ जनशक्ति	दै. पटना	४५	
×	२०७ जनशिक्षक	मा. पटना	×	
६५	२०८ जनसेवक	मा. मेरठ	६६	
७६	२०९ जनार्दन	सा. मथुरा	×	
१११	२१० जन्मभूमि	दै. जोधपुर	×	
	२११ जन्मभूमि	सा. पटना	×	
	२१२ जन्मभूमि	दै. जोधपुर	×	
	२१३ जयभारत	दै. इन्दौर	×	
८८	२१४ जयभारती	मा. पूना	७३	
×	२१५ जयभूमि	दै. जयपुर	४५	
×	२१६ जयहिन्द	सा. कोटा	६१	
१२४	२१७ जयहिन्द	दै. जबलपुर	४५	
×	२१८ जयाजी-			
	प्रताप	आ. सा. लक्ष्मण	१०६	
२१९	जवान	सा. दिल्ली	×	
२२०	जागरण	दै. कानपुर	४५	
४५	२२१ जागरण	दै. झौसी	४५	
×	२२२ जागृत	दै. जयपुर	४५	
६१	२२३ जागृत	दै. गाजियाबाद	×	
६१	२२४ जागृत-			
×	जनता	सा. इलाहाबादी	×	

सं. नंम	वगत स्थान	शुष्ठि	विगत स्थान	शुष्ठि
२२५ जागृत-			२४४ जैन गजट	५५
महिला	मा. उदयपुर	१३५	२४५ जैन जगत मा. चुधारी	५४
२२६ जागृति	मै. कलकत्ता	४५	२४६ जैन	
२२७ जागृति	सा. कलकत्ता	१०६	प्रचारक मा. दिल्ली	५४
२२८ जागृति	सा. मेरठ	X	२४७ जैन प्रभाव सा. खण्डवा	X
२२९ जाट	सा. दिल्ली	X	२४८ जैन प्रभाव मा. सागर	५४
२३० जाटवीर	मा. अलीगढ़	X	२४९ जैन बोधक पा. शोलापुर	५५
२३१ जायसवाल	मा. अलीगढ़	X	२५० जैन बन्धु सा. कलकत्ता	X
२३२ जिनवाणी	मा. भोपालगढ़	५४	२५१ जैन	
२३३ जीवन	सा. अलीगढ़	X	महिलादर्श मा. सूरत	१३५
२३४ जीवन	पा. आगरा	X	२५२ जैनमित्र सा. सूरत	५५
२३५ जीवन	मा. कलकत्ता	८०	२५३ जैन	
२३६ जीवन	अ. सा. लक्ष्मण	६३	सिद्धान्त	
२३७ जीवन			भास्कर अ. वा. आरा	६३
प्रभा	मा. आगरा	X	२५४ जैन संदेश सा. आगरा	५६
२३८ जीवन			२५५ ज्योति	
विज्ञान	मा. इन्दौर	१४४	विज्ञान मा. अहमदाबाद	१२३
२३९ जीवन-			२५६ ज्योत्स्ना मा. पटना	१३५
सखा	मा. प्रयाग	११८	भ.	
२४० जीवन			२५७ भरना मा. जोधपुर	१३२
साहित्य	मा. नई दिल्ली	८७	२५८ भाड़खण्ड सा. रांची	X
२४१ जैन	मा. भावनगर	X	२५९ तत्त्व मा. कलकत्ता	
२४२ जैन			१२६ २६० तरुण मा. इलाहाबाद	१३२
उद्योग	मा. नागपुर	१२६	२६१ तरुण जैन मा. कलकत्ता	५४
२४३ जैन गजट	सा. कलकत्ता	X		

सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट	सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट
२६२ तरंग	पा. काशी			७५ २८३ द्वीपशिखा	मा. पटना		१४०
२६३ तस्त्रीर	सा. कलकत्ता			१२८ २८२ दृष्टिकोण	मा. पटना		७२
२६४ त्राजातार	सा. आगरा			१०७ २८३ दुनिया	सा. दिल्ली		×
२६५ तारा	मा. दिल्ली			१२४ २८४ दूतपत्रिका	सा. प्रयाग		×
२६६ तारा	मा. फीजी			१४८ २८५ देशदर्शन	मा. प्रयाग		×
२६७ त्यागभूमि	मा. अजमेर			८८ २८६ देशदूत	सा. प्रयाग		८५
२६८ त्यागी	मा. मेरठ			११४ २८७ देहात	सा. पटना		×
२६९ तिजारत	सा. पटना			१२७ २८८ देहाती	सा. आगरा		११२
२७० तितली	मा. प्रयाग			१२६ २८९ देहाती	मा. जबलपुर		×
२७१ तिरहुत-				१६० देहाती	सा. मेरठ		×

समाचार सा. मुजफ्फरपुर

२७२ तूफान सा. बस्ती

२७३ तेजप्रताप सा. अलवर

द

२७४ दक्षिणी-

हिन्द मा. मद्रास

२७५ दयानन्द-

सन्देश मा. नई दिल्ली

२७६ दरबार दै. अजमेर

२७७ दलित-

प्रकाश सा. कानपुर

२७८ दादूसेवक मा. जयपुर

२७९ दिगम्बर-

जैन मा. सूरत

२८० द्वीढी मा. प्रयाग

१०७ २८१ दैनिक-

* पुकार दै० इन्दौर

११६ २८२ दैनिक-

सन्देश दै० इन्दौर

ध

७३ २८३ धन्वन्तरि मा. विजयगढ़

२६४ धर्मदूत मा. सारनाथ

५१ २८५ धूपछाँह मा. कानपुर

४५ २८६ ध्वज सा. मन्दसौर

न

११० २८७ नई-

६० कहानियाँ मा. इलाहाबाद

२६८ नईतालीम मा. सेवाप्राम

५४ २८६ नईदुनिया दै० इन्दौर

१३५ ३०० नन्दिनी मा. पटना

सं. नाम स्थान	विगत पृष्ठ	सं. नाम स्थान	विगत पृष्ठ	
३०१ नयाकदम मा. दिल्ली	६६	३२४ नवयुग-		
३०२ नयाजीवन मा. सहारनपुर	८०	सन्देश सा. भरतपुर	१०१	
३०३ नया युग सा. फरुखाबाद	६१	३२५ नवयुवक सा. इन्दौर	×	
३०४ नया युग मा. लखनऊ	६७	३२६ नवराष्ट्र दै० पटना	४६	
३०५ नयाराज- स्थान सा. अजमेर		३२७ नवराष्ट्र सा. बिजनौर	१०१	
३०६ नयासमाज मा. कलकत्ता		१०१	३२८ नवशक्ति सा. पटना	१०१
३०७ नयासंसार सा. कानपुर	×	६६	३२९ नवीन-	
३०८ नयासंसार सा. भोपाल		५६	३३० नागरी प्र०-	
३०९ नयासंसार सा. सीतापुर यू.पी.	×		पत्रिका ब्रै. काशी	६३
३१० नयासंसार सा. मथुरा	×		३३१ नाम-	
३११ नयाहित मा. एटा	×		३३२ नारी मा. वृन्दावन	×
३१२ नयाहिन्द मा. इलाहाबाद	१४४	३२२ नारी मा. काशी	१३५	
३१३ नया-		३३३ निराला दै. आगरा	४६	
हिन्दुस्तान सा. काशी		६१	३३४ निराला सा. आगरा	८६
३१४ नव चित्र- पट पा. दिल्ली		३३५ निराला मा. आगरा	८०	
३१५ नवजीवन सा. उदयपुर		१४१	३३६ निर्मिक सा. फिरोजाबाद	६१
३१६ नवजीवन सा. नागपुर		१०१	३३७ निष्पक्ष सा. बस्ती (यू. पी.)	×
३१७ नवजीवन दै. लखनऊ		×	३३८ निष्पक्ष सा. फरुखाबाद	×
३१८ नवज्योति सा. अजमेर		४६	३३९ नृत्यशाला मा. हाथरस	१३८
३१९ नवज्योति दै. अजमेर		१०१	३४० नीलमकल मा. दिल्ली	×
३२० नवप्रभात दै. लक्ष्मण		४६	३४१ नेताजी दै. दिल्ली	४७
३२१ नवभारत दै. दिल्ली		४६	३४२ नोंकमोंक मा. आगरा	७५
३२२ नवभारत सा. बम्बई		१००	३४३ नंदिनी सा. पटना	१११
३२३ नवयुग सा. दिल्ली		८६	३४४ न्यायबोध मा. नागपुर	१४३

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
	प						
३४५ पताका	सा. अलमोड़ा		३६६ पाञ्चजन्य	सा. लखनऊ			६५
३४६ पथिक	सा. रायबरेली		३६७ प्रकाश	पा. नागपुर			६६
३४७ पद्मप्रभा	सा. लश्कर		३६८ प्रकाश	मा. प्रयाग			×
३४८ परमहंस	सा. प्रयाग		३६९ प्रकाश	मा. वनारस			×
३४९ पराग	मा. आगरा		११२ ३७० प्रकाश	सा. मेरठ			×
३५० परिवर्तन	सा. इटावा		३७१ प्रकाश	सा. रीवाँ			६८
३५१ परिवर्तन	सा. बदायूँ		३७२ प्रकाश	सा. वैद्यनाथधाम			६९
३५२ पारिजात द्वै.	पटना		३७३ प्रकाश	मा. हरदोई			×
३५३ पारीक	मा. जयपुर		३७४ प्रगतिशील	पा. जयपुर			८४
३५४ पालीवाल	मा. अलीगढ़		३७५ प्रजापुकार	सा. जबलपुर			×
३५५ पालीवाल			३७६ प्रजापुकार अ.	सा. लश्कर	१०२		
बन्धु	मा. आगरा		३७७ प्रजाबंधु	मा. दिल्ली			×
३५६ पालीवाल			३७८ प्रजाबंधु	सा. रानीखेत			×
संदेश	मा. आगरा		३७९ प्रजाबंधु	सा. सीकर			
३५७ पुकार	सा. चन्दौसी		३८० प्रजामित्र	पा. चम्बा			१०६
३५८ पुकार	सा. हमीरपुर		३८१ प्रजामित्र	दै. झाँसी			×
३५९ पुराण	सा. कलकत्ता		३८२ प्रजामित्र	मा. झाँसी			×
३६० पूँजी	सा. कलकत्ता		३८३ प्रजामित्र	सा. बीकानेर			१०१
३६१ पंकज	मा. आगरा		१२७ ३८४ प्रजामरण्डल				
३६२ पंकज	मा. दिल्ली		३८५ प्रजा	सा. इन्दौर			×
३६३ पंचायत	सा. बाराबंकी		३८६ सेवक	सा. जोधपुर			१०२
३६४ पंचायती-			३८७ प्रजा				
राज	सा. मेरठ		३८८ सेवक	दै. जोधपुर			४७
३६५ पंडिताश्रम	पा. उड़जैन		३८९ प्रताप	सा. कानपुर			१०२

सं. नाम	विगत स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत स्थान	पृष्ठ
३६८ प्रताप	दै. कानपुर	४७	४०८ बारासेनी मा. श्रीलीगढ़	×	
३६९ प्रतीक	द्वे. इलाहबाद	७८	४०९ बोन्धव-		
३७० प्रदीप	पा. शिमला	६८	बन्धु सा. रीवाँ	×	
३७१ प्रदीप	दै. पटना	× ४१० बालकं मा. पटना	१३२		
३७२ प्रभाकर	सा. मुंगेर (बिहार)	× ४११ बालबोध मा. प्रयाग	१३०		
३७३ प्रभात	सा. जयपुर	६२ ४१२ बाल-			
३७४ प्रभाती	सा. जबलपुर	×	भारती मा. दिल्ली	१३०	
३७५ प्रमादिनी	मा. दिल्ली	×	४१३ बाल-		
३७६ प्रवासी	मा. अजमेर	११७	विनोद मा. लखनऊ	१३०	
३७७ प्रवाह	मा. आकोला	८०	४१४ बालसखा मा. प्रयाग	१३०	
३७८ प्रसाद	सा. हैदराबाद	×	४१५ बालसेवा मा. कानपुर	१३३	
३७९ प्राकृतिक-			४१६ बालहित मा. उदयपुर	१२२	
चिकित्सक मा. जोधपुर		×	४१७ बिजली पा. पन्ना	८५	
४०० प्राच्यप्रभा चा. मा. बक्सर		×	४१८ बिहार मा. पटना	६७	
४०१ प्राचीन-			४१९ बिहार		
भारत मा. कलकत्ता		×	कांग्रेस मा. पटना	८७	
४०२ प्राणाचार्य मा. विजयगढ़		१२०	४२० बीकानेर		
४०३ प्रेम-			राजपत्र — बीकानेर	×	
प्रभाकर मा. जोधपुर		×	४२१ बीकानेर-		
४०४ प्रेमसंदेश मा. वृन्दावन		५२	समाचार मा. बीकानेर	×	
४०५ प्रेमसंदेश दै. हैद० दक्षिण		×	४२२ बेकारसखा मा. शिकोहाबाद	११६	
फ			४२३ ब्रजबानी सा. मथुरा	×	
४०६ फिल्मी-			४२४ ब्रज-		
चित्र सा. दिल्ली		×	भारती मा. मथुरा	७३	
४०७ बालपारुष मा. कलकत्ता		१२१ ४२५ ब्राह्मण मा. दिल्ली	११५		

सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट	सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट
४२६ भविष्य	भ	मा. दिल्ली	४४५ भंडाफोड़	सा. गया	×		
४२७ भविष्य-			११४	म			
बाणी	मा. वर्धा		४४६ मजदूर	सा. जोधपुर	×		
४२८ भाग्योदय	पा. जबलपुर		× ४४७ मजदूर				
४२९ भानूदय	मा. जबलपुर		१३१ आवाज	पा. नई दिल्ली	६०		
४३० भारत	दै. प्रयाग		५६ ४४८ मजदूर				
४३१ भारत	सा. प्रयाग		४७ संदेश	सा. इन्दौर	×		
४३२ भारतवर्ष	दै. दिल्ली		× ४४९ मतवाला	पा. जोधपुर	७५		
४३३ भारत-			४७ ४५० मतवाला	सा. दिल्ली	७५		
विजय	सा. हरदा (सी.पी.)		४५१ मतवाला	सा. मिर्जापुर	७५		
४३४ भारती	मा. दिल्ली		× ४५२ मधुप	मा. इलाहा०	×		
४३५ भारती	मा. लखनऊ		१०६ ४५३ मधुप	सा. इलाहा०	७२		
४३६ भारती	मा. जम्मू		१३६ ४५४ मनोरमा	मा. इलाहा०	१३६		
४३७ भारतीय	मा. इलाहाबाद		८० ४५५ मनोरंजन	मा. दिल्ली	८०		
४३८ भारतीय-			५६ ४५६ मनोरंजन	सा. हबड़ा	१४२		
विद्या	त्रै. बम्बई		४५७ मनोहर				
४३९ भारतीय			६४ कहानियाँ	मा. प्रयाग	६६		
विष्णू	मा. बम्बई		४५८ मनोविज्ञान	मा. बम्बई	१२२		
४४० भारतीय			६० ४५९ मराठा				
समाचार	पा. दिल्ली		राजपूत	मा. देवास	११४		
४४१ भारतीय			६६ ४६० मस्ताना				
संस्कृति	त्रै. रत्नाम		जोगी	मा. दिल्ली	८१		
४४२ भारतेन्दु	त्रै. कोटा		५६ ४६१ मस्ती	मा. बम्बई	×		
४४३ भास्कर	सा. रीवाँ		७७ ४६२ महाकौशल	सा. रायपुर	१०२		
४४४ भूगोल	मा. इलाहा०		× ४६३ महावीर				
			१२२ संदेश	पा. अयपुर	५५		

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
४६४ महाशक्ति मा. काशी			६०	४८३ मेटल			
४६५ महिलाश्रम				गजट	स्ना. कलकत्ता		×
पत्रिका ब्रै. वर्धा							
४६६ मातृभूमि सा. लखनऊ			१३४	४८४ मेरा घर	मा. बम्बई		×
४६७ माधुरी भा. लखनऊ				४८५ मेलमिलाप सा. पटना			×
४६८ माथुर			८१	४८६ मैड चू.स. मा. आकोला			११४
सेवक मा. मा. दिल्ली				४८७ मोहनी मा. दिल्ली			×
४६९ मानव पा. जयपुर				४८८ मोहनी मा. लखनऊ			×
४७० मानवता मा. आकोला				४८९ मंजरी मा. प्रयाग			७०
४७१ मानवधर्म मा. दिल्ली			६१	४९० मंजिल	पा. रघुनाथपुर		११५
४७२ मानवमित्र सा. कलकत्ता				४९१ मंजूषा	सा. कलकत्ता		×
४७३ मानसमणि मा. रामबन			११०		य		
४७४ माया मा. इलाहाबाद				५८	४९२ योद्व	मा. काशी	११४
४७५ मारवाड़ी				६६	४९३ यामा	मा. लखनऊ	×
गौरव मा. जयपुर					४९४ युग-		
४७६ मारवाड़ी			११४		प्रवर्तक	मा. उज्जैन	×
ब्राह्मण					४९५ युगधर्म	सा. नागपुर	६५
सभा मा. कलकत्ता					४९६ युगधारा	मा. काशी	८७
४७७ मारवाड़ी					४९७ युगवारणी	सा. एटा	×
समाचार मा. इलाहाबाद					४९८ युगवारणी	मा. कलकत्ता	×
४७८ मार्त्तिण्ड सा. देवास					४९९ युगवारणी	मा. बम्बई	×
४७९ माला मा. इलाहाबाद			१३८	५०० युगसंदेश	सा. वृन्दावन		*
४८० माहेश्वरी पा. बम्बई					५०१ युगान्तर	सा. कानपुर	१०२
४८१ मिठाई पा० रायपुर					५०२ युगान्तर	सा. खोधपुर	५
४८२ मुंगेर					५०३ युगारम्भ	सा. झुरु	६२
समाचार सा. मुंगेर					५०४ युगारम्भ	मा. जबलपुर	८१

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
५०५ युवकहृदय मा. जयपुर			११४	५०४ राष्ट्रभाषा मा. वर्धा			७३
५०६ योगी सा. पटना			१०२	५२५ राष्ट्रभाषा-			
५०७ योगेन्द्र सा. पटना			×	पत्र मा. कडक			७४
५०८ योगेन्द्र मा. प्रयाग			५८	५२६ राष्ट्रवाणी मा. अजमेर			८१
			५२७	राष्ट्रवाणी पा. इन्दौर			×
५०९ रजतपट मा. महु			१४०	५२८ राष्ट्रवाणी सा. दिल्ली			८६
५१० रसभरी सा. दिल्ली			१४०	५२९ राष्ट्रवाणी दै. पटना			८७
५११ रसायन मा. दिल्ली			१२०	५३० राष्ट्रीय-			
५१२ रसीलो-				मोर्चा सा. कानपुर			×
कहानियाँ मा. इलाहाबाद			७०	५३१ राष्ट्रीय-			
५१३ राजपूत मा. आगरा			११४	हल्लचल सा. कबूज			×
५१४ राजपूत-				५३२ रिमझिम सा. पटना			१४२
हितैषी सा. फर्रखाबाद			×	५३३ रियासती दै. जोधपुर			८७
५१५ राजपूताना-				५३४ रीवाँराज			
आ० प० द्वै. मा. जयपुर			११६	गजट मा. रीवाँ			×
५१६ रानी मा. कलकत्ता			७०	५३५ रूपवाणी मा. कलकत्ता			×
५१७ रामराज्य सा. कानपुर			८६	५३६ रेलवे			
५१८ राष्ट्रधर्म सा. जोधपुर			×	समाचार मा. रामवन			
५१९ राष्ट्रधर्म मा. लखनऊ			×	५३७ रंगभूमि मा. बम्बई			१४०
५२० राष्ट्र-					ल		
पताका दै. जोधपुर			४७	५३८ लल्ला मा. प्रयाग			१३०
५२१ राष्ट्र-				५३९ लहर मा. जोधपुर			८२
पताका सा. जोधपुर			१०२	५४० लहर मा. प्रयाग			×
५२२ राष्ट्रपति सा. दिल्ली			×	५४१ लोकजीवन मा. दिल्ला			
५२३ राष्ट्रभाषा मा. जयपुर			७३		(वालियर)		*

सं. नाम	स्थान	विगत	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
५४२ लाल		५६४ व्यापार	सा. हैदराबाद	५६५ व्यापार-			×
बुम्भकड़ सा. आली (यू. पी.)		५६५ व्यापार-					
५४३ लेखक मा. प्रयाग	१३६	कानून	सा. आगरा	१२८			
५४४ लोकमत दै. नागपुर	४८	५६६ व्यापार-					
५४५ लोकमत सा. नागपुर	८६	पत्रिका	मा. कानपुर	५६७ व्यापार-			×
५४६ लोकमत सा. बीकानेर	६२	५६७ व्यापार-					
५४७ लोकमत सा. सीकर	१०७	विज्ञान	मा. मेरठ	५६८ व्यापार-			१०६
५४८ लोकमान्य दै. कलकत्ता	४७	५६८ व्यापार-					
५४९ लोकमान्य दै. बम्बई	४७	समाचार सा. जयपुर		५६९ व्यायाम	मा. बड़ौदा	१२१	×
५५० लोकमित्र सा. फिरोजाबाद	१०७	५६६ व्यायाम	मा. बड़ौदा	५७० विक्रम	सा. बम्बई	१०७	
५५१ लोकवाणी दै. जयपुर	४८	५७० विक्रम	सा. बम्बई	५७१ विकास	त्रै. कोटा	६४	
५५२ लोकवाणी सा. जयपुर	१०३	५७१ विकास	त्रै. कोटा	५७२ विकास	सा. सहारनपुर	५६	
५५३ लोकशासन सा. आमनिया	११७	५७२ विकास	सा. सहारनपुर	५७३ विजय	सा. अजमेर	५६	×
५५४ लोकसुधार सा. जोधपुर	६६	५७३ विजय	सा. अजमेर	५७४ विजय	सा. दिल्ली	१०७	×
५५५ लोकसेवक सा. इन्दौर	८७	५७४ विजय	सा. दिल्ली	५७५ विजय	सा. मुरादाबाद	८६	
५५६ लोकसेवक दै. कोटा	४८	५७५ विजय	सा. मुरादाबाद	५७६ विजय	पा. दतिया	६६	
				५७६ विद्या	पा. नागपुर	१४५	
५५७ वर्तमान दै. कानपुर	४८	५७७ विद्या	पा. नागपुर	५७७ विद्यार्थी	मा. प्रयाग	५६	
५५८ वनस्थलि				५७८ विद्यार्थी	मा. हाथरस	७६	
पत्रिका त्रै. जयपुर				५७९ विन्ध्य-			
५५९ वसुन्धरा सा. उदयपुर	६२			५८० विन्ध्य-			
५६० वसुन्धरा मा. दिल्ली				५८१ विप्लव	मा. लखनऊ	६३	
५६१ वारिंज्य मा. कलकत्ता	१०७			५८२ विश्वदर्शन	मा. दिल्ली	६७	
५६२ वालंटियर मा. लक्ष्मण	११५			५८३ विश्ववन्धु	दै. कलकत्ता	४८	
५६३ व्यापार मा. कलकत्ता	१२६						

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
५८४ विश्वबन्धु दै.	हैदराबाद			६०६ वीरभारत सा.	आगरा		५६
५८५ विश्वबन्धु सा.	सुल० (यू.पी.)			६०७ वीरभारत दै.	कानपुर		४६
५८६ विश्वव्यापी-				६०८ वीरभूमि द्वै.	मा. कलकत्ता		७८
सनातनधर्म मा.	अम्बाला			६०९ वीरराज पूत सा.	हवड़ा		×
५८७ विश्वभारती-				६१० वीरवाणी पा.	जयपुर		५५
पत्रिका त्रै.	शांतिनिकेतन			६४ ६११ वीरेन्द्र	सा. कौच (यू.पी.)		×
५८८ विश्वमित्र मा.	कलकत्ता			८२ ६१२ वैद्य	मा. मुरादाबाद	१२०	
८८,,	मा. गया			६१३ वैदिकधर्म मा.	ओंध		५१
५८०,,	सा. कलकत्ता			१०८ ६१४ वैदिकसंदेश मा.	राजकोट		×
५८१,,	दै. कानपुर			४८ ६१५ वैश्य-			
५८२,,	दै. दिल्ली			४८ समाचार सा.	दिल्ली	११५	
५८३,,	दै. दिल्ली			४८ श			
५८४,,	दै. पटना			४८ ६१६ शक्ति	सा. अलमोड़ा		×
५८५,,	दै. बम्बई			४८ ६१७ शक्ति	सा. जबलपुर		×
५८६ विश्ववाणी मा.	प्रयाग			६७ ६१८ शक्ति	मा. फैजाबाद (यू.पी.)		×
५८७ विश्वहितैषी सा.	दिल्ली			६२ ६१९ शांत	मा. जयपुर		×
५८८ विशाल-				६२० शांति	मा. दिल्ली	१३६	
भारत मा.	कलकत्ता			८२ ६२१ शांतिदूत	मा. कीजी		×
५८९ विज्ञान मा.	प्रयाग			१२२ ६२२ श्वेताम्बर-			
६०० विज्ञानकला मा.	दिल्ली			१२७ जैन पा.	आगरा		×
६०१ वीकली सा.	कलकत्ता			५२ ६२३ शिशु	मा. प्रयाग	१३०	
६०२ वीणा मा.	इन्दौर			८३ ६२४ शिक्षक	मा. इन्दौर		×
६०३ वीर सा.	दिल्ली			५६ ६२५ शिक्षकबंधु मा.	अलीगढ़	७६	
६०४ वीरअर्जुन सा.	दिल्ली			१०३ ६२६ शिक्षण-			
६०५ वीरअर्जुन दै.	दिल्ली			४६ पत्रिका मा. बड़मानी		७६	

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
६२७ शिक्षा	त्रै. लखनऊ	७५	६४६ सत्संग	सा. राँची			×
६२८ शिक्षासुधा मा. मण्डीधनोरा			६४७ सनात्य-				
६२९ शुद्धिप्रत्रिका मा. दिल्ली	x		६४८ जीवन	मा. इटावा			११५
६३० शुभचितक अ. सा. जबलपुर	१०५	६४९ सनातन-					
६३१ शेरबच्चा मा. प्रयाग	१२१		६४१ जैन	मा. बुलंदशहर			५४
६३२ रोधप्रत्रिका त्रै. उदयपुर		६४६ सनातन-					
६३३ शंखनाद सा. कानपुर	x		६४८ धर्म प्रचारक मा. अमृतसर				×
६३४ शंखनाद सा. गौहाटी	६६	६५० सन्मार्ग	मा. काशी				५३
६३५ श्रद्धानन्द मा. दिल्ली	६५	६५१ ,	सा. काशी				५३
६३६ श्रीचित्र-		६५२ ,	दै. कलकत्ता				४६
गुप्त समाचार सा. जबलपुर	x	६५३ ,	दै. काशी				४६
६३७ श्रीवेंकटे-		६५४ ,	दै. दिल्ली				४६
श्वर समाचार सा. बम्बई	५३	६५५ समता	सा. अलमोड़ा				×
६३८ श्री स्वाध्याय त्रै. मा. सोलन	१२३	६५६ समय	सा. जौनपुर (यू.पी.)	x			
स							
६३९ सचित्र-		६५७ समाज	सा. काशी				६२
दरबार सा. दिल्ली	x	६५८ समाज	सा. जौनपुर	x			
६४० सचित्र-		६५९ समाज-					
रंगभूमि मा. दिल्ली		x सेवक	सा. कलकत्ता				११६
६४१ सजनी मा. प्रयाग		६६० सरकारी-					
६४२ सज्जन मा. कलकत्ता	७०	१४१ हिन्दी	मा. काशी				७४
६४३ सत्युग मा. इलाहाबाद	x	६५१ सरस्वती	मा. प्रयाग				८३
६४४ सत्य-	६१	६५२ सरिता	मा. दिल्ली				७०
संदेश मा. मल्कापुर(सी.पी.)	x	६५३ सर्व-					
६४५ सत्यवादी पा. इटावा		६५४ हितकारी	मा. रायबरेली				६१
		x ६५४ सविता	मा. अजमेर				५१

सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ	सं. नाम	विगत	स्थान	पृष्ठ
६६५ सविता-				६८३ साधन	मा. एटा		५
सन्देश	मा. विल्लो			११५ ६८४ साधु	मा. दिल्ली	६१	
६६६ संदेश	दै. आगरा			६८५ साम्यवाद सा. कानपुर			५
६६७ संदेश	सा. आजमगढ़			५ ६८६ सारंग	पा. दिल्ली	१३६	
६६८ स्काउट	मा. जयपुर			११६ ६८७ सार्वदेशिक मा. दिल्ली			५१
६६९ स्वतंत्र	सा. कॉसो			१०८ ६८८ सार्वदेशिक-			
६७० स्वतंत्र-				सूद समाचार मा. होशियारपुर			५
भारत	सा. अलवर			१०४ ६८९ सावधान सा. कानपुर			५
६७१ स्वतंत्र-				६६० सावधान सा. नागपुर			५
भारत	दै. कानपुर			५ ६६१ साहित्य-			
६७२ स्वतंत्र-				सन्देश मा. आगरा			७५
भारत	सा. बनारस			५ ६६२ साहू सूर्य मा. प्रयाग			५
६७३ स्वयंसेवक	मा. लखनऊ			८८ ६६३ सिद्धान्त सा. काशी			५५
६७४ स्वराज्य	सा. सरावना			१०४ ६६४ सिने-तस्वीर मा. कलकत्ता			१४१
६७५ स्वसन्देश	मा. बड़ौदा			६१ ६६५ सिनेमा मा. कानपुर			१४१
६७६ स्वाधीन सा.	कॉसो			१०८ ६६६ सिपाही सा. सागर			१०८
६७७ स्वास्थ्य-				६६७ सीमा सा. आसनसोल			११६
दर्पण	मा. इटावा			६६८ स्त्री चिकित्सा मा. प्रयाग			५
६७८ स्वास्थ्य-				६६९ सुकवि मा. कानपुर			७२
सुधा	मा. दिल्ली			११८ ७०० सुगन्ध-			
६७९ साकेत	मा. अयोध्या			५ सौरभ मा. कानपुर			५
६८० सागर	सा. आरा			५ ७०१ सुदर्शन सा. एटा			५६
६८१ साजन	मा. प्रयाग			५ ७०२ सुदर्शन मा. मेरठ			५
६८२ सात्त्विक-				७०३ सुधानिधि पा. प्रयाग			१२०
जीवन	मा. कलकत्ता			६० ७०४ सुधारक मा. जबलपुर			५

सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट	सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट
७०५ सूचना	सा. बोपाल			६६ ७२६	संतवाराणी मा. जयपुर		६१
७०६ सूर्य	सा. बनारस			७३०	संदेश दै० आगरा		५०
७०७ सूर्योदया	मा. बनारस			× ७३१	संयुक्त प्रांत-		
७०८ सूत्रधार	सा. सीतापुर			×	समाचार पा. लखनऊ		६६
७०९ सेनानी	पा. अलीगढ़			८८ ७३२	संसार सा. काशी		१०४
७१० सेवक	मा. दिल्ली			×	७३३ संसार दै० काशी		५०
७११ सेवा	मा. इलाहाबाद		११६		ह		
७१२ संनिक	दै. आगरा			४६ ७३४	हमारा-		
७१३ सैनिक	सा. आगरा			१०४	अखबार पा. बनारस		×
७१४ सौरभ	मा. दिल्ली			१४२ ७३५	हमारा-		
७१५ संकीर्तन	मा. सतना			६२	अखबार पा. बाली (यू. पी.)	×	
७१६ संगम	सा. इलाहाबाद			१०४ ७३६	हमारी-		
७१७ संगम	मा. वर्धा			६१	आवाज मा. प्रयाग		×
७१८ संग्रह	सा. बनारस			×	७३७ हमारीवात सा. लखनऊ		६०
७१९ संग्राम	अ. सा. उन्नाव			६४ ७३८	हमारे-		
७२० संग्राम	सा. माँसी			×	बालक मा. दिल्ली		१३१
७२१ संग्राम	सा. बम्बई			×	७३९ हलचल सा. गाँड़ा		×
७२२ संगीत	मा. अलीगढ़			×	७४० हरिजन-		
७२३ संगोत	मा. हाथरस			१३६	सेवक सा. अहमदाबाद	८६	
७२४ संगीतकला	मा. लश्कर			×	७४१ हरिश्चन्द्र मा. दिल्ली		
७२५ संगीतकला-					७४२ हरिजन-		
विहार	मा. बम्बई			१३६	हितेच्छु मा. दिल्ली		
७२६ संघ	सा. घरेली			×	७४३ हितचिंतक सा. इटावा		×
७२७ संघर्ष	सा. लखनऊ			६३ ७४४	हितकारी सा. मथुरा		×
७२८ संजय	मा. नई दिल्ली			५८ ७४५	हिमाज़य मा. पटना		८४

सं. नाम	विगत	स्थान	पूछे	सं. नाम	विगत	स्थान	पूछे
७४६ हिन्दी	मा. काशा			७४६ ७५६ हिन्दुस्तानी	ब्रै. इलाहाबाद		
७४७ हिन्दी	सा. शाहजहाँपुर			× ७६० हिन्दुस्तानी			
७४८ हिन्दी	केशरी सा. बनारस			× प्रचार			
७४९ हिन्दी	जगत मा. अमर्बहू			११२ पत्रिका	मा. मद्रास		×
७५० हिन्द-	दिवाकर मा. उज्जैन			७६१ हिन्दू	सा. हरिद्वार		६६
७५१ हिन्दी	प्रचार-			७६२ हिन्दू	सा. दिल्ली		×
	पत्रिका मा. अमर्बहू			७६३ हिन्दू संदेश	सा. जोधपुर		×
७५२ हिन्दी	प्रीत-			७४ ७६४ हिन्दू	सा. सहारनपुर		×
	लड़ी मा. अमृतसर			७६५ हुँकार	सा. पटना		१०५
७५३ हिन्दी	प्रेम-			७६६ होड़			
	प्रचारक सा. आगरा			सोम्वाद	सा. देवघर		११७
७५४ हिन्दी-				७६७ होनहार	सा. कलकत्ता		१३१
	मिलाप दै० दिल्ली			७६८ होनहार	मा. लखनऊ		१३१
७५५ हिन्दी-				५० ७६९ होमियो			
	मिलाप सा. बाराबंकी			पैथिक जरनल	मा. कानपुर		×
७५६ हिन्दी	विद्या-			५० ७७० होमियो			
	पीठ पत्रिका— उदयपुर			पैथिक दर्पण—आगरा			×
७५७ हिन्दी	विश्व-			११३ ७७१ हामियो	पैथिक		
	भारती मा. लखनऊ			संदेश	मा. दिल्ली		११८
७५८ हिन्दुस्तान	दै० दिल्ली			७७२ हंस	मा. बनारस		६७
				५० ७७३ चत्त्रारणी	पा. जोधपुर		१३७

[१००]

हिन्दी की चंडालिकाएँ

सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट सं. नाम	विगत	स्थान	पुष्ट
७७४ ज्ञात्रिय			७७८ ज्ञात्रिय वीर सा. बोधपुर			११६
गौरव	सा. जयपुर		११६ ७७६ ज्ञात्रियम्	मा. जयपुर		×
७७५ ज्ञात्रिय बंधु	मा. अम्बई		×	७८० त्रिवेणी	मा. अहमदाबाद	×
७७६ ज्ञात्रिय मित्र	सा. भावनगर		५८१ ज्ञान	मा. फीजी		×
७७७ ज्ञात्रिय मित्र	मा. अनारस		५८२ ज्ञानशक्ति	सा. गोरखपुर		६२

परिशिष्ट २.

[आज प्रकाशित होने वाले कुछ अन्य पत्र, जिनके नमूने हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। यह सूची समाचार इण्डियन प्रेस डाइरेक्टरी (१६४८) वर्षबई, से उद्धृत की जा रही है। —संपादक]

(१) अग्रदूत—१६४२ से प्रकाशित ; सा०, सं० के. पी. वर्मा, राष्ट्रीय-नीति ; ग्राहक संख्या ५०००, प्रति =), प० रायपुर (सी० पी.)

(२) अलीगढ़ हेराल्ड—१६३६ से प्रकाशित ; सा०, यह अंग्रेजी हिन्दी दोनों भाषाओं में छपता है ; साहित्यिक ; प्रति =), प० मास्टर भवन, द्वारकापुरी, अलीगढ़ (यू. पी.)

(३) आजाद हिन्द*—१६४७ से प्रकाशित ; सा०, सं० डा० कैलाश, जी पी. शाखाल ; अंग्रेजी हिन्दी दोनों भाषाएँ रहती हैं ; राष्ट्रीय नीति, प्रति =) प० मंगलवाड़ी, गिरगाँव, वर्षबई ४.

(४) आप बीती*—१६४६ से प्रकाशित ; मा०, सं० कृष्णप्रसाद सेठ ; कहानी प्रधान पत्र ; प० रहमान बिलिंडग, चर्चगेट स्ट्रीट, वर्षबई १.

(५) कानपुर समाचार*—१६४७ से प्रकाशित ; सा०, सं० बी. अवस्थी ; कांग्रेस नीति, प्रति =) ; प० कानपुर

(६) कांग्रेस*—१६४७ से प्रकाशित ; सा०, प्रति वृहस्पति बार को प्रकाशित ; राष्ट्रीय पत्र, प्रति =), प० भोगीपुरा, आगरा।

(७) किसान*—१६२० से प्रकाशित ; सा०, सं० श्री भट्टनागर ; प्रति =)। ग्राहक संख्या १५०० प० रकाबगंज, फैजाबाद (यू०पी०)

(८) कृष्ण*—१६३७ से प्रकाशित ; सा०, प्रति =) ; प० बक्सर (जिला शाहबाद) बिहार।

(९) कुमाऊं कुमुद*—१८७१ से प्रकाशित ; सा०, सं० पी. बी. जोशी ; राष्ट्रीय नीति ; प्रति —) प० अलमोड़ा ।

(१०) कोली राजपृथ*—१८४० से प्रकाशित ; मा०, सं० एम० आर० तँवर ; जातीय पत्र ; प० अजमेर ।

(११) चित्रप्रकाश*—सिनेमा-मासिक, प्रति १), प० कूचाबैजनाथ, चौदनीचौक, दिल्ली ।

(१२) छाया*—१९३३ से प्रकाशित ; सा०, सं० नरेन्द्र विद्यावाचस्पति साहित्यिक लेख रहते हैं, प्रति ३), प० खटाडवाडी, गिरगाँव, बम्बई ४.

(१३) छायालोक*—साप्ताहिक पत्रिका ; सं० संकटाप्रसाद शुक्ल ; प० गोवर्धन भवन, खेतवाड़ी मेनरोड़, बम्बई ।

(१४) जनमत*—१८३४ से प्रकाशित ; सा०, प्रति —), प० इटावा

(१५) जागरण*—साप्ताहिक ; प० ७-१ बाबूलाल लेन, कलकत्ता ।

(१६) जीवन प्रभा*—१८४१ से प्रकाशित ; मा०, सं० भूदेव भा ; सामाजिक और धार्मिक लेख रहते हैं ; प्रति १), प० आगरा ।

(१७) जै० के० पत्रिका*—१८३६ से प्रकाशित ; मा०, सं० अजित अश्वथी ; प्रकाशन अनियमित, मजदूरों सम्बन्धी मनोरंजक लेख रहते हैं ; प० कमला टावर, कानपुर ।

(१८) धर्म संदेश*—१८३६ से प्रकाशित, मा० ; सं० रवि वर्मा, थियोसोफिकल सोसायटी का मुख्य-पत्र ; प्रति ३), प० नेशनल प्रस, बनारस ।

(१९) नया संसार*—अद्वैत साप्ताहिक, प० १८४/४१ घंटाघर, दिल्ली ।

(२०) नया संसार*—१८४८ से प्रकाशित ; सा०, सं० देवकीनन्दन बंसल, राष्ट्रीय नीति ; प्राहक संख्या १५००, प्रति —), प० मधुर मन्दिर, द्वारारस (यू० पी०)

(२१) नवप्रभात*—१८४७ से प्रकाशित ; सा०, प० किशोर भवन, सीतावर्डी, नागपुर ।

(२२) नवभारत*—१९४७ से प्रकाशित ; दैनिक, प० कदम छुँआ, पटना ।

(२३) नवीनभारत*—१९३७ से प्रकाशित ; सा०, प्रति -॥, प० कासगंज (जिला एटा) यू. पी.

(२४) नागरिक*—१९४२ से प्रकाशित ; सा०, प्रति -॥, प० भार्गव इस्टेट, कानपुर ।

(२५) पालक्त्रिय समाचार*—१९२ से प्रकाशित ; मा०, सं० जी० विद्यार्थी ; प० ४२३, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद ।

(२६) पंचायत*—१९४१ से प्रकाशित ; सा०, प० बाराबंकी (यू. पी.)

(२७) प्रकाश*—१९४२ से प्रकाशित ; दैनिक, सं० जी. सी. केला, अंग्रेजी-हिन्दी दोनों में छपता है ; आवृक्ष संख्या १६०००, प्रति -), राष्ट्रीय-नीति ; प० कचौरा बाजार, आगरा ।

(२८) कौजी अखबार—१९०६ से प्रकाशित ; सा०, सं० श्री मलखानसिंह ; भारतीय सिपाहियों के लिए मानसिक भोजन प्रस्तुत करता है। 'हवलदार तोताराम' के नाम से सुन्दर कहानियाँ छपती हैं ; यह अंग्रेजी, उर्दू, गुरुमुखी, रोमन, उर्दू और तामील भाषाओं में भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है ; प्रति =), प० बिलिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

(२९) बारीमित्र*—१९२६ से प्रकाशित ; मा०, सं० जे० एल० बारी, उद्देश्य जातीय संगठन ; प० १३०, अलोपी बाग, इलाहाबाद ।

(३०) भारतजननी*—१९४५ से प्रकाशित ; मा०, सं० श्री कालिका-प्रसाद, शान्ति एम० ए० ; ख्लियों की साहित्यिक पत्रिका ; प्रति ॥), प० ५४, हिवेट रोड, इलाहाबाद ।

(३१) भारतनेहवर्धिती*—१९४७ से प्रकाशित ; मा०, सं० श्रीमती मीरा सन्त, अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषाओं में छपती है : प० पोस्ट बाक्स ५६६, पूना ।

(३२) मराठा—कई वर्ष से प्रकाशित ; साठ अंग्रेजी के साथ साथ कुछ लेखादि हिन्दी के भी रहते हैं ; प० ५६८, नारायण पेठ पूना ।

(३३) महिला*—मासिक-पत्रिका ; प० ३, न्यू जार्नाल घाट रोड, कलकत्ता ।

(३४) रहवर*—१६४० से प्रकाशित ; सं० श्रीमती कुलसुम स्यानी ; यह पान्निक पत्र लीथो मशीन में छापता है ; सरल भाषा में शैक्षणिक व समाज-सुधार विषयक लेख रहते हैं । इसका अंग्रेजी, गुजराती, उदूँ संस्करण भी निकलता है ; प्रति -॥, प० रूपविला, कुम्हला हिल, बम्बई ।

(३५) राष्ट्रीयहब्लचल*—१६४० से प्रकाशित ; साठ, सं० अनीमुल-रहमान ; प्रति -॥, प० कन्नौज ।

(३६) रूपरानी*—६४७ से प्रकाशित ; मा०, सं० लज्जारानी ; प्रति ॥, प० ६२, दरियांगंज, दिल्ली ।

(३७) लोकमान्य*—कई वर्ष से प्रकाशित ; साठ, संवाठ श्री रामशङ्कर त्रिपाठी, सं० श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार ; राष्ट्रीय नोति, हिन्दू संगठन की ओर मुकाब ; प्रति ॥, द० प० पाटौदी हाउस, दरियांगंज, दिल्ली ।

(३८) विकास*—१६४५ से प्रकाशित ; साठ, इसका मराठी संस्करण भी निकलता है ; प्रति ॥, प० धर्मपैठ, नागपुर ।

(३९) विचार*—साप्ताहिक पत्र ; १५४-१६ हरिसन रोड, कलकत्ता ।

(४०) विद्यार्थी*—१६१४ से प्रकाशित ; मा० सं० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ; विद्यार्थियांपोयगी उत्तम लेख रहते हैं ; प्रकाशन कई बार स्थगित भी हुआ ; प्रति ।-), प० हिन्दी प्रेस, प्रयाग ।

(४१) विध्यकेशरी*—१६४७ से प्रकाशित ; साठ, सं० जिरलाप्रसाद, ग्राहक संख्या ३०००, प० स्टेशन रोड, सागर (सी. पी.)

(४२) विनोद*—कई वर्ष से प्रकाशित ; मा०, बच्चों के लिए उपयोगी पत्र ; ग्राहक संख्या २०००, प० हिन्दी प्रेस, प्रयाग ।

(४३) विश्वबन्धु*—१६३६ से प्रकाशित ; साठ, संस्था० गोस्वामी गणेशदत्तजी ; प्रारम्भ में लाहौर से ही प्रकाशित होता था, पंजाब-

विभाजन के बाद अब अमृतसर से प्रकाशित ; पंजाब प्रान्तीय हिन्दू महासभा का मुख्य-पत्र ; अमृतसर ।

(४४) वीरेन्द्र*—१९३६ से प्रकाशित ; सा०, प० कौच (यू. पी.)

(४५) शक्ति*—१९३६ से प्रकाशित ; सा०, सं० नाथुराम शुक्ल ; हिन्दू सभाई नीति, ग्राहक संख्या ५०००, प० रायपुर (सी० पी०)

(४६) शिक्षक*—१९४१ से प्रकाशित ; मा०, सं० श्री वेदनिधि, प्रति II), प० शिक्षक कार्यालय, अलीगढ़ ।

(४७) सचिव दरवार*—सिनेमा सामाजिक ; सं० चन्द्रधर ; प्रति =) प० २३, दरिचांगंज, दिल्ली ।

(४८) संसार दीपक*—१९२२ से प्रकाशित ; सा०, सं० ब्रजनन्दनलाल, ग्राहक संख्या ५००, प्रति =), प० चमन अखलाक प्रेस, इटावा (यू० पी०)

(४९) स्वतंत्र भारत—१९४७ से प्रकाशित ; राष्ट्रीय दैनिक ; सं० अशोकजी, ग्राहक सं० १६०००, प्रति =), प० पायोनियर प्रेस, लखनऊ ।

(५०) श्री नृसिंह प्रिय*—१९४२ से प्रकाशित ; मा०, सं० श्री० ए० एस० राघवन ; आध्यात्मिक पत्र, प्रति I), प० पुण्ड्रकोटई (मद्रास)

(५१) श्री हर्ष*—मासिक पत्र ; प० ६, रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(५२) हिन्दी प्रचार समाचार*—१९२३ से प्रकाशित ; मा०, सं० श्री सत्यनारायण ; हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, त्यागरायनगर का मुख्य-पत्र ; ग्राहक संख्या १८००, प्रति =), प० हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, मद्रास १७.

(५३) हिन्दू*—१९३४ से प्रकाशित ; सा०, सं० श्री बी० जी० देश-मुख ; हिन्दू सभाई नीति ; प्रति =), प० ओडियन बिल्डिंग, कनाट सर्केस, तरई दिल्ली ।

(५४) उत्तियबंध*—१९३६ से प्रकाशित ; मा०, सं० पी० चौधरी ; प्रति =), प० निलंबीषांग खानारेस ।

परिशिष्ट ३.

[सन् १८२६ से लेकर अब तक हिन्दी में हजारों ही पत्र-पत्रिकाएँ निकली हैं। किस स्थान से, कौनसा पत्र, कब प्रकाशित हुआ, जितनी सूचना उपलब्ध हो सकी, नीचे दे रहे हैं। अंत में अकारादि क्रम से कुछ ऐसे पत्रों की सूची है, जिनके केवल नाम व प्रकाशन-नियम ही उपलब्ध हो सकी। आगामी संस्करण के लिए पूर्व प्रकाशित पत्रों के संचालकों, सम्पादकों तथा प्रकाशकों से प्रार्थना है कि एतद्विषयक परिचय भेजने की कृपा करें; साथ ही यह सूचना भी भेजने का कष्ट करें कि पत्र कितने समय तक निकलता रहा और संभव हो सके तो सूचित करें कि कब और क्यों प्रकाशन स्थगित हुआ।]

अजमेर		मीरा	सा. १६३६
जगलाभचितक	१८६१	राजपूताना गजट	सा. १८८४
तदुण्णराजस्थान सा,	—	राजस्थान	सा.
त्यागभूमि	सा. १६२८	राजस्थान समाचार	सा. १८८६
देशहितैषी	मा. १८८२	अबोहर (दर्वी पंजाब)	
भारतीयधर्म	मा. १८४२	दीपक	मा.
भारतोद्धारक	मा. १८८५	अमरगवती (सी० पी०)	
माहेश्वरी सुधारक	मा. —	शेतकरी या कृषि हितकारक	मा. १८६०

अमृतसर

खण्डेत मा. १८६५
सकलसम्बोधिनी परीक्षा मा. १८७६
हिन्दी प्रकाश सा. १८७३

अमेठी

विजली मा. १६३७
मनस्वी मा. १६३७

अयोध्या

साकेत जीवन मा. १८६२
अलमोड़ा (यू० पी०)

अलमोड़ा अखबार सा. १८७०
कमाऊं समाचार पत्रिका पा. १८६४
वृद्धि सा.
सर्व हितकारी सा. १६००

अलवर

अरावली मा.
शिक्षा संदेश मा. जनवरी १६४१

अलीगढ़ (यू० पी०)

उपर्योग माला मा.
धर्म संमाज पत्र मा.

प्रताप सा.

भास्तव्यन्धु सा.

महेश्वरी पत्र मा.

मंगल समाचार मा.

विद्याभास्कर

सारस्वत मा.

खुलमार्ग

हिन्दी पंच मा.

अहमदाबाद

नवजीवन सा.

आकोला (बरार)

आर्य सेवक पा.

राजस्थान

आगरा

अप्रवाल उपकारक

अद्युत शतक

आगरा अखबार

आगरा एज्यूकेशनल गजट मा.

आगरा पंच

कायद्य उपकारक

काव्यस्थ हितकारी

सत्री हितकारी

चतुर्वेदी

चारण

१८६५

१८७६

१८६४

१८६६

१८१८

१८१०

१८६०

१८२४

१८०६

१८६४

१८६४

१८७१

१८६६

१८३४

१८३४

१८५४

१८८८

१८१५

मा.

हिन्दी की पत्र-पत्रकाएँ

जखिराये बालगोविन्द	१८७१	सर्वहितकारक	मा.	१८५५	
जगत समाचार	सा.	१८६६	सर्वोपकारक	१८६१	
जगदानन्द		१८६६	साधना	१८३६	
धर्मप्रकाश		१८६७	सूरजप्रकाश	१८६१	
नवसंदेश	सा.		हिन्दुस्तान समाचार	दै.	
निर्माण	मा.	१८४६	क्षत्रिय हितोपदेशक	मा.	१८६२
परोपकारी	मा.	१८६०	ज्ञानदीपक	मा.	१८६७
पापमोचन		१८६६		आदमपुर (पंजाब)	
प्रजाहितैषी	पा.	१८६१	खादी पत्रिका	पा.	
प्रभाकर	सा.			आरा (बिहार)	
प्रियहितकारक	सा.	१८६०			
प्रेम पत्र	पा.	१८७२			
प्रेम पत्र राधास्वामी		१८६३	नागरी हितैषिणी पत्रिका	१८०७	
शुद्धि प्रकाश	सा.	१८५२	बालकेशरी		
भारतखण्डामृत	मा.	१८६५	मनोरंजन	१८१३	
भारती वित्तास	त्रै.	१८८१	मारवाड़ी सुधार	१८२१	
भेराल	मा.	११३६	स्वाधीन भारत		
मर्यादा परिपाटी	मा.	१८७२		इटारसी (सी० पी०)	
महिला	मा.	१८६३			
शिक्षा पत्रिका		१६१६	तारा बन्धु	मा.	१६३६
सज्जन विनोद	मा.	१८६४			
सज्जनोपकारक		१८६७		इटावा (यू० पी)	
सत्यधर्ममित्र	मा.	१८६०	कर्तव्य	सा.	
सदाचार मार्तण्ड		१८८७	खण्डेलवाल जैन	मा.	१६१८
सद्गुर्मार्गितवर्षिणी	मा.	१८७५	निर्भय ब्रह्मानन्द	मा.	१६००
सनातनोपकारक	सा.	१८६७	प्रजाहित		१८६१

ग्राहणसर्वस्व	मा.	१६०३	कान्यकुब्जमण्डल	१८६०	
विचार पत्र	मा.	१८८६	कायस्थ पंच	सा.	१६०८
			कायस्थ समाचार	मा.	१८७८
			कायस्थ समाचार	मा.	१८६०
इन्दौर					
ग्रामसुधार	सा.	१६४०	गृहलक्ष्मी	मा.	
देशीमिश्नरी समाज पत्रिका—		१६०६	गोसेवक	पा.	१८६२
नव निर्माण	मा.	१६४३	गौड़ कायस्थ		१८८४
मध्यभारत	सा.	१६३८	छाया	मा.	१६४१
मालवा अखबार		१८६६	जैन पत्रिका	मा.	१८७८
			जैनी	सा.	१८६८
इलाहाबाद			ट्रेड जर्नल		१६१५
			तिथिप्रदीप	मा.	१८७६
आर्यजीवन	मा.	१८८६	द्विजराज	मा.	
आर्यदर्पणी		१८६२	दुनिया	मा.	
आर्यधाल इतिहास		१६०२	धर्म पत्र	मा.	१८७७
आरोग्य जीवन	मा०	१८८६	धर्मप्रकाश	मा.	१८७७
आरोग्यदर्पण	मा०	१८८१	धर्मोपदेशक		१८८३
आरोग्यदर्पण	मा०	१८८८	नागरी पत्रिका		१८७७
ऋग्वेदभाष्यम्	मा०	१८८३	नाटक प्रकाश		१८८२
एलोपैथिक डाक्टर	मा०	१८६५	नाट्य पत्र	सा	१८६५
उच्छ्वङ्खल	मा०	१६३४	न्याय पत्र	मा.	१८६४
उपदेशपुष्पाबंली	मा०	१८८६	नूतन चरित्र		१८८२
उपनिषद्	मा०	१८८६	प्रयागदूत		१८७१
उपनिषद् माध्यम		१८८६	प्रयागधर्म पत्रिका	मा.	१८७५
कम्योगो	मा०	१६०६	प्रयागधर्म पत्रिका	मा.	१८७६
कविता कौमुदी	मा०		प्रयाग धर्मप्रकाश	मा.	

प्रथमा मित्र	पा.	१८७७	विद्यामार्तण्ड	१८८४
प्रथमा समाचार	सा.	१८८५	कृत्सन्तदर्पण	१८६६
काल दर्पण		१८८३	वेदान्त प्रकाश	१८८५
काल मनोरंजन } लेखमाला }		१८१४	वैदिक सर्वस्व	१८०६
			सधर्म कौस्तुभ	१८०६
बानर	मा.		समालोचक	१८८२
बुद्धिप्रकाश		१८७३	सत्यमकाश	१८८५
भविष्य	सा.	१८३३	स्वदेशी	दै.
भागवतविलास	मा.	१८८१	सुकर्ण समाचार	१८७५
भारत भगिनी	मा.	१८८८	संस्कार विधि	मा.
भारत भूमि		१८०६	श्रीकान्यकुब्ज हितकारी	१८८६
भारतेन्दु	मा.	१८२८	श्री राघुवेन्द्र	१८०५
मदारी	सा.	१८३३	श्री सरयूपारीण	१८१२
मर्यादा	मा.	१८४२	दृष्टि	मा.
मानवधर्मशास्त्र	मा.	१८४१	हिन्दी प्रदीप	मा.
यजुर्वेदभाष्यम्	मा.	१८८२	त्रिवेणी तरंग	मा.
रत्नमाला		१८६५	ज्ञानचन्द्र	१८७८
रत्नाकर	मा.	१८६४	ज्ञानचन्द्रोदय	मा.
रसिक पंच	मा.	१८८६		उज्जैन
रामपतंका	मा.	१८६१	पंडिताश्रम	१८१३
राष्ट्रमंते	सा.	१८३८	विक्रम	मा.
रुषेभ	मा.	१८३८		उदयपुर
रंगमंच	मा.	१८३६		
वनसप्तसी	मा.	१८४४	आर्थ सिद्धान्त	१८८७
वर्तमान उपदेश	मा.	१८६०	उदयगुरु गजट	१८६६
विश्वार्थी	मा.		सञ्जनकीर्ति सुधाकर	१८७४

कनखल (यू. पी.)		परिवार हितैषी	— १६१८
हिन्दू सर्वेस्व	सा. १६२५	पुष्करण ब्राह्मण	— १६१७
कनौज (यू. पी.)		प्रजामित्र	सा. १८३४
मोहिनी	— १८६३	प्रभाकर	— १६०८
कलकत्ता		प्राचीन भारत	मा. १६४९
श्रलमस्तु	मा. —	बंगदूत	सा. १८३८
अग्रसर	सा. —	बंगाल हेराल्ड	सा. १८३६
अवतार	— १६२१	भारतदर्शण	सा. १८८६
आनन्द संसीत पत्रिका	— १६१३	भारतमित्र	सा. १८७७
आर्यावर्त	सा० १८८७	भारतमित्र	दै, —
आरोग्य सन्धिधि	— १६९१	भास्कर	सा. —
उचित वक्ता	सा. १८७८	मतवाला	सा. १६२४
उदन्त मार्टण्ड	सा. १८२६	महिला महत्व	मा. —
उद्योग	— १६२१	महावर भानूदय	— १६१६
श्रौद्ध	मा. १६२५	मार्टण्ड	सा. १८४६
कमला	मा. १६०६	मारवाड़ी श्रगवाल	मा. १६२०
कलकत्ता समाचार	सा. १८८४	मारवाड़ी बन्धु	— १६०६
कान्यकुञ्जबन्धु	— १६०६	मारवाड़ी ब्राह्मण	मा. —
काव्यकलाधर	— —	माहेश्वरी	मा. —
कुशवाहा लक्ष्मियमित्र	— १६१३	माहेश्वरी बन्धु	सा. १६२४
चिकित्सा सोपान	मा. १८६८	मौजी	मा. —
बगदीपक भास्कर	मा. १८४६	युगान्तर	मा. —
जैनगणठ	मा. —	यजस्थान	दै. १८३८
जैनविजय	— १६२१	रेखबे समाचार	— १६३०
देशबन्धु	मा. —	विचार	सा. १६३८
देशी व्यापारी	मा. १८८४	विजयवर्गीय	— १६२१
देवनगर	— १६०७	विद्याविज्ञास	मा. १८८५
धर्मदिव्याकर	मा. १८८३	विद्योदय	मा. १८८३
धर्मरक्षक	मा. —	विशदूत	— —
धूर्त्तफङ्ग	मा. १८६१	वीरभारत	दै० —
दृष्टिद	— १६१६	वैश्वेषज्ञारक	— १६०४
		सनातनधर्म	मा. —

समाचार मुधावर्द्धक	दै. १८५४	भारतोदय	दै. १८८५
” ” ”	सा. १८७४	महिलामुधार	मा. —
सरस्वतीप्रकाश	पा० १८६०	रसिक पत्रिका	सा. १८६४
सरोज	मा. १८२६	रसिक पंच	मा. १८६४
स्वतन्त्र	दै. १६२०	रसिक वाटिका	सा. १८६७
स्वतन्त्रभारत	सा. १६२८	रसिक विनोद	— १६०४
साम्यदण्डमार्तण्ड	सा. १८५०	राष्ट्रीय मोर्चा	सा. १८४२
सारसुधानिधि	सा. १८७८	व्यापार	— १८६१
साहित्य	मा. —	वेदप्रकाश	सा. १८६४
साहित्यरत्नमाला	— १६११	शुद्धसागर	— १६०६
साहित्य सरोज	— १६२१	शुभचिन्तक	— १८७८
सुलभसमाचार	सा. १८७१	स्वास्थ्य	मा. —
सेवक	— १६१३	सुप्रासागर	मा. १८६३
श्रमिक	सा. —	श्री कान्य कुञ्ज हितकारी	— १८६८
श्रीकृष्णसन्देश	सा. १६२५	स्वर्णकारी शिल्पमाला	— १६२१
हितवार्ता	सा. १६०२	स्त्रीदर्पण	मा० —
हिन्दी केशरी	मा. —	हिन्दू प्रकाश	— १८७१
हिन्दी दीनिति प्रकाश	सा. १८७२	कामठ	
हिन्दी बंगवासी	सा. १८६०	मित्र	पा० १८६५
हिन्दी स्वास्थ्य स-चार	— १६१५	कालपी (यू० पी०)	
शान दीपक	मा. १८४६	गुरु घण्टाल	सा० १६३६
कानपर			
कायस्थ कांफे स पत्रिका	मा. १८६३	कालाकांकर (अवध)	
नाई ब्राह्मण	मा. —	कुमार	मा० १६४४
प्रभा	मा. —	हिन्दुस्थान	— दै० १८८५
प्रेमपत्रिका	सा. १८६६	काशी	
ब्रह्मदृष्टि हितैषी	मा. १६२५	श्रगगामी	दै० १६३६
ब्राह्मण	मा. मार्च १८८३	श्वलबेला	मा० १६३६
भविष्य	सा. —	आनन्द लहरी	सा० १८७५
भृभास्कर	मा. १८६३	श्रार्य मित्र	मा० १८७८
भारतभूषण	— १८८४	श्रार्य मित्र	मा० १८६०
		इतिहास	— १६०५
		हिन्दु	मा० १६१०

उद्य	मा० —	नागरी नीरद	सा० १८६१
उपन्यास	मा० १६०१	नाटक प्रकाश	मा० १८८४
उपन्यास बहार	— १६०७	निगमागम चन्द्रिका	— १६०१
उपन्यास माला	— १८६६	दूतन चरित	— १८८३
उपन्यास लहरी	मा० १८६८	परमार्थ ज्ञान चन्द्रिका	— १८८०
” ”	१६०२	पंडित पत्रिका	मा० १८६८
उपन्यास सागर	— १६०३	प्रश्नोत्तर	— १८८५
ओदुम्बर	— —	बनारस श्रखब्रार	सा० १८४५
कमला	मा० १६३६	बनारस गजट	सा० १८८२
कवि वचन सुधा	मा० १८६८	बनिता हितैषी	— १८८४
” ” ”	सा० १८७३	बाल दर्पण	— १८८३
कहानी	मा० १६३२	बाल बोधिनी	मा० १८७४
कान्यकुञ्ज	मा० —	ब्रह्मावत्ते	मा० १८४०
काशी पत्रिका	सा० १८७५	ब्राह्मण समाचार	— १६०७
काशी पंच	सा० १८८०	ब्राह्मण हितकारी	मा० १८६२
काशी समाचार	सा० १८८३	भारत जीवन	सा० १८८४
कुसुमांजलि	— १८६	भारत धर्म	सा० १६२४
खुदा की राह पर	सा० १६३५	भ रत भूषण	सा० १८८४
खेती और खेतहर	— १६०६	भारतेन्दु	मा० १६०५
गुजराती पत्रिका	— १८८४	भाषा चन्द्रिका	— १६००
गो सेवक	पा० १८६२	मनोहर पत्रिका	— १६०६
चरणाद्रि चन्द्रिका	सा० १८७३	मानस पत्रिका	— १६०४
छायावाद	मा० १६३६	मालब मयूर	मा० १६२४
जागरण	पा० १६२६	मित्र	सा० १८८६
जासूस	मा० १६००	योग प्रचारक	मा० —
झरना	मा० १६३६	रहस्य चन्द्रिका	पा० १८८८
तरंगिणी	मा० १६१३	राजहंस	मा० १६४३
तिमिर नाशक पत्र	मा० १८८०	रामजन पत्रिका	— १८८१
धर्म प्रचारक	मा० १८८४	वाणिज्य सुखदायक	मा० १६११
धर्म सुधावर्षण	मा० १८८६	व्यापारी और कलाकारी	सा० १६०८
	मा० १८८८	व्यापार हितैषी	सा० १८८२
		विद्यापीठ	वै० १६२७

बैष्णव पत्रिका	मा० १८८३	(सरकारी गजट)	
(१६०६ से परिवर्तित नाम 'धीयूप्रबाह')		ब्राह्मणहितैषी	— १६१८
सत्य प्रकाश	सा० १६३६	गुडगांवां (पंजाब)	
सरस्वती प्रकाश	मा० १८६२	जाट समाचार	मा. १८८८
सरिता	मा० १६३६	गोरखपुर (यू. पी.)	
साहित्य सुधानिधि	मा० १८६४	विद्याधर्म दीपिका	मा. १८८८
स्वार्थ	मा० १६२२	स्वदेश	स. १६२१
सुदर्शन	मा० १६००	गौडा (सी. पी.)	
सुधाकर	सा० १८५०	नवीन वाचक	— १८८३
सुर्य	सा० १६१६	हलचल	सा. १६३८
हरिश्चन्द्र कौमूढी	— १८६४	चम्पारन (विहार)	
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका	— १८७४	चम्पारन चंद्रिका	सा. १८६०
हरिश्चन्द्र मैगजीन	मा. १८७३	विद्याधर्म दीपिका	— १८०८
हिन्दी उपन्यास	— १६०१		
क्षत्रिय मित्र	मा० १८०६	जबलपुर	
क्षत्रिय विजय	मा० —	जबलपुर समाचार	मा. १८७३
कंचौसी (यू० पी०)		परमार बन्धु	मा. —
सत्यसत्या	मा० १८३५	प्रजाहितैषी पत्रिका	मा. १८८६
खण्डवा (सी० पी०)		भौजे नरबदा	— १८८४
मथुभारत	—	विक्टोरिया सेवक	सा. १८८७
खुर्जा (यू० पी०)		विचार वेदान्त	मा. १८६५
जैन रत्नमाला	— १६१२	सुशोध सिन्धु	मा. १८८४
गया (विहार)		हितकारणी	मा. —
चिनगारी	सा. १६३८	जम्मू	
बजरंगी समाचार	— १८०८	जम्मू गजट	— १८८४
लक्ष्मी	मा० —	विक्रा किलास	मा. १८७१
साहित्य सरोवर	— १६०६	इत्तम्भत विलास	मा. १८६८
हरिश्चन्द्र कौमुदी	मा. १८६४	छुड़ि विलास	— १८७०
गवालियर		जयपुर	
शख्खार मगलियर	मा. १८५१	अय्यपुर गजट	— १८८५
		झाझा	मा. १६३६

सदाचार मार्तंण्ड	मा. १८८४	रक्षा	सा. १६४२
समालोचक	मा. १६०२	लोकजीवन	सा. १६४५
संत	मा. १६३६	विजय	दै. १६१८
जसपुर (तराई)		सचित्र दरबार	सा. १६३०
तराई गजट	सा. १८८६	सदार्थ	सा. १८७४
भारत मार्तंण्ड	सा. १८८६	स्वयंसेवक	मा. १६२५
जोधपुर		सिखवीर	मा. —
सनातन	त्रै. १६४२	सिद्धाद	मा. १६४५
स्वास्थ्य शिक्षा	मा. सितम्बर, १६४२	सैयदुल अखबार	— १८८१
जौनपुर		हिन्दी राजस्थान	सा. —
पीयूष प्रवाह	— १६०६	हिन्दू संसार	दै. —
रसिक रहस्य	— १६०७		
समय	सा. १६२७		
भालरापाटन		देहरादून	
विद्याभास्कर	— १६०७	श्रभय	सा. १६२४
भांसी (यू. पी.)		भारतहितैषी	— १६१६
उत्साह	अ. सा. —	मुदर्शन	सा. १६२५
बुन्देलखण्ड पंच	सा. १८६४		
मातृभूमि	दै. —	शिक्षामृत	मा. —
योगी	— १६१६	सरस्वती विलास	मा. १८८४
सनात्यहितकारी	मा. —		
संसार दर्पण	सा. १८६५	नवागांव	
दिल्ली		भारत हितैषी	मा. १८८४
इन्द्रप्रस्थप्रकाश	सा. १८८३	नागपुर गजट	मा. १८६३
ओदिन्य ब्राह्मण	मा. —	न्यायरत्न	मा. १८६६
कांप्रे स	दै. १६४०	प्रणवीर	अ. सा. —
धारा	मा. १६४०	भाषा प्रकाश	मा. १८८४
नवयुग	दै. —	मारवाड़ी	सा. —
मजबूर समाचार	दै. १६३४	माहेश्वरी	— —
महारथी	मा. १६२५	विचारवाहन	मा. १८६३

सरकारी श्रखबार
सरस्वती विलास
सावधान
हिन्दी केसरी

— १८७०
मा. १८६०
सा. १६४२
सा. १६०७

मा. १८६५
मा. १८७१
मा. —
त्रै. —

नैनीताल

समय विनोद
सुदर्शन समाचार
हिमालयन स्टार

— १८६६
— १८७५
— १८६०

विद्याविनोद
विहार बन्धु
शिक्षा सेवक
साहित्य

— १६०६
मा० १८८५
मा० —
मा० १८८१
— १६११

टीकमगढ़ (विन्ध्यप्रदेश)

मधुकर
लोकवार्ता

पा. १६४०
त्रै. १६४४

विन्ध्यभूमि

त्रै० १६४५

दाका (बंगाल)

दाका प्रकाश

— १८६६

चित्रमय जगत

मा० १६१०

पटना

आत्मविद्या
गोलमाल
जगविलास
जनक
तत्त्वदर्शन
देश
द्विजपत्रिका

— १६११
सा. १६२४
मा. १८८३
दै. —
— १६११
सा. १६२०
पा. १८८६

कलाकौशल
किसानोपकारक

— १६०५
— १६१५

धर्मनीतितत्व
धर्मसभापत्रिका
नामरी हितैषिणी पत्रिका
नारद
भूमिहर ब्राह्मण पत्रिका
मेलमिलाप
मौजी
लोकसंग्रह
विद्याधर्म दीपिका

मा. १८८०
मा. १८८१
— १६०५
— १६०४
— १६०५
मा. १६३६
मा. —
सा. १६२३
— १८८८

कायस्थ व्यवहार
जीयालाल प्रकाश
डैन

— १८८४
सा० १८८४
सा० १८८४

फर्रुख नगर

फर्रुखाबाद

गोधर्म प्रकाश
तेली जाति सुधार

मा० १८८५
— १६१६

दीनबन्धु
धर्म सभापत्र
वीयूषवर्षिणी
भारत सुदशाप्रवर्तक
भारत हितेंगी
समालोचक
संगठन

वस्त्रई

अखण्ड भारत
जीवन साहित्य
नया साहित्य
नवराष्ट्र
परिष्ठत
परिष्ठत
प्रतिभा
भगीरथ
भारत
भारत भूषण
भारत हितैषी
मनोव्यावहार

व्यापार बन्धु

विजय

सत्यदीपक

सत्यमृत !

(सत्यमित्र)

स्वाधीन भारत

संग्राम

हिन्दुस्थान

बरेली (यू. पी.)

आर्यपत्र

सत्य धर्म पत्र

तत्त्वबोधिनी पत्रिका

मा० १८६५ सत्य प्रकाश — १८८३
मा० १८८६ धर्मोपदेश — १८८३
मा० १८६० सत्योपकारी स० १८६४
मा० १८७६ ब्रह्मज्ञान प्रकाश — १८६६
— १८६१ अमर मा० १६२३

मा० — वस्त्री (यू. पी.)

मा० १६२५ आदर्श मा० १८८३
कविकुल कञ्जिदिवाकर

बहराइच

मा० १६३६ प्रभाकर — १६१६
मा० १६४५ व्यापार भण्डार — १६१६

द्यावर (राजपूताना)

राजस्थान सा० —

बाँदा (सी. पी.)

लोकमान्य सा० —

बिजनौर (यू. पी.)

अवला हितकारक — १६०३

गरीब सा० —

बिथुर

मारतवर्ष मा० १८८८

रसिक लहरी — १६०२

बीकानेर

राजस्थान भारती त्रै० —

बूँदी

सर्वदित पा० १८८६

बेतिया (बिहार)

बम्पारन हितकारी सा० १८८४

भरतपुर

किसान सा० १६४५

निबन्धमाला — १६१५

भागलपुर (बिहार)

पीयूष प्रवाह	— १८८४
भारत पंचामृत	मा० १८८५

मिहानी (पूर्वी पंजाब)

एकता	सा० १६४२
परलोक	मा० १६३३
साथान	मा० —
श्री रंगनाथ	सा० १६४२

मंडौर [मारवाड़]

भ्री गौतम	— १६२१
-----------	--------

मथुरा

आयुर्वेदोद्धरक	मा० १८८७
कुलश्रेष्ठ समाचार	— १८८४
खत्री अधिक्षमरी	मा० १८८८
खत्री हितश्शरी	मा० १८८८
गुर्जर समाचार	मा० १८८७
जगत मित्र	मा० १८६१
जनार्दन	सा० १६४२
जीवन	सा० —
जैन गजट	— १८६६
प्रजरक्ष	मा० १८६०
प्रजवासी	मा० १८६२
प्रजविनोद	मा० १८८६
मथुरा समाचार	— १८८४
विश्वकर्मा	सा० १८६६
शिक्षक	मा० १८६१

मिर्जापुर (यू०पी०)

आनन्दकादम्बरी	मा० १८८१
आर्यपत्रिका	— १८७५
विचडी प्रकाश	सा० १८६१

खैरख्वाहे हिन्द

धर्म प्रचारक पत्र

नागरी नीरद

मिथिला नीति प्रकाश

— १८६५

— १८८५

सा० १८६३

मा० १८८८

मुजफ्फर नगर

आर्य हितैशी

आरोग्य सुधारक

ब्राह्मण समाचार

सम्यता

— १६०३

मा० १८८६

मा० १८६०

— १६१६

मुरादाबाद (यू०पी०)

कैलास

गौड हितकारी

जगत प्रकाश

जैन पत्रिका

जैन विनती

जैन हितैशी

तंत्र प्रभाकर

धर्म प्रकाश

नीति प्रकाश

सनातनधर्म पत्रका

भारत प्रकाश

भारत प्रकाश

भारत प्रताप

युगवाणी

विचार पत्रिका

वंशीशाला

सत्य

समापत्र

कर्त्तव्य हितैशी

सा० —

— १८६६

— १८६६

— १८८८

मा० १८६२

मा० १८६८

— १८८५

— १८८४

सा० १८६४

— १८६७

मा० १८६०

मा० १८६०

मा० १८६३

मा० —

मा० १८६८

— १८६४

— १८६०

— १८८८

मा० १८६४

मेरठ (यू०पी०)

आदैश

— —

आर्समाचार
जन्मभूमि
तपोभूमि
देशहितकारी
देवनागरी गजट
देवनागरी प्रचारक
धर्मोदय
नागरीप्रकाश
नारदसुनि
बनौषधिप्रकाश
बालहितैषी
भारतोद्धारक
भारतोपदेशक
भूर् गजट
ललिता
विद्यादर्श
वैद्यराज
वैश्यसुदृशापर्वतक
वैश्यहितकारी
संकीर्तन

मैनपरी (यू०पी०)

अमीर समाचार — १६१२
मोतीहारी (बिहार)
उपन्यास कुमुझलि — १६०६

यवतमाल (बरार)

सरस्वत संदेश

मा० —

रत्नाम

रत्नप्रकाश

पा० १८६८

रत्नप्रकाश

मा० १८८३

रायपर (सी०पी०)

अग्रदूत

मा० १६१५

मा० १८८५

— —

मा० १८६६

मा० १८६०

मा० १८८२

— १६१७

— १८७४

मा० १८८८

— १६१२

— १६१२

— १८६८

मा० १८६७

— १८७१

मा० १६१८

पा० १८६६

— १६१२

त्रै० —

त्रै० १८६५

मा० १६३३

— १६१२

— १८०६

— १६०६

— १६०४

— १६०४

— १६०४

— १८८३

— १८८५

— १८८७

— १८०७

— १८३८

रेवाढ़ी (पू० पं०)

चौरसिया ब्राह्मण

ज्योतिष समाचार

भक्ति

शीवां

भारतमाता

रुड़की (यू० पी०)

धर्मप्रकाश

लखनऊ

ग्रनलाहितकारक

श्रंतकाल के लक्षण

आर्थवनिता

आरोग्य जीवन

कर्मयोगी

कलदार केशरी

कलियुग के चित्र

कसौधन मित्र

कान्यकुञ्ज प्रकाश

कायस्थ उपदेश

कायस्थ पञ्चिका

काव्यामृत बर्पिणी

गुप्तचर

चक्रलस

चंद्रिका

जैन लमाचार

दिनकर प्रकाश

दिनकर प्रकाश

धर्मसभा अखबार

नागरी प्रचारक

प्रकाश

मा० १६३३

मा० १६२८

मा० १६२६

सा० १८८७

रुड़की (यू० पी०)

मा० १८६०

पा० १८८४

— १६१६

— १६०३

— १८८६

— १०—

मा०—

— १६१४

— १६१८

— १८५१

— १८४१

मा० १८८८

मा० १८८५

मा० १८८३

— १६०४

— १८०४

— १८०४

— १८८७

— १८०७

— १८३८

बालहितकारक	मा० १८६१	चांद	मा० —
बुद्धिप्रकाश	— १८८८	जैनप्रभाकर	मा० १८६१
भविष्य	सा० १६१६	पथप्रदर्शक	मा० १६२५
भारतदीपिका	— १८८१	प्रकाश	सा० १६३०
भारत पत्रिका	— १८७३	ब्रह्मविद्याप्रचारक	पा० १८६६
भारत भानू	— १८६२	भार्गव पत्रिका	मा० —
भारतवर्ष	— १८६२	भारतहितैषिणी	— १८८३
रसिक पंच	— १८८७	भारती	मा० १६३१
लोकवाणी	सा० १६४२	भारतेन्दु	— १८८३
व्यावहारिक वेदान्त	मा० १६३६	(बाद में बुन्दावन से प्रकाशित)	
विद्या	— १६१६	मतलये अनवार	— १८७२
विद्या प्रकाश	मा० १८६१	मित्रविलास	सा० १८७७
शिक्षा प्रभाकर	मा० —	युगान्तर	मा० —
शुद्धि समाचार	मा० १६२८	यिश्ववन्धु	सा० १६३२
संगठ स्कूल के पाठ	— १६१८	शक्ति	दै० १६३०
समाचार	सा० १६२६	शिक्षा	मा० १६४१
स्वतंत्र	सा० १८६५	सत्यवादी	सा० १६२५
साहित्य समालोचक	मा० —	हिन्दू बान्धव	मा० १८७६
सुखसंवाद	मा० १८८६	ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका	मा० १८६६
सुधा	मा० १६२७	लुधियाना (पूर्वी पंजाब)	
सेवक समाचार	— १६१७	नीतिप्रकाश	— १८७६
हिन्दुस्तानी	— १८८३	वर्धा (सी. पी.)	
लश्कर ज्वालियर			
जीता संसार	सा० १६४६	राजस्थान केशरी	— —
ललितपुर (यू० पी०)			
बुंदेलखण्ड अखबार	— १८७१	सब की बोली	मा० १६३६
लाहौर			
आर्य	सा० —	सर्वोदय	मा० —
आर्य जगत	—	बुन्दावन (यू० पी०)	
इन्दु	मा० १८८३	उपन्यास प्रचार	— १६१२
		भारतेन्दु	पा० १८८३
		विश्वबुन्दावन	पा० १८६२
		सद्गुर्म	* — १६०६
		श्रीकृष्ण चैतन्यचन्द्रिका	— १६१०

श्रीवैष्णवधर्म दिवाकर	— १६०८	उदय	सा. —
सुदर्शनचक्र	सा. १६६०	गोलपर्व जैन	— १६१६
शाहजहांपुर (यू. पी.)		बच्चों की दुनियां	पा. —
आजान	— १८७७	समालोचक	मा. १६२४
आर्यदर्पण	मा. १८७६		
आर्यभूषण	मा. १८७६	सीकर [जयपुर]	सा. १६४५
तिजारत	मा. —	दापक	
द्विजदर्पण	— १८६२		
शुभचितक	मा. १८८३	श्री नगर [काश्मीर]	
सत्यकेतू	— १६१६	खलीद श्रीनगर	मा० १६३८
शिकारपुर (सिंध)		(हिन्दी व उर्दू दोनों में प्रकाशित)	
सिधुसमाचार	मा. —	सुलतानगञ्ज [यू०पी०]	
शिलांग (आसाम)		गङ्गा	मा० १६३०
सुग्रहिणी	मा. १८८६	हरदोई [यू०पी०]	
शिवपरी (गवालियर)		ब्राह्मण समाचार	— १८६५
विजयसन्देश	मा. १६४०	श्रीराम	
सहारनपुर (यू. पी.)		श्रीराम सदानन्द	— १६०८
जीवन और सूत्रधार	सा. १६३६		
जैनहितोपदेशक	मा. १८६८	हाथरस [यू. पी.]	
शान्ति	— --	मधुर जीवन	मा. १६३७
चनातनधर्म	मा. १८६८	हिन्दू शहस्र	मा. १६४३
सर्वस्व	मा. १६३५		
सांडर्स गजट	— १८७१	माहेश्वरी	— १८६७
हिन्दी सम्बन्ध सहायक	सा. —	होशंगाबाद [सी. पी.]	
सागर [सी. पी.]		सत्यवक्ता	मा. १८६१
इत्तेहाद	सा. —	व्यापार	
प्रकाशित होकर बन्द हुए कुछ अन्य पत्र		हैदराबाद	सा. १६४७
अ० भा० कृत्रियहितैशी	१६२३	श्रीदर्शन महिला	१६३६
अभयराम ब्रह्मवाणी	१६३७	श्रीष्ट ज्येति	१६२५
अशोक	१६३४	ऋषिवेद विद्याप्रकाश	१६३६

उत्थान	१६३७	भष्ट	१६२६
अक्षवास कुसुम	१६२८	भारतचन्द्रोदय	१६२५
उषा	१६२५	भारतभूपर्ण	१६३४
कला	१६३९	भारतवर्ष	१६२६
कवि कौमुदी	१६२४	भारतविज्ञ	१६२६
कानून	१६४०	भारतेन्दु	१६३०
कोण्डुकर्णधार	१६२६	माथुर वैश्य सुधारक	१६३०
कामधेनु	१८७६	मानस पियूष	१६२५
कायस्थवन्धु	१६३७	मालवा अखबार	१८४६
काव्यसर्वस्व	१६३०	यादव सुधार	१६३०
कुर्मीक्षिय	१६२५	युग प्रवेश	१६२६
कुशबाहा त्रिय	१६३०	राजस्थान महिला	१६३१
गरीब किसान का आवेदन	१६३२	रोनियार वैश्य	१६२६
चातक	१६४१	लोकधर्म	१६३०
चिन्तरदरबार	१६३५	कण्ठी	१६३१
चित्रपट	१६२५	विविधवृत्त	१६३५
चित्रवंशीय	१६२६	वेदपात्र	१६२८
चित्रहितैषी	१६२७	वैश्यसंरक्षक	१६३४
जगत आशानो	१८७४	सनात्न वन्धु	१६२४
ज्ञायसवाल मित्र	१६२४	सन्त	१६२३
जीवन ज्योति	१६३७	स्वराज्य शिद्धा	१६२३
” ”	१६४०	स्वराज्य शित्क	१६२३
दिक्षकर	१६२५	सेक्क	१६२३
देशभक्त	१६२३	सेमप्रकाश	१६२५
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक	१६२२	संगीत भास्कर	१६२३
देश हितैषी	१६२२	श्रीगौतम	१६२१
देहाती लेखपाला	१६३५	श्रीएमसकथामृत	१६२५
नांगरिक शिल्पा	१६४४	श्री. विश्वेश्वरस	१६४०
प्रतिभा	१६३१	हलवाई कान्यकुञ्ज	१६३४
वसिया गजट	१६२८	हसर्हल	१६३६
वसिया गु	१६३७	हातिशाहर पत्रिका	१८७३
वेश्वा उमाचार	१८७३		

